



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2024—अग्रहायण 1, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2024

क्र. ई-5-1238-आयएस-लीव-5-एक.—श्री रामप्रकाश अहिरवार, भाप्रसे (2018) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर को दिनांक 5 से 7 नवम्बर 2024 तक तीन दिवसीय स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस-2024, बार्सिलोना, स्पेन में सम्मिलित कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 8 से 11 नवम्बर 2024 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रामप्रकाश अहिरवार, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री रामप्रकाश अहिरवार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामप्रकाश अहिरवार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

क्र. ई-5-1062-आयएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अगस्त 2024 द्वारा श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता, विवाद प्रतियोगिता आयोग, भोपाल का दिनांक 12 से 30 अगस्त 2024 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 10, 11 अगस्त 2024 एवं दिनांक 31 अगस्त 2024, 1 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया गया था, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

5961

क्रमांक ई-1/240/2024/5/एक

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर, 2024

नीचे तालिका के खाना-2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना-3 में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

| क्र. | अधिकारी का नाम/बैच एवं वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना | खाना 3 में अंकित पद असंवर्णीय होने की दशा में संवर्णीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया |
|------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | श्री मनु श्रीवास्तव, (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 2. | श्री नीरज मंडलोई, (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 3. | श्री संजय कुमार शुक्ल, (1994), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | — |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 4. | श्री उमाकांत उमराव, (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम, भोपाल तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 5. | श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (1997) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 6. | श्री गुलशन बामरा (1997) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एफ्को (अतिरिक्त प्रभार) | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग | — |
| 7. | डॉ. ई. रमेश कुमार (1999) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग | — |
| 8. | डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) | सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एफ्को (अतिरिक्त प्रभार) | — |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 9. | श्री श्रीमन शुक्ल (2007) आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल | आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल | — |
| 10. | श्री मदन विभीषण नागरगोजे (2007) सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर | आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश, भोपाल प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 11. | श्रीमती सुरभि गुप्ता (2008) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल | — |
| 12. | श्री दिलीप कुमार (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल | आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 13. | सुश्री प्रियंका दास (2009), मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग | — |
| 14. | श्रीमती प्रीति मैथिल (2009), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वि.क.अ.-सह-अपर संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 15. | श्री मनीष सिंह (2009), आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 16. | श्री अनुराग चौधरी (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | — |

| | | | |
|-----|--|--|-----------------------|
| 17. | श्री मोहित बुंदस (2011) प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम, तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | अपर सचिव, म.प्र. शासन |
| 18. | श्री मनोज पुष्प (2011), संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल | अपर सचिव, म.प्र. शासन |
| 19. | श्री गौतम सिंह (2011) परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार (अतिरिक्त प्रभार) | अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग | — |
| 20. | श्री गिरीश शर्मा (2011) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 21. | डॉ. पंकज जैन (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा अपर आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल तथा सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | उप सचिव, म.प्र. शासन |

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------|
| 22. | सुश्री निधि निवेदिता (2012), प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) | — |
| 23. | श्री कुमार पुरुषोत्तम (2012), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल | उप सचिव, म.प्र. शासन |
| 24. | श्रीमती उमा महेश्वरी आर. (2013) अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल | वि.क.अ.-सह-आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | उप सचिव, म.प्र. शासन |
| 25. | डॉ. सलोनी सिडाना (2014), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को), भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | उप सचिव, म.प्र. शासन |
| 26. | श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना (2016), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग | उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) | — |

2/ डॉ राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990), अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

- 3/ श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
- 4/ श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे (2009) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
- 5/ श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे (2016) संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यपालक निदेशक, मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।
- 6/ उपरोक्तानुसार श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991) द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।
- 7/ उपरोक्तानुसार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे (1997) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।
- 8/ श्री सिबि चक्रवर्ती एम., भाप्रसे (2008) आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।
- 9/ उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने से श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे (2015) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति

* प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

10/ उपरोक्तानुसार श्री कुमार पुरुषोत्तम, भाप्रसे (2012) द्वारा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा सचिव "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

11/ उपरोक्तानुसार सुश्री निधि निवेदिता, भाप्रसे (2012), द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2024

क्र. ई-1-226-2024-5-एक.—श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे (2010), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-1205-आयएस-लीव-5-एक.—श्री टी. प्रतीक राव, भाप्रसे (2021) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) इटारसी, जिला नर्मदापुरम को दिनांक 13 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 7, 8 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में दिनांक 23 नवम्बर 2024 से दिनांक 6 दिसम्बर 2024 तक चौदह दिन का अवकाश एक्स इंडिया अर्जित अवकाश हेतु स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. प्रतीक राव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) इटारसी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

3. अवकाशकाल में श्री टी. प्रतीक राव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. प्रतीक राव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1255-आयएस-लीव-5-एक.—सुश्री अनिशा श्रीवास्तव, भाप्रसे (2021) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पिपरिया जिला नर्मदापुरम को दिनांक 13 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक चौबीस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 7, 8 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में दिनांक 23 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश हेतु स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री अनिशा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पिपरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

3. अवकाशकाल में सुश्री अनिशा श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अनिशा श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1 (ए) 17-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डालूराम तेनीवार, भाप्रसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 14 नवम्बर 2024 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-17 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत गोवा जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री डालूराम तेनीवार | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती संपत तेनीवार | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डालूराम तेनीवार, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डालूराम तेनीवार, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डालूराम तेनीवार, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1 (ए) 156-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2024 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 7, 8 व 14, 15 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत मदिकेरी (कुर्ग) कर्नाटक जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

- | | | |
|------------------------------|---|-------|
| 1. श्री पवन कुमार श्रीवास्तव | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती भावना श्रीवास्तव | — | पत्नी |
| 3. श्री कान्हा श्रीवास्तव | — | पुत्र |
| 4. श्री श्रेयस श्रीवास्तव | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1 (ए) 12-2005-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री योगेश मुदगल, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2024 व 11-12 जनवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत लक्षदीप (कावारती) वाया दिल्ली वापसी कोच्ची/मदुरई जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. श्री योगेश मुदगल | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती संजुक्ता मुदगल | — | पत्नी |
| 3. श्री अरस्तू मुदगल | — | पुत्र |
| 4. श्री जन्मेजय मुदगल | — | पुत्र |

(2) श्री योगेश मुदगल, भापुसे के अवकाश अवधि में विशेष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश मुदगल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेश मुदगल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2024

क्र. 4440-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री यशवंत मालवीय, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा का स्थानान्तरण 19वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

क्र. 4468-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर का स्थानान्तरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

फा. क्र. 4399-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती संगीता यादव, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीए) एक्ट, हरदा की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ILR & Examination) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर श्री आशीष कुमार मिश्रा के स्थान पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 4403-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाने हेतु उच्च न्यायिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों की सेवाएं उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है :—

| क्र. (1) | अधिकारी का नाम तथा पद (2) | नवीन पदस्थापना (3) |
|-------------|---|---|
| 1 | श्री हर्ष सिंह बहरावत, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल. | रजिस्ट्रार (Administration) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में श्री दीपक बंसल के स्थान पर. |
| 2 | श्री नीरज मालवीय, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा. | विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के पद पर. |
| 3 | श्री अजय पंडम, पच्चीस वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर. | रजिस्ट्रार (Inspection & Litigation) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में श्री जयन्त शर्मा के स्थान पर. |

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 4407-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री धरमिंदर सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी की सेवाएं रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर नियुक्त कर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 4408-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर जिला न्यायाधीश (Inspection), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, इंदौर जोन, इंदौर के रिक्त पद पर नियुक्त किये जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
(विन्ध्याचल भवन, प्रथम-तल)

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2024

पंजी क्र. 3035-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला झाबुआ में विभागीय आदेश दिनांक 6 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री स्वप्निल सक्सेना को, स्वयं के अनुरोध के आधार पर तत्काल प्रभाव से उनका नाम नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

पंजी क्र. 3037-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, रीवा में विभागीय आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2023 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री जीवेश कुमार तिवारी को उनके द्वारा प्रेषित त्याग-पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2024

फा. क्र. 3038-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री दिनेश श्रीवास्तव, नोटरी, गुना के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शपथ ग्रहिता के हस्ताक्षर कराये बगैर शपथ-पत्र सत्यापित किये जाने का दोषी पाया है। जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

फा. क्र. 3039-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, सुश्री अल्पना माचीवाल, नोटरी, तहसील जावरा, जिला रतलाम के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुबंध-पत्र पर नोटरी रजिस्टर के क्रमांक नहीं अंकित किये जाने का दोषी पाया है। जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 3044-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला इंदौर में विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री मोहन पाल को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर व्यवहार प्रकरणों में शपथ-पत्र तस्दीक करने, अभिलेख उचित प्रारूप में संधारित न किये जाने एवं उनके द्वारा नोटरी कार्य संपादन बेहद औपचारिकता तथा लचीलेपन से करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 के खण्ड (घ) एवं नोटरी नियम, 13 के अधीन तत्काल प्रभाव से उनका नोटरी प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 3047-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला सतना में विभागीय आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री प्रकाश नारायण त्रिपाठी को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह के संबंध में घोषणा-पत्र निष्पादित किये जाने एवं विवाह संबंधी एवं विवाह विच्छेद संबंधी शपथ पत्र तस्दीक करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम 12(ख) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभार से उनका नोटरी प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 3050-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ में विभागीय आदेश दिनांक 13 अगस्त 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री ललित बंधवार को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिये जाने एवं विवाह व विवाह विच्छेद के संबंध में अनुबंध दस्तावेज निष्पादित करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(घ) एवं नोटरी नियम 1956, के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभार से उनका नोटरी प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

फा. क्र. 3051-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजेश शर्मा, नोटरी, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद (नर्मदापुरम) से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर फर्जी शपथ-पत्र तैयार करने का दोषी पाया है। जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम, 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) (I) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 3069-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन एतद्द्वारा, जिला इंदौर में विभागीय आदेश दिनांक 21 जून 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री अनिल तोलानी को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अधिकारिता के बाहर अवैधानिक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों को तस्दीक करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप नोटरी, 1956 के नियम 10(घ) के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभार से उनका नोटरी नियम प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

पंजी. क्र. 3073-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला इंदौर में विभागीय आदेश दिनांक 18 फरवरी 2020 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री कन्हैयालाल यादव को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अधिकारिता के बाहर न्यायालय में पेश होने वाले शपथ-पत्रों को नोटरीकरण करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(घ) एवं नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के अधीन तत्काल प्रभार से उनका नोटरी प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2024

पंजी. क्र. 3139-2024-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला झाबुआ में विभागीय आदेश दिनांक 6 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री मानसिंह भूरिया को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह के संबंध में शपथ पत्र तस्दीक करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप नोटरी, 1956 के नियम 13 के उपनियम 12(ख) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभार से उनका नोटरी प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुए, स्थायी रूप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल****भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2024****सूचना**

क्र.-यूडीएच-3-0023-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बालाघाट, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बालाघाट, मध्यप्रदेश

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2024

क्र. यूडीएच-03-0023-2024-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक यूडीएच-03-0023-2024-अठारह-5, दिनांक 13 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव.

Bhopal, the 13th November 2024**NOTICE**

No.UDH-3-0023-2024-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Balaghat (Planning Area) 2035 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

1. Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, Madhya Pradesh
2. Collector, District Balaghat, Madhya Pradesh
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parisad, Balaghat, Madhya Pradesh
4. Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Balaghat, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY Dy. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्रमांक/ PCCF/7/0074/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला- जबलपुर
वनमंडल- जबलपुरतहसील- कुण्डम
वन परिक्षेत्र- कुण्डम

| अ. क्र. | वन खण्ड की भूमि का विवरण | | | | | वनखण्ड की सीमाएं |
|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|--|
| | प्रस्तावित वनखंड का नाम | ग्राम का नाम/ पटवारी हल्का नं. | भूमि का वर्तमान मद | खसरा क्र. | रकबा (हेक्टेयर) | |
| 1. | बार्तारी (ई) | बार | चरनाई | 77/1/1 (S) | 15.00 | उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 से 68 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 46 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46 से 48 तक कृत्रिम वन सीमा। |
| | | | | योग | 15.00 | |

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27/12/2023 एवं दिनांक 29/01/2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई जबलपुर की स्वीकृत परियोजना जबलपुर रिंग रोड में प्रभावित 9.2444 + 4.9466 = 14.191 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 15.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) जबलपुर के आदेश क्रमांक 0001/अ-19(3)/2023-24 दिनांक 24/07/2023 से हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कुण्डम के प्रतिवेदन दिनांक 04/11/2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्र. PCCF-7-0074-2024-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0074-2024-FLR-PCCF का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 14th November 2024

No./PCCF/7/0074/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manners except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District:- Jabalpur
Forest Division :- Jabalpur

Tahsil :- Kundam
Forest Range:- Kundam

| S. No. | Name of Proposed Forest Block | Details of Land included | | | | Forest Block Boundaries |
|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------|--|
| | | Name of Village | Present head of land | Khasara No. | Area (Hectare) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bartouri (E) | Bar | Charnoi | 77/1/1 (S) | 15.00 | North- Artificial forest boundary from pillar Number 48 to 68 and 1 of proposed protected forest . East- Artificial Forest Boundary from pillar Number 1 to 13 of Proposed protected forest. South- Artificial Forest Boundary from pillar Number 13 to 46 of Proposed protected forest. West- Artificial Forest Boundary from pillar Number 46 to 48 of Proposed protected forest. |
| | | | | Total | 15.00 | |

A. Reason for publication of Notification :-

1- In accordance with the condition laid down in the Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter dated 27/12/2023 and 29/01/2024 and in lieu of 9.2444 + 4.9466 = 14.191 hectare of affected forest land Received 15 hectare Non forest land under the sanctioned project of Jabalpur Ring Road of National Highway Authority of India Project Implementation Unit Jabalpur, the above mentioned Non Forest Land of 15.00 hectare transferred and muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 0001/v&19(3)/2023-24 dated 24/07/2023 of Nyayalay Additional Collector (Rural) Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons – Nil

The khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 04/11/2023 of Tahsildar Kundam are as under.

1. Individuals Rights – Nil
2. Communities Rights – Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act. 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 356-भू-अर्जन-2024

सिंगरौली, दिनांक 15 मार्च 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद 2 में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु।
- (2) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला :- सिंगरौली
- (ख) तहसील :- चितरंगी
- (ग) ग्राम :- कर्तुआ 0070
- (घ) लगभग क्षेत्रफल :- निजी रकबा 0.732 हे०

| क्र० | भूमिस्वामी/पिता/पति का नाम व पता | खसरा नम्बर | कुल क्षेत्रफल (हे० में) | अर्जित रकबा (हे० में) | टिप्पणी |
|------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | नोमशंकर पाण्डेय पिता शिवप्रसाद पाण्डेय | 288/1/1/1 | 0.020 | 0.010 | निजी |
| 2 | प्रकाश तिवारी पिता परमेश्वरदीन तिवारी | 288/1/1/2 | 0.010 | 0.005 | निजी |
| 3 | मंयोगिता देवी माता रमूनिया जाति ब्रा. | 288/1/2 | 0.030 | 0.020 | निजी |
| 4 | रमूनिया पत्नी महेश्वरी जानि ब्राम्हण | 288/1/3/1/1/1/1 | 0.290 | 0.005 | निजी |
| 5 | पद्मबाग मिह पिता मकरध्वज मिह परिवार | 288/1/3/1/1/2 | 0.020 | 0.008 | निजी |
| 6 | आशीष कुमार पयासी पिता अशोक कुमार पयासी | 288/1/3/1/2 | 0.010 | 0.005 | निजी |
| 7 | प्रकाश रस्तोगी पिता रामेश्वर प्रसाद रस्तोगी | 288/1/3/2 | 0.010 | 0.005 | निजी |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-------|-------|------|
| 8 | शिवकुमार पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/2/1 | 0.030 | 0.005 | निजी |
| 9 | प्रवीण कुमार पाण्डेय पिता शिवकुमार पाण्डेय जाति ब्राम्हण | 288/2/2 | 0.030 | 0.020 | निजी |
| 10 | विवेक कुमार पाण्डेय पिता शिवकुमार पाण्डेय जाति ब्राम्हण | 288/2/3 | 0.030 | 0.020 | निजी |
| 11 | विनीत कुमार पाण्डेय पिता शिवकुमार पाण्डेय जाति ब्राम्हण | 288/2/4 | 0.030 | 0.020 | निजी |
| 12 | शिवकुमार पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/2/5/1 | 0.270 | 0.005 | निजी |
| 13 | रिंकी पाठक पिता नागेंद्र पाठक | 288/2/5/2 | 0.010 | 0.010 | निजी |
| 14 | राजकुमार पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/3/1/1/1/1/1 | 0.300 | 0.010 | निजी |
| 15 | कृशव देव सिंह नावालिग पिता अनिल प्रताप सिंह संरक्षक अखिलेन्द्र प्रताप | 288/3/1/1/1/2 | 0.008 | 0.007 | निजी |
| 16 | पूनीत सिंह पिता सुखेन्द्र सिंह | 288/3/1/1/2 | 0.008 | 0.006 | निजी |
| 17 | जीवेन्द्र सिंह पिता हरिहरण सिंह | 288/3/1/2 | 0.004 | 0.004 | निजी |
| 18 | नीरज पिता दीनदयाल जानि चतुर्वेदी | 288/3/1/3 | 0.008 | 0.004 | निजी |
| 19 | दिव्या पुत्री राजकुमार | 288/3/1/4 | 0.020 | 0.020 | निजी |
| 20 | प्रांशु पिता रमाशंकर पाण्डेय | 288/3/1/6 | 0.004 | 0.004 | निजी |
| 21 | मंगीता सिंह पत्नी स्वतंत्र सिंह | 288/3/1/7 | 0.008 | 0.004 | निजी |
| 22 | सुरेंद्र बहादुर सिंह पिता उदयरज सिंह | 288/3/1/8 | 0.008 | 0.004 | निजी |
| 23 | शत्रुघ्न सिंह पिता संतबहादुर सिंह | 288/3/2 | 0.008 | 0.004 | निजी |
| 24 | रामकुमार पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/4/1 | 0.020 | 0.010 | निजी |
| 25 | स्मृती पिता रामकुमार जाति ब्राम्हण | 288/4/2 | 0.020 | 0.010 | निजी |
| 26 | दीपा पिता रामकुमार जानि ब्राम्हण | 288/4/3 | 0.020 | 0.010 | निजी |
| 27 | माधी नावालिग पिता रामकुमार संरक्षक रामकुमार जाति ब्राम्हण | 288/4/4 | 0.020 | 0.010 | निजी |
| 28 | आयुष्मान पाण्डेय नावालिग पिता रामकुमार संरक्षक रामकुमार जाति ब्राम्हण | 288/4/5 | 0.020 | 0.010 | निजी |
| 29 | आस्तिक पाण्डेय नावालिग पिता रामकुमार संरक्षक रामकुमार जाति ब्राम्हण | 288/4/6 | 0.020 | 0.010 | निजी |
| 30 | रामकुमार पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/4/7/1/1 | 0.260 | 0.010 | निजी |
| 31 | शुभम दुबे पिता शिवप्रकाश दुबे जाति ब्राम्हण | 288/4/7/1/2 | 0.010 | 0.010 | निजी |
| 32 | पुष्परज सिंह पिता वंशबहादुर सिंह | 288/4/7/2 | 0.010 | 0.002 | निजी |
| 33 | रामदयाल पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/5/1 | 0.030 | 0.010 | निजी |
| 34 | आशीष पाण्डेय नावालिग पिता रामदयाल संरक्षक रामदयाल जाति ब्राम्हण | 288/5/2 | 0.030 | 0.030 | निजी |
| 35 | कृति नावालिग पिता रामदयाल संरक्षक रामदयाल जाति ब्राम्हण | 288/5/3 | 0.030 | 0.030 | निजी |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-------|-------|------|
| 36 | रामदयाल पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/5/4 | 0.310 | 0.010 | निजी |
| 37 | नन्ददयाल पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/6/1 | 0.030 | 0.010 | निजी |
| 38 | आदर्श पाण्डेय नाबालिग पिता नन्ददयाल मंगधक नन्ददयाल जाति ब्राम्हण | 288/6/2 | 0.030 | 0.020 | निजी |
| 39 | अर्कित नाबालिग पिता नन्ददयाल मंगधक नन्ददयाल जाति ब्राम्हण | 288/6/3 | 0.030 | 0.020 | निजी |
| 40 | नन्ददयाल पिता महेश्वरी जाति ब्राम्हण | 288/6/4/1 | 0.290 | 0.010 | निजी |
| 41 | पुष्पांजली द्विवेदी पति प्रमोद कुमार द्विवेदी | 288/6/4/2 | 0.020 | 0.020 | निजी |
| 42 | महेश्वरी प्रसाद पिता अभिलाख राम जाति ब्राम्हण | 288/7 | 0.360 | 0.005 | निजी |
| 43 | नागेश्वर प्रसाद पिता रामभरोश | 291 | 1.240 | 0.280 | निजी |
| | बन्दी प्रसाद पिता मनरंजन | | | | |
| | राम धनी पिता नर्वदा प्रसाद | | | | |
| | राम गरीब पिता नर्वदा प्रसाद | | | | |
| | रजरनिया बेवा नर्वदा जाति भूतिया | | | | |
| | जग्यनरायण पिता ददई जाति भूतिया | | | | |
| | द्वारिका पिता छोटकऊ जाति भूतिया | | | | |
| | आनन्द पिता महेन्द्र भूतिया | | | | |
| निजी पट्टे की भूमि का योग - | | 43 किता | 3.966 | 0.732 | |

चूँकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे० भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है। अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 171-भू-अर्जन-24

देवास, दिनांक 18 मार्च 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में "औंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम-प्रेमगढ, तहसील उदयनगर जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "औंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम-प्रेमगढ, तहसील उदयनगर जिला देवास

| क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में) | | |
|------|--|--|---------|------|
| | | सिंचित | असिंचित | योग |
| 1. | औंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

अनुसूची-2

" औंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना" के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम प्रेमगढ, तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम-प्रेमगढ, तहसील उदयनगर जिला देवास

| क्र. | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम | खसरा कं. | भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में) | | | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में) | | |
|------|--|----------|------------------------------------|---------|------|--|---------|------|
| | | | सिंचित | असिंचित | कुल | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1. | बुधिया, जगदीश, निर्भयसिंह, गोपाल पिता देवा, नर्मदाबाई, मथुराबाई देवा | 62/1 | 0.45 | — | 0.45 | 0.45 | — | 0.45 |
| 2. | सजनबाई देवा बोंन्दर, बालकिशन पिता बोंन्दर | 83/1 | 0.15 | — | 0.15 | 0.05 | — | 0.05 |
| | योग | | 0.60 | | 0.60 | 0.50 | | 0.50 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 11 नवम्बर 2024

क्रमांक/भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 677/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सुल्तानपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

:-अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

| क्र | भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान | खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टेयर) | अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर) |
|-----|---|-------------|---------------------|--|
| 1 | रामकरण पिता रमेश जाति सौधिया | 602/2 | 0.127 | 0.045 |
| 2 | धापूबाई बेवा बापूलाल, गोकूल, चम्पालाल पिता बापूलाल, शांतिबाई, अनोखबाई पिता बापूलाल जाति चमार (सेवा भूमि शासकीय) | 557/2/1 | 1.488 | 0.336 |
| 3 | जगदीश पिता रघुनाथ जाति सौधिया | 440/1/1/1/1 | 0.277 | 0.065 |
| 4 | अनारसिंह पिता घीसालाल जाति सौधिया | 429/1/1 | 0.142 | 0.142 |
| | | 429/1/2 | 0.079 | 0.064 |
| 5 | धीरपसिंह पिता घीसालाल जाति सौधिया | 429/1/4 | 0.070 | 0.070 |
| 6 | धूलजी पिता घीसालाल जाति सौधिया | 429/1/3 | 0.143 | 0.075 |
| 7 | देवबाई पिता फत्ता जी जाति सौधिया | 404/1 | 0.573 | 0.101 |
| | | 403/1 | 0.388 | 0.028 |
| 8 | धापूबाई बेवा बापूलाल, गोकूल, चम्पालाल पिता बापूलाल, शांतिबाई, अनोखबाई पिता बापूलाल जाति चमार | 408/2/1/1 | 0.119 | 0.032 |
| | कुलयोग:- | 10 | 3.406 | 0.958 |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क.-01-अ-82-2024-25

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामपुरिया जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ रामपुरिया जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

रामपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण

| स.क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर | | |
|-----------|-----------|---|----------|-------------------------|
| | | कुल सर्वे नं. | कुल रकबा | प्रभावित रकबा (हेक्टे.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | रामपुरिया | 9 | 4.037 | 0.970 |
| कुलयोग :- | | 9 | 4.037 | 0.970 |

-: अनुसूची (2) :-

रामपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम रामपुरिया

| स.क्र. | प्रभावित कृषक का नाम | खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टे.) | शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.) |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | देवेन्द्र पिता नारायणसिंह नाबा. सरपरस्त माता अनुसुईयाबाई पति नारायणसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 17/13/1 | 0.119 | 0.038 |
| | योग | 1 | 0.119 | 0.038 |
| 2 | रतन उर्फ रतनसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 17/21 | 0.745 | 0.097 |
| | योग | 1 | 0.745 | 0.097 |
| 3 | कालूसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 17/30 | 0.133 | 0.012 |
| | योग | 1 | 0.133 | 0.012 |
| 4 | बल्लभबाई पति अनारसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 17/39/1 | 0.511 | 0.126 |
| | योग | 1 | 0.511 | 0.126 |
| 5 | बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 17/40 | 1.265 | 0.178 |
| | योग | 1 | 1.265 | 0.178 |
| 6 | भेरूसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 17/41/1 17/41/3 | 0.212 0.420 | 0.202 0.103 |
| | योग | 2 | 0.632 | 0.305 |
| 7 | कमलाबाई पति बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी | 17/41/2 17/41/4 | 0.212 0.420 | 0.177 0.037 |
| | योग | 2 | 0.632 | 0.214 |
| कुल योग :- | | 9 | 4.037 | 0.970 |

नोट :- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 09-अ-82-2023-24-भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 12 अक्टूबर 2024

चूंकि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम म.प्र. शासन सेमरी-बेना मार्ग पर सिंध नदी पर जलमग्निय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सेमरी तहसील डबरा जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.596 हेक्टेयर की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भूमि स्वत्व, भूमिस्वामियों द्वारा आपसी सहमति से क्रयनीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-‘ख’ में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्रयनीति की आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत साधारण की सूचना के लिये सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला:- ग्वालियर

ग्राम:- सेमरी

अर्जित क्षेत्रफल:-

0.596 है.

तहसील:-

डबरा

| स. क. | भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान | खसरां. | कुल क्षेत्रफल (हे.में) | अर्जित क्षे. (हे. में) | अन्य सम्पत्ति | अन्य संरचना |
|-------|---|--------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 1 | मन्नी बेवा रामसेवक जाति दीमर पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भाग 1/4, के लिए। मुरारी पुत्र रामसेवक जाति दीमर पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भाग 1/4, के लिए। विजेन्द्र पुत्र रामसेवक जाति दीमर पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भाग 1/4, के लिए। पुष्पेभवती पुत्री रामसेवक जाति दीमर पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भाग 1/4, के लिए। | 301 | 0.960 हे. | 0.153 हे. | — | — |
| 2 | ज्ञानाबाई पत्नी गोटीराम, हिस्सा 1/4, प्रहलाद पुत्र गोटीराम हिस्सा 1/4, कैलाश पुत्र गोटीराम हिस्सा 1/4, रामेश्वर पुत्र गोटीराम समस्त जाति गड़रिया पता नि. ग्राम सेमरी तहसील डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी। | 302/2 | 0.440 हे. | 0.003 हे. | — | — |
| 3 | सालिगराम पुत्र कमला जाति गड़रिया पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भाग 1/18, के लिए. सगुना पत्नी करनसिंह जाति गड़रिया, पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/90, कुंठी, कल्लौ, रानू, पुत्री करनसिंह जाति गड़रिया, पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी, 3/90, रविन्द्र पुत्र करनसिंह जाति गड़रिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी 1/90, सुकुमारी पत्नी सुरेन्द्र जाति गड़रिया, पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/180, विकास पुत्र सुरेन्द्र जाति गड़रिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/180, सरमनिया बेवा कमला जाति गड़रिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/18, पांचो पुत्री कमला जाति गड़रिया, पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/18, पुखो पुत्री कमला जाति गड़रिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा | 304 | 0.830 हे. | 0.090 हे. | — | — |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----------|-----------|---|
| | 1/18, कलावती पुत्री कमला जाति गडरिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/18, अनीता पुत्री कमला जाति गडरिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/18, नारायण पुत्र रामलाल जाति गडरिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/3, मुमानदेवी बेवा गोविन्दी जाति गडरिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/15, धनीराम पुत्र गोविन्दी जाति गडरिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/15, अलबेलसिंह पुत्र गोविन्दी जाति गडरिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/15, केदारसिंह पुत्र गोविन्दी, जाति गडरिया पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/15, | | | | |
| 4 | धनीराम पुत्र चिरोजी जाति जाटव पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हिस्सा 1/5 भाग के लिए। गौराबाई पत्नी मोहनसिंह जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/25, बिहारीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण मोहनसिंह पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 2/25, जानकी, गिरजा, पुत्री मोहनसिंह पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 2/25, हरको बेवा बद्री प्रसाद जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/20, कालीचरण पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/20, छोटेलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/20, राजू पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/20, भगरीलाल पुत्र तुलाराम जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/10, रामहेत पुत्र तुलाराम जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/10, बाबूलाल, रामस्वरूप पुत्रगण मुलुआ जाति जाटव पता सेमरी डबरा ग्वालियर म.प्र. भूस्वामी हिस्सा 1/5, | 532 | 2.780 हे. | 0.143 हे. | - |
| 5 | जवाहरसिंह पुत्र पातीराम पता डबरा, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी। भाग 1/12, सुरेश पुत्र राधेलाल, भूरा, रामसेवक, हरीराम, छोटेलाल, पुत्रगण राधेलाल पता सेमरी, डबरा, ग्वालियर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी। हिस्सा भाग 1/3 के लिए। कल्लू पुत्र पातीराम पता डबरा, ग्वालियर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी। हिस्सा भाग 1/12 के लिए। राजू पुत्र पातीराम पता डबरा, ग्वालियर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी। हि. 1/12 के लिए। अंगूरी पुत्री पातीराम पता डबरा, ग्वालियर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी। भाग 1/12 के लिए। अंगूरी पत्नी रामस्वरूप पता डबरा, ग्वालियर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी। भाग 1/6 के लिए। भूरेलाल पुत्र राधेलाल जाटव पता ग्वालियर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी। भाग 1/6 के लिए। | 533 | 0.460 हे. | 0.020 हे. | - |
| 6 | विजयसिंह पुत्र आदिराम जाति गडरिया पता ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी। | 544 | 2.510 हे. | 0.187 हे. | - |
| | कुल योग | - | 7.980 हे. | 0.596 हे. | - |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रुचिका चौहान कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 1896-अ.वि.अ-भू-अर्जन-2024-रा.मा.क्र. 0008-अ-82-2023-24

नरसिंहपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2024

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कि लिये बोरास बेराज डूब क्षेत्र
2. भूमि का विवरण
 1. जिला : नरसिंहपुर
 2. तहसील : साईंखेड़ा
 3. ग्राम : उत्थन
 4. प.ह.नं. : 48
 5. नं.ब. : 394
 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 7.263 हे.

अनुसूची 2

| क्रं. | हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर | अर्जित रकबा हे. में |
|-------|---|---------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | भूरा पिता भद्रा ढीमर उल्थन | भूमिस्वामी | 3/1 (s) | 0.128 |
| | | भूमिस्वामी | 19/1(s) | 0.004 |
| 2. | मंगोबाई बेवा रामदयाल ढीमर बडवीर, प्रेमाबाई पिस. रामदयाल ढीमर | भूमिस्वामी | 3/2/1(s) | 0.068 |
| 3. | जीराबाई बेवा छोटे, राजेन्द्र, धर्मेन्द्र, आरती, भागवती, पिस. छोटे जाति ढीमर निवासी उल्थन | भूमिस्वामी | 3/2/2(s) | 0.041 |
| 4. | प्रह्लाददास पिता श्यामदास बैरागी धनश्यामदास पिता परषोत्तम दास बैरागी पार्वतीबाई बेवा परमेश्वरदास बैरागी किशनदास, बालमुकुन्द, देवीदास, श्रीरामदास, भीकमदास, मायाबाई, गीताबाई, सिरेबाई, विध्याबाई, पिस. परमेश्वरदास बैरागी गणेशदास, नरसिंहदास, रामकुमारदास, मोहनदास, सुमनबाई पिस. मनोहरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 7(s) | 0.008 |
| 5. | कारेलाल, केशरबाई, मुन्नीबाई, हल्कीबाई पिस. अतरसिंह गौड | भूमिस्वामी | 10/1/4(s) | 0.012 |
| 6. | दशोदा बाई पत्नी शंकरदास बैरागी नारायणदास विष्णुदास, किशोरदास, पिस. शंकरदास बैरागी औंकारदास, सनोवरदास पिस. कमलदास बैरागी शिबूदास पिता वृन्दावनदास बैरागी सत्यनारायणदास, रमेश, हल्कीबाई पिस. कोमलदास बैरागी धनश्यामदास पिता परषोत्तमदास बैरागी | भूमिस्वामी | 11(s) | 0.016 |
| 7. | रमेश, मुन्नालाल, अशोक, लालू, कांता बाई, राधा बाई, ममता बाई पिस. सुदामा ढीमर | भूमिस्वामी | 13/2(s) | 0.220 |
| 8. | प्रकाश पिता रमेश नौरिया उल्थन | भूमिस्वामी | 13/3/2(s) | 0.010 |
| 9. | दिलदार सिंह, कृष्णपाल सिंह, हीराबाई, शारदाबाई, फूलवतीबाई पिस. सूरतसिंह ठाकुर सोकलपुर, छोटीबाई बेवा सूरतसिंह ठाकुर | भूमिस्वामी | 32(s) | 0.012 |
| 10. | पार्वतीबाई बेवा परमेश्वरदास बैरागी किशनदास, बालमुकुन्द, देवीदास, श्रीरामदास, भीकमदास, मायाबाई गीताबाई, सिरेबाई, विध्याबाई पिस. परमेश्वरदास बैरागी गणेशदास, नरसिंहदास, सुमन बाई पिस. मनोहरदास बैरागी निवासी उल्थन | भूमिस्वामी | 33/1/1/1(s) | 0.014 |
| 11. | आशीष पिता बलरामदास बैरागी उल्थन | भूमिस्वामी | 33/1/1/2(s) | 0.012 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|-------|
| 12. | निधि पत्नी लोचनदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 33/1/2(s) | 0.014 |
| 13. | लोचनदास आ. ईश्वरदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 33/2/2(s) | 0.014 |
| 14. | सनोवरदास पिता कमलदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 34/1(s) | 0.080 |
| | | | 34/2(s) | 0.110 |
| | | | 35/1/1(s) | 0.073 |
| | | | 34/4(s) | 0.010 |
| | | | 35/2/2(s) | 0.049 |
| | | | 35/3/1(s) | 0.085 |
| | | | 35/3/2(s) | 0.093 |
| | | | 35/3/3(s) | 0.097 |
| | | | 42/1(s) | 0.008 |
| | | | 119/6/1(s) | 0.089 |
| | | | 119/6/3(s) | 0.040 |
| | | | 119/7/3(s) | 0.045 |
| 15. | जुम्मन खां, वहीदखां, अंजुमखां पिस. नूरखां बेनवी बेवा नूरखां गणेशदास, नरसिंहदास, रामकुमरदास, मोहनदास, सुमनबाई पिस. मनोहरदास बैरागी पार्वतीबाई बेवा परमेश्वरदास बैरागी किशनदास, बालमुकुन्द, देवीदास, श्रीरामदास, भीकमदास, मायाबाई, गीताबाई, सिरेबाई, विध्याबाई पिस. परमेश्वरदास बैरागी आशाबाई बेवा ईश्वरदास बैरागी बलरामदास, संतोषदास, लोचनदास, सोनाबाई, गेंदाबाई, भागवतीबाई पिस. ईश्वरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 34/3(s) | 0.035 |
| | | | 35/1/2(s) | 0.097 |
| | | | 35/2/1(s) | 0.040 |
| | | | 119/7/2(s) | 0.053 |
| | | | 119/8(s) | 0.073 |
| 16. | राजेशदास पिता सनोवरदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 34/8(s) | 0.032 |
| 17. | पार्वतीबाई बेवा परमेश्वरदास बैरागी किशनदास, बालमुकुन्द, देवीदास, श्रीरामदास, भीकमदास, मायाबाई गीताबाई, सिरेबाई, विध्याबाई पिस. परमेश्वरदास बैरागी गणेशदास, नरसिंहदास, रामकुमार दास, मोहनदास, सुमन बाई पिस. मनोहरदास बैरागी निवासी उत्थन | भूमिस्वामी | 36/1/1(s) | 0.166 |
| 18. | द्वारकादास पिता नन्हेदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 37/1(s) | 0.008 |
| | | | 38/1(s) | 0.008 |
| | | | 36/1/2(s) | 0.080 |
| | | | 36/2(s) | 0.170 |
| | | | 91/3/1(s) | 0.027 |
| | | | 91/4/1(s) | 0.035 |
| | | | 112/1(s) | 0.166 |
| | | | 112/2(s) | 0.120 |
| | | | 112/3/1(s) | 0.024 |
| | | | 53(s) | 0.024 |

| | | | | |
|-----|---|------------|-------------------|-------|
| | | | 119/5/1/2(s) | 0.203 |
| | | | 119/5/2(s) | 0.101 |
| 19. | पार्वतीबाई बेवा परमेश्वरदास बैरागी किशनदास, बालमुकुन्द, देवीदास, श्रीरामदास, भीकमदास, मायाबाई गीताबाई, सिरिबाई, विध्याबाई पिस. परमेश्वरदास बैरागी गणेशदास, सुमन बाई, रामकुमारदास पिस. मनोहरदास बैरागी निवासी उत्थन | भूमिस्वामी | 89/1(s) | 0.405 |
| 20. | नरेशदास पिता नारायणदास बैरागी | भूमिस्वामी | 89/2(s) | 0.280 |
| 21. | तुलसीदास पिता औंकारदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 90/1(s) | 0.142 |
| | | | 119/15/2(s) | 0.089 |
| 22. | संतोषदास पिता औंकारदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 90/2(s) | 0.141 |
| | | | 119/15/1(s) | 0.089 |
| 23. | कान्तिबाई पत्नी मानसिंह खंगार कौडिया | भूमिस्वामी | 91/1(s) | 0.020 |
| 24. | | | 91/2(s) | 0.020 |
| | | | 119/15/3/1 (s) | 0.018 |
| 25. | बलरामदास पिता ईश्वरदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 91/3/2(s) | 0.040 |
| | | | 91/4/2(s) | 0.022 |
| 26. | दशोदाबाई पत्नी शंकरदास बैरागी नारायणदास, विष्णुदास, किशोरदास, पिस. शंकरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 91/5(s) | 0.060 |
| | | | 93/3(s) | 0.040 |
| | | | 119/15/3/2 (s) | 0.073 |
| | | | 119/16(s) | 0.041 |
| 27. | औंकारदास पिता कमलदास बैरागी उत्थन | भूमिस्वामी | 93/1(s) | 0.034 |
| | | | 119/14(s) | 0.040 |
| | | | 119/17(s) | 0.081 |
| 28. | सत्यनारायण दास, रमेशदास, मुन्नीबाई, हल्कीबाई पिस. कोमलदास बैरागी | भूमिस्वामी | 107/1(s) | 0.046 |
| 29. | सत्यनारायण दास, रमेशदास पिस. कोमलदास बैरागी | भूमिस्वामी | 107/2(s) | 0.122 |
| 30. | विशाल पिता मूरतलाल गौंड उत्थन | भूमिस्वामी | 108/1(s) | 0.100 |
| 31. | परमलाल पिता मूरतलाल गौंड उत्थन | भूमिस्वामी | 108/2(s) | 0.120 |
| 32. | पार्वतीबाई बेवा परमेश्वरदास बैरागी किशनदास, बालमुकुन्द, देवीदास, श्रीरामदास, भीकमदास, मायाबाई गीताबाई, सिरिबाई, विध्याबाई पिस. परमेश्वरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 117/1/1(s) | 0.126 |
| | | | 114/1(s) | 0.100 |
| 33. | मलती बाई पत्नी नरेश कुमार बैरागी | भूमिस्वामी | 117/2(s) | 0.200 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------------|-------|
| 34. | गनेशदास पिता मनोहरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 117/3/1(s) | 0.126 |
| | | | 114/3(s) | 0.025 |
| 35. | रामकुमारदास पिता मनोहरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 117/4/1(s) | 0.126 |
| | | | 114/4(s) | 0.093 |
| 36. | मोहनदास पिता मनोहरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 117/5(s) | 0.126 |
| | | | 114/5(s) | 0.025 |
| 37. | विशाल पिता मूरतलाल गौड़ उल्थन | भूमिस्वामी | 115/1(s) | 0.070 |
| 38. | परमलाल पिता मूरतलाल गौड़ उल्थन | भूमिस्वामी | 115/2(s) | 0.070 |
| 39. | फागू पिता कोमल गौड़ | भूमिस्वामी | 116/1(s) | 0.234 |
| 40. | चेतराम पिता कोमल गौड़ | भूमिस्वामी | 116/2(s) | 0.230 |
| 41. | करोडी पिता अनरत आदिवासी उदयपुरा | भूमिस्वामी | 116/3(s) | 0.147 |
| 42. | गोपी पिता अनरत गौड़ | भूमिस्वामी | 116/4(s) | 0.146 |
| 43. | विनोद कुमार पिता अवधकुमार मेहरा ग्राम नौकर | भूमिस्वामी | 23(s) | 0.080 |
| | | | 24(s) | 0.108 |
| 44. | ग्यारसी पिता बाबू लाल डीमर उल्थन | भूमिस्वामी | 19/2(s) | 0.060 |
| 45. | बलरामदास पिता ईश्वरदास बैरागी उल्थन | भूमिस्वामी | 119/2(s) | 0.038 |
| | | | 119/4(s) | 0.071 |
| 46. | कान्तिबाई पत्नि मानसिंह खंगार कौडिया | भूमिस्वामी | 119/3(s) | 0.019 |
| 47. | पार्वतीबाई बेवा परमेश्वरदास बैरागी किशनदास, बालमुकुन्द, देवीदास, श्रीरामदास, भीकमदास, मायाबाई गीताबाई, सिरेबाई, विद्याबाई पिस. परमेश्वरदास बैरागी गनेशदास, नरसिंहदास, रामकुमारदास, मोहनदास, सुमन बाई पिस. मनोहरदास बैरागी | भूमिस्वामी | 119/5/1/1 (s) | 0.206 |
| कुल योग | | | | 7.263 |

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 578-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25

रतलाम, दिनांक 18 नवम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

--अनुसूची (1)--

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|---|--|
| उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण | 3.965 हेक्टर |

--अनुसूची (2)--

(1) भूमि का विवरण

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- केरवासा |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 3.965 हेक्ट. |

| क्र० सं० | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में) | धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 435/1 | 0.582 | संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल |
| 2 | 435/2/1 | 0.120 | | |
| 3 | 435/2/2/1 | 0.395 | | |
| 4 | 438/1/1/2 | 0.063 | | |
| 5 | 438/1/1/1 | 0.116 | | |
| 6 | 441/1 | 0.395 | | |
| 7 | 438/2 | 0.445 | | |
| 8 | 440 | 0.393 | | |
| 9 | 439 | 0.370 | | |
| 10 | 446/1 | 1.080 | | |
| 11 | 445 | 0.006 | | |
| कुल रकबा | | 3.965 | | |

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 575-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0003-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1):—

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|---|--|
| उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण | 4.552 हेक्टर |

—अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- उदियाखेड़ी |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 4.552 हेक्ट. |

| क्र० सं० | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में) | धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 0.027 | संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल |
| 2 | 3/1 | 0.655 | | |
| 3 | 3/2/1 | 0.317 | | |
| 4 | 3/2/2 | 0.059 | | |
| 5 | 122 | 0.192 | | |
| 6 | 123 | 0.024 | | |
| 7 | 124/1 | 0.139 | | |
| 8 | 124/2 | 0.024 | | |
| 9 | 11/1/1 | 0.107 | | |
| 10 | 11/1/2 | 0.015 | | |
| 11 | 121/1 | 0.156 | | |
| 12 | 121/2 | 0.386 | | |
| 13 | 121/3 | 0.264 | | |
| 14 | 130 | 0.167 | | |
| 15 | 120/2 | 0.010 | | |
| 16 | 132 | 0.169 | | |
| 17 | 131 | 0.346 | | |
| 18 | 133 | 0.482 | | |
| 19 | 134 | 0.070 | | |
| 20 | 135 | 0.531 | | |
| 21 | 137 | 0.077 | | |
| 22 | 136 | 0.335 | | |
| कुल रकबा | | 4.552 | | |

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 573-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—: अनुसूची (1) :—

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|---|--|
| उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण | 4.712 हेक्टर |

—: अनुसूची (2) :—

(1) भूमि का विवरण

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- ललियाना |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 4.712 हेक्ट. |

| क्र० सं० | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्ट. में) | धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 201 | 0.592 | संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल |
| 2 | 205 | 0.320 | | |
| 3 | 204/1 | 0.043 | | |
| 4 | 206/1 | 0.180 | | |
| 5 | 206/2 | 0.181 | | |
| 6 | 207/1 | 0.236 | | |
| 7 | 207/2 | 0.424 | | |
| 8 | 213 | 0.733 | | |
| 9 | 214/1 | 0.032 | | |
| 10 | 212/1/1 | 0.176 | | |
| 11 | 212/1/2 | 0.335 | | |
| 12 | 212/1/3 | 0.087 | | |
| 13 | 215/2 | 0.632 | | |
| 14 | 217 | 0.130 | | |
| 15 | 219 | 0.041 | | |
| 16 | 222 | 0.011 | | |
| 17 | 218/1 | 0.277 | | |
| 18 | 218/2 | 0.041 | | |
| 19 | 218/3 | 0.164 | | |
| 20 | 221 | 0.077 | | |
| कुल रकबा | | 4.712 | | |

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 571-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|--|--|
| उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण | 9.697 हेक्टर |

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- रेवास |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 9.697 हेक्ट. |

| क्र० सं० | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में) | धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15 | 0.084 | संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल |
| 2 | 16 | 0.630 | | |
| 3 | 91/793 | 0.530 | | |
| 4 | 91/1 | 0.240 | | |
| 5 | 90 | 0.980 | | |
| 6 | 89/1 | 0.186 | | |
| 7 | 88 | 0.625 | | |
| 8 | 104 | 0.580 | | |
| 9 | 100 | 0.648 | | |
| 10 | 158/2 | 0.029 | | |
| 11 | 159 | 0.899 | | |
| 12 | 162 | 0.142 | | |
| 13 | 161 | 0.166 | | |
| 14 | 164 | 0.612 | | |
| 15 | 166 | 0.006 | | |
| 16 | 165 | 0.154 | | |
| 17 | 229 | 0.496 | | |
| 18 | 168 | 0.060 | | |
| 19 | 228 | 0.303 | | |
| 20 | 227 | 0.554 | | |
| 21 | 226 | 0.203 | | |
| 22 | 239 | 0.015 | | |
| 23 | 240/1 | 0.060 | | |
| 24 | 242 | 0.285 | | |
| 25 | 225 | 0.100 | | |
| 26 | 241 | 0.564 | | |
| 27 | 247 | 0.474 | | |
| 28 | 248 | 0.072 | | |
| कुल रकबा | | 9.697 | | |

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 569-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र. 0006-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—अनुसूची (1):—

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|--|--|
| उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण | 7.269 हेक्टर |

—अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- उपलई |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 7.269 हेक्टर |

| क्र० सं० | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में) | धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 697 | 0.200 | संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल |
| 2 | 740/1 | 0.588 | | |
| 3 | 740/2 | 0.030 | | |
| 4 | 703 | 0.085 | | |
| 5 | 698/1 | 0.130 | | |
| 6 | 698/2 | 0.260 | | |
| 7 | 702 | 0.061 | | |
| 8 | 700 | 0.545 | | |
| 9 | 699 | 0.001 | | |
| 10 | 701 | 0.492 | | |
| 11 | 705 | 0.151 | | |
| 12 | 739 | 0.692 | | |
| 13 | 691 | 0.086 | | |
| 14 | 690 | 0.049 | | |
| 15 | 741 | 0.350 | | |
| 16 | 744 | 0.350 | | |
| 17 | 742 | 0.040 | | |
| 18 | 746/2 | 0.018 | | |
| 19 | 752 | 0.342 | | |
| 20 | 751 | 0.500 | | |
| 21 | 757 | 0.947 | | |
| 22 | 759/2 | 0.170 | | |
| 23 | 758 | 0.664 | | |
| 24 | 775/2 | 0.160 | | |
| 25 | 776/1 | 0.033 | संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल |
| 26 | 776/2 | 0.130 | | |
| 27 | 776/3 | 0.130 | | |
| 28 | 776/4 | 0.065 | | |
| कुल रकबा | | 7.269 | | |

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 567-भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र. 0007-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक संशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|---|--|
| उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हाइ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण | 7.045 हेक्टर |

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- रतलाम

(ख) तहसील

:- जावरा

(ग) ग्राम

:- हुनखेड़ी

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- 7.045 हेक्ट.

| क्र० सं० | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में) | धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 63/3 | 0.136 | संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हेड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्गुटी मॉडल |
| 2 | 154 | 0.323 | | |
| 3 | 151 | 0.006 | | |
| 4 | 153 | 0.090 | | |
| 5 | 152/1 | 0.020 | | |
| 6 | 152/2 | 0.074 | | |
| 7 | 156 | 0.800 | | |
| 8 | 158 | 0.202 | | |
| 9 | 159/1 | 0.106 | | |
| 10 | 159/2 | 0.007 | | |
| 11 | 160/1 | 0.337 | | |
| 12 | 160/2 | 0.343 | | |
| 13 | 149/3 | 0.004 | | |
| 14 | 149/4 | 0.006 | | |
| 15 | 161 | 0.131 | | |
| 16 | 164/2 | 0.277 | | |
| 17 | 164/3 | 0.299 | | |
| 18 | 164/4 | 0.034 | | |
| 19 | 195/1 | 0.157 | | |
| 20 | 172/1 | 0.145 | | |
| 21 | 173 | 0.508 | | |
| 22 | 194/1 | 0.370 | | |
| 23 | 194/2 | 0.130 | | |
| 24 | 193/2 | 0.547 | | |
| 25 | 193/3 | 0.005 | | |
| 26 | 197 | 0.003 | | |
| 27 | 198 | 0.027 | | |
| 28 | 199 | 0.481 | | |
| 29 | 200 | 0.012 | | |
| 30 | 192 | 0.141 | | |
| 31 | 208 | 0.327 | | |
| 32 | 209/1 | 0.182 | | |
| 33 | 211/1/1 | 0.381 | | |
| 34 | 211/1/2 | 0.434 | | |
| कुल रकबा | | 7.045 | | |

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 579/580-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0013-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

—:अनुसूची (1):—

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में |
|--|--|
| उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण | 6.138 हेक्टर |

—:अनुसूची (2):—

(1) भूमि का विवरण

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (क) जिला | :- रतलाम |
| (ख) तहसील | :- जावरा |
| (ग) ग्राम | :- डोडियाना |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | :- 6.138 हेक्ट. |

| क्र० सं० | सर्वेक्षण संख्या | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में) | धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 237/1 | 0.024 | संभागीय प्रबंधक म.प्र. संडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र.) | उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल |
| 2 | 237/2 | 0.611 | | |
| 3 | 239/1/1 | 0.294 | | |
| 4 | 239/5 | 0.579 | | |
| 5 | 239/7 | 0.244 | | |
| 6 | 239/2 | 0.401 | | |
| 7 | 239/15 | 0.760 | | |
| 8 | 239/22 | 0.055 | | |
| 9 | 239/4 | 0.279 | | |
| 10 | 239/20 | 0.223 | | |
| 11 | 239/18/1 | 0.111 | | |
| 12 | 239/16/1 | 0.018 | | |
| 13 | 239/16/2 | 0.001 | | |
| 14 | 259/1 | 0.482 | | |
| 15 | 259/2/2 | 0.373 | | |
| 16 | 259/2/1 | 0.005 | | |
| 17 | 259/4 | 0.496 | | |
| 18 | 260 | 0.008 | | |
| 19 | 267 | 0.675 | | |
| 20 | 266/1 | 0.212 | | |
| 21 | 268 | 0.263 | | |
| 22 | 269 | 0.024 | | |
| कुल रकबा | | 6.138 | | |

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 926-भू-अर्जन-2024-25

पन्ना, दिनांक 20 नवम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 0007-अ-82-वर्ष 2022-23, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

| | | |
|---------------|---|----------------|
| (क) जिला | — | पन्ना |
| (ख) तहसील | — | अजयगढ़ |
| (ग) ग्राम | — | बनहरीकलां |
| (घ) क्षेत्रफल | — | 10.60 हेक्टेयर |

| क्रमांक | खसरा क्रमांक | अर्जित रकवा (हे०) में | भूमि का प्रकार |
|---------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1472 | 1.300 | निजी भूमि |
| 2 | 1473 | 2.000 | निजी भूमि |
| 3 | 1474 | 2.000 | निजी भूमि |
| 4 | 1568 | 2.000 | निजी भूमि |
| 5 | 200 / 1 | 0.050 | निजी भूमि |
| 6 | 200 / 2 | 0.050 | निजी भूमि |
| 7 | 200 / 3 | 0.050 | निजी भूमि |
| 8 | 200 / 4 | 0.050 | निजी भूमि |
| 9 | 214 / 2 | 0.035 | निजी भूमि |
| 10 | 1510 / 2 / 1 | 0.950 | निजी भूमि |
| 11 | 1494 / 1 | 0.880 | निजी भूमि |
| 12 | 1494 / 2 | 0.200 | निजी भूमि |
| 13 | 214 / 1 | 0.035 | निजी भूमि |
| 14 | 21 / 2 | 1.000 | निजी भूमि |
| | 14 किता | 10.600 हेक्टेयर | निजी भूमि |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु धारा -19 का प्रकाशन ग्राम बनहरीकलां तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

क्र. 924-भू-अर्जन-2024-25

प्रकरण क्रमांक 0008-अ-82-वर्ष 2022-23, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| (क) जिला | - | पन्ना |
| (ख) तहसील | - | अजयगढ़ |
| (ग) ग्राम | - | बनहरीकलां |
| (घ) कुल 06 मकानों क्षेत्रफल | | 899.97 वर्गमीटर |

| क्रमांक | खसरा क्रमांक | भूमि का प्रकार | मकान मालिक, पिता/पति का नाम | कुल अर्जित मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) |
|---------|---------------|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1512/1 | म0प्र0शासन | घनश्याम पिता खिल्लू यादव | 375.73 |
| 2 | 1512/1 | म0प्र0शासन | भूरा पिता खिल्लू यादव | 218.24 |
| 3 | 1512/1 | म0प्र0शासन | नत्थू पिता हरी यादव | 187.37 |
| 4 | वन खण्ड P-182 | वन खण्ड | श्रीराम पिता वाला यादव | 13.02 |
| 5 | 220/1 | निजी भूमि | पैसनी यादव पिता हरी यादव | 45.26 |
| 6 | 302/1 | निजी भूमि | मिल्ला, मु0 पुलिया बेवा हरी, लक्ष्मी, धूराम पिता हरी, राजकुमारी पुत्री हरी | 60.35 |
| | 06 मकान | | | 899.97 वर्गमीटर |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु धार -19 का प्रकाशन ग्राम बनहरीकलां तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 नवम्बर 2024

क्र. 859-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी, अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 की धारा द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन का |
|---------------|--------|-------------|------------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) | प्राधिकृत अधिकारी | वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | सिरमौर | हर्दी खुर्द | 0.638 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा (म.प्र.). | रीवा जिले के अंतर्गत बुढगवां से बसौली वाया हरदी खुर्द मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 861-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी, अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 की धारा द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन का |
|---------------|--------|-------|------------------------------|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) | प्राधिकृत अधिकारी | वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | त्योथर | भितरी | 0.676 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा (म.प्र.). | रीवा जिले के दुआरी से भितरी मार्ग में चपिला नाला पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 863-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी, अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 की धारा द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन का |
|---------------|--------|-------|-----------------------------|---|--|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | प्राधिकृत अधिकारी | वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | त्योथर | घटेहा | 0.673 हे. | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा (म.प्र.). | रीवा जिले के उपाध्याय बस्ती से चौबान बस्ती घटेहा मार्ग में महदेवनघाट मादा (खोखली) नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020]

ग्वालियर, दिनांक 7 नवम्बर 2024

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 959-भू-सर्वेक्षण-2024.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं :-

अनुसूची

| स.क्र. | जिला | तहसील | ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र. | भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र |
|--------|------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | कटनी | बहोरीबंद | मूल ग्राम-अमरगढ़ मजरा ग्राम-पडरिया | 43 | ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर) |

Form XII

[The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam 2020]

Commencement of Land Survey

No. 959-Land Survey-2024.- In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :-

SCHEDULE

| Sr. No. | District | Tahsil | Village/Town | Patwari Halka No./ Sector No. | Area taken under Land Survey |
|---------|----------|------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Katni | Bahoriband | Mool Village-Amargarh Majra tola-Padariya | 43 | Village Total area (except Abadi) |

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त.

कार्यालय, कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. एफ-1-5-24-रा.स.-यू.ए.-1-1343.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, राजाशंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, एतद्वारा, प्रो. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, विज्ञान एवं पर्यावरण संकाय, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना, मध्यप्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2024

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./आमला/2024-25/2055 मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु आमला एग्री इण्ड., लिमि., ग्राम-जमदेही कलां, तह.आमला, जिला- बैतूल (म.प्र) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|--------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बैतूल | आमला | आमला | जमदेही कलां | 1 | 143.69 |
| 2 | बैतूल | आमला | आमला | जमदेही खुर्द | 2 | 107.29 |
| 3 | बैतूल | आमला | आमला | असोला ढाना | 4 | 44.13 |
| 4 | बैतूल | आमला | आमला | मंगारा | 5 | 20.72 |
| 5 | बैतूल | आमला | आमला | रतेडा खुर्द | 4 | 154.40 |
| 6 | बैतूल | आमला | आमला | रतेडा कला | 6 | 74.45 |
| 7 | बैतूल | आमला | आमला | परसोडी | 11 | 166.29 |
| 8 | बैतूल | आमला | आमला | घीसी | 8 | 17.53 |
| 9 | बैतूल | आमला | आमला | खतेडा | 14 | 16.68 |
| 10 | बैतूल | आमला | आमला | अमनी | 11 | 22.36 |
| 11 | बैतूल | आमला | आमला | राशिढाना | 7 | 25.82 |
| 12 | बैतूल | आमला | आमला | खारी | 8 | 58.51 |
| 13 | बैतूल | आमला | आमला | लादी | 13 | 3.64 |
| 14 | बैतूल | आमला | आमला | बिच्छूखान | 11 | 2.11 |
| 15 | बैतूल | आमला | आमला | बोरीखुर्द | 7 | 160.86 |
| 16 | बैतूल | आमला | आमला | छावल | 10 | 136.89 |
| 17 | बैतूल | आमला | आमला | ढुटमुर | 6 | 164.64 |
| 18 | बैतूल | आमला | आमला | रानीढांगरी | 8 | 58.25 |
| 19 | बैतूल | आमला | आमला | माहोली | 7 | 229.69 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | बैतुल | आमला | आमला | देवपिपरिया | 5 | 63.36 |
| 21 | बैतुल | आमला | आमला | डोडावानी | 4 | 176.68 |
| 22 | बैतुल | आमला | आमला | बाराखारी | 2 | 80.50 |
| 23 | बैतुल | आमला | आमला | हर्राभाटा | 7 | 5.77 |
| 24 | बैतुल | आमला | आमला | धौसरा | 19 | 29.67 |
| 25 | बैतुल | आमला | आमला | खिडकी कलाँ | 17 | 39.30 |
| 26 | बैतुल | आमला | आमला | खिडकी खुर्द | 19 | 32.58 |
| 27 | बैतुल | आमला | आमला | आंवरिया | 20 | 141.45 |
| 28 | बैतुल | आमला | आमला | ठानी | 21 | 47.98 |
| 29 | बैतुल | आमला | आमला | खापाखतेडा | 13 | 163.64 |
| 30 | बैतुल | आमला | आमला | शिवपुरी | 9 | 57.06 |
| 31 | बैतुल | आमला | आमला | तोरणवाडा | 13 | 110.51 |
| 32 | बैतुल | आमला | आमला | देवगांव | 12 | 213.36 |
| 33 | बैतुल | आमला | आमला | जम्बाडा | 14 | 81.55 |
| 34 | बैतुल | आमला | आमला | जम्बाडी बुजुर्ग | 12 | 31.37 |
| 35 | बैतुल | आमला | आमला | दुर्गवाडा | 14 | 30.30 |
| 36 | बैतुल | आमला | आमला | कन्नौजिया | 16 | 202.68 |
| 37 | बैतुल | आमला | आमला | काजली | 15 | 78.66 |
| 38 | बैतुल | आमला | आमला | खानापुर | 17 | 95.21 |
| 39 | बैतुल | आमला | आमला | लालावाडी | 17 | 191.22 |
| 40 | बैतुल | आमला | आमला | तिरमहू | 21 | 99.64 |
| 41 | बैतुल | आमला | आमला | बेहडी | 2 | 107.94 |
| 42 | बैतुल | आमला | आमला | बारंगवाडी | 4 | 167.21 |
| 43 | बैतुल | आमला | आमला | मुवारिया | 7 | 40.81 |
| 44 | बैतुल | आमला | आमला | भोडदेही | 10 | 41.77 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|----------------|-------|-------|------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | बैतुल | आमला | आमला | चिखलार | 9 | 7.96 |
| 46 | बैतुल | आमला | आमला | कोठिया रैयत | 8 | 4.96 |
| 47 | बैतुल | आमला | आमला | बिरजटा | 10 | 5.51 |
| 48 | बैतुल | आमला | आमला | नरेरा | 4 | 212.06 |
| 49 | बैतुल | आमला | आमला | दहलवाडा | 7 | 150.29 |
| 50 | बैतुल | आमला | आमला | दियामऊ | 10 | 106.89 |
| 51 | बैतुल | आमला | आमला | कुटखेडी | 7 | 101.79 |
| 52 | बैतुल | आमला | आमला | सिमरिया | 10 | 92.05 |
| 53 | बैतुल | आमला | आमला | रैयतवाडी | 13 | 67.87 |
| 54 | बैतुल | आमला | आमला | सोमलापुर | 12 | 30.23 |
| 55 | बैतुल | आमला | आमला | पस्तलाई माल | 14 | 52.42 |
| 56 | बैतुल | आमला | आमला | छिपन्या पिपरिया | 7 | 435.27 |
| 57 | बैतुल | आमला | आमला | लिखडी | 9 | 207.30 |
| 58 | बैतुल | आमला | आमला | बिजौरी | 10 | 98.18 |
| 59 | बैतुल | आमला | आमला | बल्लाचाल | 19 | 36.18 |
| 60 | बैतुल | आमला | आमला | बोडखी | 19 | 16.19 |
| 61 | बैतुल | आमला | आमला | आमला | 16 | 32.58 |
| 62 | बैतुल | आमला | आमला | बुचनवाडी | 22 | 18.02 |
| योग तहसील आमला | | | | | | 5613.89 |
| कुल योग | | | | | | 5613.89 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

॥ ८

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./ पार्वती/2024-25/257, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि. ग्राम- सांखनी, जिला- ग्वालियर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|----------|---------|------------|--------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | सांखनी | 2 | 172.34 |
| 2 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | छोटी-झाऊ | 5 | 0.94 |
| 3 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बडी-झाऊ | 4 | 6.59 |
| 4 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | खडीचा | 2 | 15.97 |
| 5 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | लुहारी | 6 | 116.71 |
| 6 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | पंवाया | 10 | 1.09 |
| 7 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | रायचैरा | 6 | 1.76 |
| 8 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बागवई | 12 | 0.01 |
| 9 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | सौंता खिरिया | 15 | 0.54 |
| 10 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | भानगढ़ | 16 | 0.08 |
| 11 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | सैंतोल | 18 | 1.20 |
| 12 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | देवरा | 17 | 1.50 |
| 13 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | गडाजर | 18 | 1.00 |
| 14 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बरुआ | 14 | 2.12 |
| 15 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | नजरपुर | 20 | 1.00 |
| 16 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | किठौंदा | 16 | 0.80 |
| 17 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | रही | 22 | 0.60 |
| 18 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | मारगपुर | 21 | 1.10 |
| 19 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बेला | 26 | 0.81 |
| 20 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बाजना | 31 | 4.63 |
| 21 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | ईंटों | 24 | 1.43 |
| 22 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | खोर | 25 | 0.47 |
| 23 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | स्याऊ | 32 | 0.40 |
| 24 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | रिछारी-खुर्द | 25 | 2.84 |
| 25 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | गाजना | 30 | 0.7 |
| 26 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | जतरथी | 26 | 1.10 |
| 27 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | चिटोली | 26 | 1.00 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|----------|---------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | करहिया | 27 | 0.58 |
| 29 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | मस्तूरा | 22 | 0.40 |
| 30 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | मोहनगढ़ | 21 | 1.10 |
| 31 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बामरोल | 16 | 5.70 |
| 32 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बसई | 7 | 0.79 |
| 33 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | जरावनी | 24 | 2.88 |
| 34 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | करनगढ़ | 23 | 0.02 |
| 35 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | मिहावरा | 24 | 0.50 |
| 36 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बडौदा | 26 | 0.40 |
| 37 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | खेडा | 25 | 7.72 |
| 38 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | गधोटा | 21 | 0.00 |
| 39 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | डडूमर | 12 | 0.39 |
| 40 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | भितरवार | 12 | 1.00 |
| 41 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | दुबही | 33 | 0.70 |
| 42 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | बांसोडी | 5 | 3.35 |
| 43 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | ककरदा | 46 | 0.76 |
| 44 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | पलायक्षा | 35 | 1.95 |
| 45 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | केरूआ | 27 | 2.65 |
| 46 | ग्वालियर | भितरवार | भितरवार | चीनोर | 27 | 0.08 |
| योग तहसील भितरवार | | | | | | 369.70 |
| 47 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | करियावटी | 5 | 17.10 |
| 48 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | शीतलपुर | 9 | 0.90 |
| 49 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | जतरथी | 7 | 29.68 |
| 50 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | झांडोली | 8 | 4.26 |
| 51 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | धिरौरा | 8 | 1.89 |
| 52 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | किशोली | 10 | 3.45 |
| 53 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | बिजकपुर | 24 | 63.75 |
| 54 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | बरुआ | 14 | 26.33 |
| 55 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | जरावनी | 15 | 75.45 |
| 56 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | ररुआ | 12 | 6.99 |
| 57 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | मसूदपुर | 12 | 5.30 |
| 58 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | लोहगढ़ | 20 | 1.23 |
| 59 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | भैंसनारी | 20 | 0.96 |
| 60 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | लिधोरा | 14 | 1.66 |
| 61 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | शक्ति का पुरा | 15 | 0.90 |
| 62 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | सिमिरिया | 15 | 44.56 |
| 63 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | नुहारी | 14 | 23.72 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|--------------------|----------|----------|------------|--------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 64 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | सिद्धपुरा | 20 | 0.40 |
| 65 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | चितावनी | 33 | 3.63 |
| 66 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | डबरा | 25 | 11.52 |
| 67 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | चांदपुर | 30 | 46.61 |
| 68 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | चैतुपाडा | 28 | 23.56 |
| 69 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | हरिपुर | 28 | 64.81 |
| 70 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | हसनपुर | 27 | 4.49 |
| 71 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | करा | 28 | 0.76 |
| 72 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | किशनपुर | 28 | 1.88 |
| 73 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | रायपुर | 35 | 1.40 |
| 74 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | रामपुर | 27 | 3.64 |
| 75 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | गैडोल-कला | 30 | 2.08 |
| 76 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | मगरोरा | 32 | 28.54 |
| 77 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | कंचनपुर | 25 | 8.76 |
| 78 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | अरुषि | 35 | 13.24 |
| 79 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | बेलगाड़ा | 40 | 45.57 |
| 80 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | गजापुर | 47 | 24.99 |
| 81 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | अजयगढ़ | 45 | 1.60 |
| 82 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | निभेरा-चक | 32 | 1.33 |
| 83 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | खडबई | 35 | 1.30 |
| 84 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | छीमक (पैरा) | 20 | 0.16 |
| 85 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | सिरसा-सेकरा | 25 | 1.20 |
| 86 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | लीटापुरा | 25 | 1.50 |
| 87 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | भारोली | 33 | 1.50 |
| 88 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | भानगढ़ | 16 | 0.77 |
| 89 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | चौकी | 15 | 14.52 |
| 90 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | गंगाबाग | 29 | 1.07 |
| 91 | ग्वालियर | डबरा | डबरा | घरसोदी | 22 | 4.02 |
| योग तहसील डबरा | | | | | | 622.98 |
| 92 | ग्वालियर | घाटीगांव | घाटीगांव | रावत बनवारी | 53 | 0.20 |
| योग तहसील घाटीगांव | | | | | | 0.20 |
| 93 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | आंडर | 44 | 1.60 |
| 94 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | करही | 41 | 2.71 |
| 95 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | बांसगड़ | 45 | 1.80 |
| 96 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | कोटिया-खेडा | 46 | 1.40 |
| 97 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | बेरखेडा | 48 | 1.30 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|---------|---------|------------|--------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | खडीचा | 39 | 1.50 |
| 99 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | रमगडा | 42 | 1.20 |
| 100 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | डाबर अली | 40 | 1.76 |
| 101 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | गालिया | 46 | 1.20 |
| 102 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | जैतपुर | 48 | 1.20 |
| 103 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | दुमदुमा | 47 | 0.90 |
| 104 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | निवाडी | 46 | 0.40 |
| 105 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | बनगवां | 48 | 0.50 |
| 106 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | धमधौली | 45 | 0.68 |
| 107 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | बहगवां | 40 | 0.50 |
| 108 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | छितरी | 38 | 0.72 |
| 109 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | कारेवाहा | 35 | 0.20 |
| 110 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | नैनागिर | 42 | 0.30 |
| 111 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | बरशोडी | 24 | 0.40 |
| 112 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | नरौआ | 47 | 0.50 |
| 113 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | दबरा-सानी | 16 | 20.64 |
| 114 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | भीमपुर | 40 | 0.40 |
| 115 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | हरसी | 30 | 0.20 |
| 116 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | केरुआ | 32 | 0.60 |
| 117 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | ठाठी | 40 | 0.40 |
| 118 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | धोवट | 23 | 0.70 |
| 119 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | निजामपुर | 35 | 0.80 |
| 120 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | पनानेर | 25 | 0.90 |
| 121 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | खिरिया | 24 | 0.40 |
| 122 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | लोढ़ी | 23 | 1.48 |
| 123 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | इमिलिया | 30 | 0.40 |
| 124 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | पपरेडु | 15 | 103.03 |
| 125 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | बामोर | 30 | 7.67 |
| 126 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | ख्यावदा | 16 | 0.50 |
| 127 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | गणेश खेरा | 40 | 0.40 |
| 128 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | फूलपुर | 29 | 0.80 |
| 129 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | कल्याणपुर | 16 | 25.39 |
| 130 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | देहरेटा सानी | 23 | 6.34 |
| 131 | शिवपुरी | नरवर | करैरा | दोनी | 22 | 22.10 |
| योग तहसील नरवर | | | | | | 213.92 |
| 132 | दतिया | बडौनी | दतिया | बडगौर | 10 | 4.88 |
| 133 | दतिया | बडौनी | दतिया | सईडा-कला | 13 | 16.66 |
| 134 | दतिया | बडौनी | दतिया | सईडा-खुर्द | 11 | 74.96 |
| 135 | दतिया | बडौनी | दतिया | पांचेर मडईया | 15 | 0.40 |
| योग तहसील बडौनी | | | | | | 96.90 |
| 136 | दतिया | ईंदरगढ़ | सेवड़ा | भदौना | 37 | 0.10 |
| 137 | दतिया | ईंदरगढ़ | सेवड़ा | जुझारपुर | 45 | 0.20 |
| योग तहसील ईंदरगढ़ | | | | | | 0.30 |
| महायोग | | | | | | 1,304.00 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र. 2059/गन्ना/एस-4/क्षे.आर./आकृति/2024-25/205, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु आकृति शुगर मिल्स प्रा.लि., तूमड़ा, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|---------|-----------|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | वेरखेडी | 20 | 9.06 |
| 2 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | जाम | 24 | 20.35 |
| 3 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | वूढ़ा | 50 | 96.57 |
| 4 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | वक्शी | 42 | 89.59 |
| 5 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | हमीरपुर | 35 | 135.28 |
| 6 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | सरकलां | 42 | 66.91 |
| 7 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | पठापोडी | 35 | 147.96 |
| 8 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | गोरखाकलां | 30 | 21.48 |
| 9 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | साईंखेडा | 48 | 14.8 |
| 10 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | मुआर | 37 | 54.91 |
| 11 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | डुगरिया | 37 | 16.87 |
| 12 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | चंदपुराकला | 55 | 10.66 |
| 13 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | खमरिया | 38 | 20.14 |
| 14 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | रम्पुरा | 58 | 0.02 |
| 15 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | भटपुरा | 43 | 0.05 |
| 16 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | सिलवानी | 42 | 9.12 |
| 17 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | सहजपुर | 43 | 33.61 |
| 18 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | देवरीजागीर | 40 | 65.05 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------------|----------|-----------|---------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | खमरिया मानपुर | 20 | 50.85 |
| 20 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | नांदपुर | 33 | 10.66 |
| 21 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | बीकलपुर | 34 | 11.53 |
| 22 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | वरेली | 50 | 3.85 |
| 23 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | वक्शी | 44 | 17.55 |
| 24 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | प्रतापगढ़ | 44 | 33.87 |
| 25 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | बेगवांकलां | 40 | 12.01 |
| 26 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | मदनपुर | 42 | 6.07 |
| 27 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | मर्दानपुर | 41 | 13.28 |
| 28 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | बेरूआ | 20 | 24.55 |
| 29 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | फुलमार | 35 | 17.35 |
| 30 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | रमपुरा चिखली | 39 | 7.93 |
| 31 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | चंदन पिपरिया | 55 | 24.8 |
| 32 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | सदराही | 32 | 14.21 |
| 33 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | गहलावन | 37 | 41.47 |
| 34 | रायसेन | सिलवानी | सिलवानी | थाला डिगावन | 9 | 0.05 |
| | योग तहसील सिलवानी | | | | | 1102.46 |
| 35 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | बनवारी | 19 | 116.38 |
| 36 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | सेठान | 13 | 59.39 |
| 37 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | धनौरा | 17 | 89.84 |
| 38 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | खैरी | 16 | 18.68 |
| 39 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | अजंदा | 19 | 78.61 |
| 40 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | देतपोन | 14 | 104.80 |
| 41 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | पाली | 16 | 16.64 |
| 42 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | उड़नी | 22 | 373.80 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|--------------------|-------------|----------|-----------|----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | टेकापार | 24 | 285.12 |
| 44 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | उसरई | 30 | 172.78 |
| 45 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | मडगुला | 33 | 533.74 |
| 46 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | पिपरिया कलां | 27 | 410.04 |
| 47 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | भौरगढ़ | 32 | 0.03 |
| 48 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | रामपुरा | 13 | 192.27 |
| 49 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | पीपरपानी | 15 | 372.02 |
| 50 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | टुईयापानी | 25 | 158.94 |
| 51 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | अनघोरी | 20 | 138.47 |
| 52 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | पिटरास | 9 | 198.66 |
| 53 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | महुआखेडा खेरूआ | 13 | 219.63 |
| 54 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | बरहटा | 13 | 112.66 |
| 55 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | बम्होरी खुर्द | 10 | 117.38 |
| 56 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | साँईखेडा | 8 | 45.89 |
| 57 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | बंथा | 13 | 175.23 |
| 58 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | तूमड़ा | 5 | 228.20 |
| 59 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | महेश्वर | 7 | 111.45 |
| 60 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | मेहरागांव | 10 | 250.08 |
| 61 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | मुआर | 14 | 21.86 |
| 62 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | सिरसिरी | 14 | 32.53 |
| 63 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | संदूक | 7 | 67.10 |
| 64 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | निवावर | 5 | 23.10 |
| 65 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | झिकोली | 4 | 43.17 |
| 66 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | खिरैटी | 7 | 14.80 |
| 67 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | रहली | 9 | 25.33 |
| 68 | नरसिंहपुर | साँईखेडा | साँईखेडा | संसारखेडा | 16 | 11.64 |
| योग तहसील साँईखेडा | | | | | | 4820.25 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|---------|-----------|----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बौरास | 5 | 202.09 |
| 70 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | सुल्तानगंज | 7 | 47.14 |
| 71 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बम्होरी बासोदा | 14 | 92.86 |
| 72 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | गायव्यान | 17 | 39.14 |
| 73 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | निवाड़ी | 19 | 6.46 |
| 74 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | घाना बहेडिया | 20 | 12.09 |
| 75 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | चन्दली | 20 | 11.02 |
| 76 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | उडिया | 20 | 22.63 |
| 77 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | कठोटिया | 20 | 2.79 |
| 78 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | भुंआरा | 18 | 26.87 |
| 79 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | भाडोन | 35 | 4.10 |
| 80 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | घाना | 19 | 19.28 |
| 81 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | चिकली | 27 | 86.36 |
| 82 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | तिखावन | 48 | 36.98 |
| 83 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | रेहली | 12 | 78.17 |
| 84 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | कैलकच्छ | 13 | 222.22 |
| 85 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | सिलारी खुर्द | 14 | 68.42 |
| 86 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बीसाबाड़ी | 16 | 127.02 |
| 87 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | सतहरी | 15 | 29.97 |
| 88 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | विलगंवा | 16 | 7.00 |
| 89 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | ककरूआ | 17 | 86.77 |
| 90 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | चौरास | 11 | 318.17 |
| 91 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बारहकलां | 18 | 192.80 |
| 92 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बरबटपुर | 18 | 79.86 |
| 93 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | चन्दपुरा | 15 | 103.31 |
| 94 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | अण्डिया | 23 | 205.97 |
| 95 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बड़ीकैलकच्छ | 23 | 272.34 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------------|---------|-----------|-----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 96 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | अनघोरा | 22 | 154.96 |
| 97 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | किरगीखुर्द | 14 | 138.23 |
| 98 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | चिरचिटा | 22 | 12.28 |
| 99 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बांसखेडा | 6 | 110.19 |
| 100 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | रोसरा | 41 | 60.67 |
| 101 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | छींद | 45 | 13.12 |
| 102 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | नयागांव | 22 | 14.88 |
| 103 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | उदयपुरा | 11 | 47.45 |
| 104 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | उरदमऊ | 30 | 3.74 |
| 105 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | छिरका | 23 | 6.43 |
| 106 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | मदला | 24 | 6.32 |
| 107 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | खादोन | 37 | 13.42 |
| 108 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | मोहद | 26 | 2.32 |
| 109 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बम्बहोरी (भोरी) | 31 | 2.94 |
| 110 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | रिछवार | 38 | 21.03 |
| | योग तहसील उदयपुरा | | | | | 3009.81 |
| 111 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | पोनिया | 24 | 18.50 |
| 112 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | पांजरा | 23 | 27.13 |
| 113 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | भोपतपुर | 21 | 23.90 |
| 114 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | केकड़ा | 34 | 52.07 |
| 115 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | मोथागांव | 27 | 81.07 |
| 116 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | बीझा | 22 | 5.15 |
| 117 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | कानीवाड़ा | 22 | 48.22 |
| 118 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | दिघावन | 35 | 38.97 |
| 119 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | पतई | 40 | 118.09 |
| 120 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | साईंखेडा | 35 | 53.80 |
| 121 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | आलीबाड़ा | 45 | 48.29 |
| 122 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | घूरपुर | 9 | 15.74 |
| 123 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | देवरी चिकली | 24 | 10.26 |
| 124 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | पदराही कलां | 50 | 56.67 |
| 125 | रायसेन | देवरी | उदयपुरा | नयाखेडा | 44 | 24.59 |
| | योग तहसील देवरी | | | | | 622.45 |
| | महायोग :- | | | | | 9554.97 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./नर्मदा/2024-25/२०८६) ,मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु नर्मदा शुगर्स प्रा.लि., सालीचौका, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | आडेगांव | 3 | 237.52 |
| 2 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | डुंगरिया | 6 | 219.28 |
| 3 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | ढिंगसरा | 10 | 44.17 |
| 4 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | पोडार | 6 | 44.45 |
| 5 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | ढाना | 10 | 0.16 |
| 6 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | देवरी | 17 | 201.60 |
| 7 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | मिडवानी | 16 | 59.14 |
| 8 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | पालीखेरी | 24 | 72.03 |
| 9 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | सासबहू बासखेड़ा | 30 | 213.13 |
| 10 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | सासबहू | 24 | 268.03 |
| 11 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | खिरिया गरधा | 28 | 89.69 |
| 12 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | गाडरवारा | 21 | 35.76 |
| 13 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | सोकलपुर | 35 | 83.45 |
| 14 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | झाझनखेड़ा | 14 | 196.79 |
| 15 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | घुटंगो | 16 | 69.15 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|------------|-------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | आमगाँव | 11 | 237.77 |
| 17 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | छोटी बनखेडी | 9 | 59.77 |
| 18 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | खैरूआ | 6 | 167.44 |
| 19 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | आमढाना | 2 | 11.23 |
| 20 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | खमारिया | 7 | 52.46 |
| 21 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | जाईखेडा | 5 | 95.62 |
| 22 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | सँवरी | 3 | 32.53 |
| 23 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | कोसकरपा | 13 | 65.55 |
| 24 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | खुर्सीपार | 16 | 53.97 |
| 25 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | ज्वारा | 21 | 106.17 |
| 26 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | पिठेरा | 12 | 49.94 |
| 27 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | चादौन | 26 | 103.70 |
| 28 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | पिठेरा (A) | 12 | 40.99 |
| 29 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | नंदनेर | 7 | 181.23 |
| 30 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | दहल्वाडा | 10 | 191.80 |
| 31 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | बेलखेडी | 4 | 94.63 |
| 32 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | सॉईखेड़ा | पिठवानी | 12 | 30.70 |
| 33 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | कठोतिया | 25 | 121.70 |
| 34 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | मेहगवा | 23 | 25.44 |
| 35 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | खेरी सुदरास | 22 | 100.91 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|----------|-------------|----------|------------|-----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | दहल्वाडा (थल) | 29 | 80.19 |
| 37 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | उकासघांट | 28 | 22.31 |
| 38 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | गोलगांव | 25 | 37.19 |
| 39 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | बैरागड | 13 | 15.02 |
| 40 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | मेहगवा (कला) | 23 | 42.90 |
| 41 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | सहावन | 4 | 158.49 |
| 42 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | छोटी बाबई | 6 | 32.35 |
| 43 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | पनागर | 5 | 15.21 |
| 44 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | खिरिया | 9 | 42.49 |
| 45 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | मारिगाँव | 9 | 35.68 |
| 46 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | केशला | 6 | 65.77 |
| 47 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | पिपरियाखुर्द | 31 | 246.19 |
| 48 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | झिरिया | 31 | 128.93 |
| 49 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेड़ा | करहिया | 31 | 45.53 |
| 50 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | सालिचौका | 5 | 26.12 |
| 51 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | अमाडा | 9 | 185.69 |
| 52 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | पचामा | 11 | 142.94 |
| 53 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | भाटरा | 10 | 65.98 |
| 54 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | बसुरिया | 10 | 169.08 |
| 55 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | बारछी | 12 | 104.90 |
| 56 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | बरहाबड़ा | 15 | 2.53 |
| 57 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | रहमा | 13 | 4.69 |
| 58 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | पलेरा | 15 | 45.81 |
| 59 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | भामका | 14 | 38.50 |
| 60 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | पिपरिया इमलिया | 18 | 97.34 |
| 61 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | जमाड़ा | 19 | 28.43 |
| 62 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | भूतखेड़ा | 20 | 17.40 |
| 63 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | लावासर | 14 | 1.52 |
| 64 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | नयाखेड़ा | 12 | 38.75 |
| महायोग:- | | | | | | 5,595.85 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

h n

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./शक्ति/2024-25/2063, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. कौड़िया, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|-----------|-------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | कोडिया | 2 | 604.11 |
| 2 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | कैंकडा | 4 | 234.11 |
| 3 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | भरता | 3 | 116.17 |
| 4 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | बरेली | 5 | 197.46 |
| 5 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | कजरोटा | 5 | 174.67 |
| 6 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | चिरहा खुर्द | 3 | 125.35 |
| 7 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | चामचोन | 7 | 84.88 |
| 8 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | खापा | 8 | 33.33 |
| 9 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | बगदरा | 8 | 151.51 |
| 10 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | सांगई | 7 | 31.14 |
| 11 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | महुआखेडा | 18 | 18.79 |
| 12 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | धौंखेडा | 10 | 64.34 |
| 13 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | नीमच | 10 | 25.45 |
| 14 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सडूमर | 6 | 762.46 |
| 15 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | छीरिया | 2 | 426.64 |
| 16 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | कोथिया | 9 | 258.76 |
| 17 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | महगुवन | 4 | 269.84 |
| 18 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सूकरी | 4 | 174.80 |
| 19 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | गनवे | 5 | 150.86 |
| 20 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | लिलवानी | 7 | 519.54 |
| 21 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | इमलिया | 4 | 82.68 |
| 22 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | पलोहा | 12 | 0.05 |
| 23 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | खैरी | 15 | 0.32 |
| 24 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | रिछावर | 15 | 0.46 |
| 25 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | अमोडा | 15 | 0.31 |
| 26 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | टिमरावन | 15 | 59.07 |
| 27 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | भटेरा | 12 | 139.30 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकासखण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|--------|-------------|----------|------------|--------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | कारजूनगर | 25 | 0.08 |
| 29 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | बिछुआ | 11 | 121.46 |
| 30 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | नरवारा | 10 | 248.42 |
| 31 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | खखरिया | 10 | 372.87 |
| 32 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | गूजरखेडा | 18 | 83.21 |
| 33 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | भैंसा | 7 | 184.38 |
| 34 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | गूजर झिरिया | 6 | 133.50 |
| 35 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | अठाईसा | 7 | 129.15 |
| 36 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बोहानी | 3 | 517.07 |
| 37 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | अमाँई | 4 | 41.52 |
| 38 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | रहली | 5 | 148.25 |
| 39 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | नयाँगाव | 5 | 175.45 |
| 40 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | लाखा | 6 | 40.13 |
| 41 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सुपारी | 7 | 102.06 |
| 42 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | देगुवान | 7 | 230.18 |
| 43 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | तिगुवन | 9 | 0.23 |
| 44 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सलैया | 9 | 0.10 |
| 45 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बहरा | 10 | 72.50 |
| 46 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सुरना | 27 | 0.21 |
| 47 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | मनकवारा | 6 | 130.82 |
| 48 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बराँज | 4 | 130.33 |
| 49 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | गगनवारा | 6 | 81.07 |
| 50 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बम्होरी | 7 | 144.91 |
| 51 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | मटवारा | 8 | 158.54 |
| 52 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | बाबई चीचली | टेकापार | 9 | 296.60 |
| 53 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सिहोरा | 9 | 189.99 |
| 54 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | हरई | 15 | 153.36 |
| 55 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | घांट पिपरिया | 6 | 302.30 |
| 56 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | अजानसरा | 10 | 214.91 |
| 57 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | चिरचिरा | 6 | 100.01 |
| 58 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | मरका | 7 | 48.61 |
| 59 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सुजवारा | 7 | 67.82 |
| 60 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बुधवारा | 8 | 117.67 |
| 61 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | ढाडिया | 7 | 289.03 |
| 62 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | शेरबरान्ज | 17 | 0.52 |
| 63 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | गरहा | 9 | 0.38 |
| 64 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सिंगोटा | 4 | 4.93 |
| 65 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | खारी | 16 | 0.26 |
| 66 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | थरैरी | 12 | 72.06 |
| 67 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साँईखेडा | उत्थन | 13 | 0.46 |
| 68 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | खिरिया | 11 | 89.15 |
| महायोग | | | | | | 9900.90 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./करेली/2024-25/१०६५, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु करेली शुगर मिल प्रा.लि., तहसील-करेली, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------|-------|------------|--------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खैरी | 13 | 63.43 |
| 2 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खैरूआ | 15 | 40.58 |
| 3 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गुरासिया | 27 | 18.36 |
| 4 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिपरिया राकई | 13 | 140.24 |
| 5 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | महलपुरा खैरी | 10 | 112.13 |
| 6 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मेरेगाँव | 15 | 22.38 |
| 7 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रेवानगर | 22 | 72.35 |
| 8 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | लुटवारा | 17 | 11.97 |
| 9 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | अम्हेटा | 10 | 164.34 |
| 10 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | करौदा | 12 | 139.24 |
| 11 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खिरिया जोवा | 7 | 72.79 |
| 12 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बीनेर | 8 | 173.55 |
| 13 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मोहद | 6 | 309.76 |
| 14 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | आमगाँव | 8 | 384.11 |
| 15 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | वधुवार | 5 | 236.32 |
| 16 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बम्होरी | 12 | 128.83 |
| 17 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | करेली | 5 | 1114.56 |
| 18 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कठोतिया | 8 | 266.38 |
| 19 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | जनौर | 9 | 124.41 |
| 20 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिपरिया | 11 | 127.67 |
| 21 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बसेडी | 10 | 48.17 |
| 22 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | राकई | 12 | 307.78 |
| 23 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कुम्हडी | 14 | 122.87 |
| 24 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खैरी कला | 12 | 98.26 |
| 25 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रामपिपरिया | 15 | 54.09 |
| 26 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सुरंगी | 18 | 52.97 |
| 27 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कंधरापुर | 20 | 38.23 |
| 28 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | करहैया | 25 | 54.76 |
| 29 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कोसमखेडा | 25 | 93.06 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------|-------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कौडिया | 13 | 28.56 |
| 31 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिपरिया | 14 | 28.53 |
| 32 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | विचुआ खुर्द | 22 | 16.03 |
| 33 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | विचुआ कला | 21 | 12.55 |
| 34 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बेलखेडी | 28 | 13.24 |
| 35 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | जीरागोरा | 27 | 9.31 |
| 36 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | दिल्हेरी | 20 | 6.01 |
| 37 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | नयाखेडा बा. | 15 | 270.90 |
| 38 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | करहैया | 20 | 20.86 |
| 39 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बासादेही | 16 | 52.62 |
| 40 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | इमलिया बासा | 6 | 24.32 |
| 41 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कोदसा | 9 | 60.22 |
| 42 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गोंगावली | 7 | 63.71 |
| 43 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | जौहरिया | 6 | 47.14 |
| 44 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | देगँवा | 10 | 24.91 |
| 45 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बसखेडा | 10 | 85.91 |
| 46 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बासादेहीइमलिया | 7 | 114.13 |
| 47 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | करताज | 26 | 53.65 |
| 48 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गौडी | 19 | 27.74 |
| 49 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | तिधरा | 18 | 9.95 |
| 50 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिपरिया | 22 | 15.67 |
| 51 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रैहली | 21 | 62.12 |
| 52 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खापा | 24 | 15.65 |
| 53 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | नानौरी | 15 | 12.44 |
| 54 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | निवारी | 17 | 69.83 |
| 55 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | ग्वारी खुर्द | 19 | 16.45 |
| 56 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | महगुवा निजोर | 15 | 65.25 |
| 57 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रमखिरिया | 20 | 72.22 |
| 58 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | हिनौतिया | 28 | 9.64 |
| 59 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | माचामउ | 13 | 12.07 |
| 60 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गोवरगौव | 10 | 134.65 |
| 61 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | तिन्सरा | 15 | 71.96 |
| 62 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिपरिया बरौ | 15 | 128.28 |
| 63 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बरौदिया | 15 | 72.25 |
| 64 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सिमरिया खुर्द | 11 | 35.73 |
| 65 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सिमसिया कला | 12 | 92.94 |
| 66 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गिधवानी | 8 | 64.23 |
| 67 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सासबहू | 12 | 283.47 |
| 68 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | जोवा | 7 | 107.59 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|------------------------|----------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | भुगवारा | 7 | 355.85 |
| 70 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | चमरूआ | 10 | 11.33 |
| 71 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बहेरिया | 5 | 10.30 |
| 72 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | समनापुर | 26 | 82.70 |
| 73 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मेहगँवा | 28 | 8.97 |
| 74 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | धूरपुर | 28 | 12.15 |
| 75 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | उमरिया | 26 | 133.79 |
| 76 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिपरहा | 27 | 8.35 |
| 77 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मोहद | 30 | 9.22 |
| 78 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रातीकरार कला | 22 | 21.95 |
| 79 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | देवरी खुर्द | 15 | 96.64 |
| 80 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रातीकरार खुर्द | 8 | 69.22 |
| 81 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | देवाकछार | 12 | 53.10 |
| 82 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बारहा | 15 | 71.26 |
| 83 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | केरपानी | 28 | 43.65 |
| 84 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खिरिया | 13 | 22.87 |
| 85 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बसौदा | 13 | 25.73 |
| 86 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | हर्दगाँव | 17 | 29.15 |
| 87 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | ग्वारी | 17 | 22.69 |
| 88 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | महलवाडा | 36 | 17.30 |
| 89 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कपूरी | 19 | 98.74 |
| | योग तहसील करेली | | | | | 8111.28 |
| 90 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | गोरास | 14 | 80.32 |
| 91 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | मडेसुर | 11 | 203.42 |
| 92 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | मोथेगाँव | 14 | 45.63 |
| 93 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | छवारा | 15 | 52.38 |
| 94 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | कामती | 15 | 210.45 |
| 95 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | कुंदुआखेडा | 20 | 17.83 |
| 96 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | गरहा | 20 | 296.80 |
| 97 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | निजोर | 13 | 106.51 |
| 98 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | कुम्हीडाबर | 18 | 89.47 |
| 99 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | झमरी | 9 | 57.77 |
| 100 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | कौडिया | 6 | 24.24 |
| 101 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | झामर | 8 | 61.93 |
| 102 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | भूतपिपरिया | 5 | 87.22 |
| 103 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | रमखिरिया | 5 | 127.66 |
| 104 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सिमरिया | 10 | 106.82 |
| 105 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | मेहगवाँ | 15 | 56.89 |
| 106 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | विलौनी | 19 | 54.11 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------|----------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 107 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | मानखेडा | 20 | 15.50 |
| 108 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | रीछा | 20 | 45.32 |
| 109 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | समारिया | 16 | 46.09 |
| 110 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | इमझिरी | 21 | 249.81 |
| 111 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | छीतापार | 20 | 85.26 |
| 112 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | खामघाट | 20 | 37.14 |
| 113 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | लिंगा | 19 | 251.05 |
| 114 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बरमान | 16 | 33.87 |
| 115 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | कुसम्ही | 21 | 67.29 |
| 116 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | ढोडोकेसला | 25 | 22.24 |
| 117 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बडियाघाट | 22 | 46.44 |
| 118 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | उमरपानी | 17 | 65.79 |
| 119 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | खुरसुरू | 15 | 62.04 |
| 120 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | सिंगोटा | 15 | 34.29 |
| 121 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | रायपानी | 18 | 15.56 |
| 122 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बीतली | 18 | 56.02 |
| 123 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | ठुठी | 15 | 99.08 |
| 124 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | पुरगाँव | 16 | 292.10 |
| 125 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | दुधवारा | 20 | 19.47 |
| 126 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | खुलरी | 21 | 234.66 |
| 127 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | बांसखेड़ा | 12 | 40.09 |
| 128 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चावरपाठा | मुड़िया | 22 | 26.85 |
| 129 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | खंचारी | 10 | 135.71 |
| 130 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | करपगाँव | 7 | 850.99 |
| 131 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | देगवाँ | 12 | 69.19 |
| 132 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सर्रा | 15 | 32.18 |
| 133 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बटेसरा | 3 | 189.15 |
| 134 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कनवास | 8 | 97.49 |
| 135 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कांकरकुईआ | 20 | 9.35 |
| 136 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | खमरिया | 10 | 64.72 |
| 137 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | चीकसा | 10 | 108.75 |
| 138 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बंदेसुर | 5 | 180.78 |
| 139 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | शाहपुर | 10 | 384.94 |
| 140 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बघौरा | 14 | 49.54 |
| 141 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | भिन्डवार | 17 | 36.30 |
| 142 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | रामखेडी | 11 | 100.98 |
| 143 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सलगापुर | 15 | 10.44 |
| 144 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | इमलिया कल्या. | 17 | 98.66 |
| 145 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | हथनापुर | 21 | 21.50 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|---------------------|-----------|------------|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 146 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | हिरदेपुर | 15 | 28.97 |
| 147 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | विजनपुर | 22 | 154.78 |
| 148 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | भूमियाघाट | 15 | 9.41 |
| 149 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | धमेटा | 20 | 130.90 |
| 150 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सलैया | 21 | 24.37 |
| 151 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सिलेटी | 32 | 6.51 |
| 152 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | खड़ई | 33 | 37.38 |
| 153 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | निघौरा | 33 | 9.76 |
| 154 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कल्यानपुर | 20 | 289.64 |
| 155 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बाम्हनवाडा | 17 | 156.86 |
| 156 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | जमनिया | 20 | 9.04 |
| 157 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मालहनवाड़ा | 10 | 217.17 |
| 158 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | नारगी | 11 | 190.07 |
| 159 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | पनारी | 13 | 248.77 |
| 160 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | टिकटोली | 20 | 55.23 |
| 161 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बेलखेड़ी | 15 | 33.71 |
| 162 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कल्यानपुर इमलिया | 15 | 94.62 |
| 163 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | भैरवपुर | 28 | 9.96 |
| 164 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | जैधारी | 29 | 16.24 |
| | योग तहसील गाडरवारा | | | | | 7689.47 |
| 165 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बम्होरी | 38 | 33.95 |
| 166 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सागोनी खुर्द | 46 | 28.78 |
| 167 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सागोनी कला | 36 | 20.53 |
| 168 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गरगटा | 38 | 7.84 |
| 169 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | तिदेनी | 23 | 7.27 |
| 170 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | देवरी कला | 10 | 35.44 |
| 171 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सिमरिया | 17 | 12.82 |
| 172 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | कुकवारा | 16 | 40.57 |
| 173 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | डुडवारा | 17 | 7.58 |
| 174 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | दुराजपुर | 24 | 22.50 |
| | योग तहसील नरसिंहपुर | | | | | 217.28 |
| | महायोग | | | | | 16018.03 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र. 2067/गन्ना/एस-4/क्षे.आर./महाकौशल/2024-25/मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अयज गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लि0, बचई, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बचई | 3 | 105.19 |
| 2 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | करहैया | 3 | 686.99 |
| 3 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बबरिया | 3 | 148.52 |
| 4 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मेहमदपुर | 4 | 42.71 |
| 5 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | अगरिया | 4 | 152.09 |
| 6 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | कन्हारपानी | 5 | 525.49 |
| 7 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मुरली पौड़ी | 5 | 121.74 |
| 8 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | चैराखेड़ा | 5 | 173.37 |
| 9 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सलैया | 5 | 45.50 |
| 10 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | डागीढाना | 6 | 165.36 |
| 11 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बागपौड़ी | 12 | 295.85 |
| 12 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मुड़िया | 8 | 112.00 |
| 13 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | हनुमत पौड़ी | 8 | 45.50 |
| 14 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बैहरपौड़ी | 8 | 207.66 |
| 15 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | डोकरघाट | 12 | 35.21 |
| 16 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | भरवारा | 13 | 224.43 |
| 17 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | खमतरा | 14 | 112.24 |
| 18 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पांसी | 15 | 107.52 |
| 19 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सेमरा (पांजरा) | 16 | 30.95 |
| 20 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | चीलाचैन खुर्द | 4 | 257.99 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | चिलाचैन कला | 10 | 78.22 |
| 22 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | समनापुर | 10 | 97.51 |
| 23 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सावलरानी | 12 | 78.43 |
| 24 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | धबई बडगुआ | 13 | 34.52 |
| 25 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | झार-खुरपा | 13 | 165.65 |
| 26 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नवलगांव | 13 | 71.93 |
| 27 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | रानी पिपरिया | 13 | 138.89 |
| 28 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सूरज गांव | 15 | 25.14 |
| 29 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मगरधा (रोसरा) | 17 | 58.39 |
| 30 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | टपरिया (धबई) | 17 | 62.31 |
| 31 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | झगरहाई | 17 | 99.48 |
| 32 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | जरजोला | 18 | 54.36 |
| 33 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गंगई | 19 | 45.50 |
| 34 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बहोरीपार | 15 | 274.65 |
| 35 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | संग्रामपुर | 15 | 49.99 |
| 36 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सहजपुरा | 18 | 134.64 |
| 37 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | श्यामखेड़ा | 22 | 11.93 |
| 38 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | लुरहेटा | 24 | 172.59 |
| 39 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | खुरपा (बड़ा) | 10 | 280.70 |
| 40 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नयाखेड़ा | 15 | 70.46 |
| 41 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बारूरेवा | 15 | 112.81 |
| 42 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बहोरीपार (धुवघट) | 17 | 30.95 |
| 43 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सिमरिया (जरजोला) | 18 | 19.32 |
| 44 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | धुवघट | 20 | 87.97 |
| 45 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | खैरी | 22 | 16.43 |
| 46 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सिंहपुर | 25 | 76.31 |
| 47 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | डेडवारा | 18 | 9.75 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 48 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सिमरिया (सिंहपुरक्षेत्र) | 20 | 14.97 |
| 49 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नदवारा | 24 | 54.40 |
| 50 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | कुम्हड़ी | 24 | 193.10 |
| 51 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बहादुरपुर | 15 | 25.20 |
| 52 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मुंगवानी | 15 | 32.51 |
| 53 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | भंडारदेव | 8 | 23.72 |
| 54 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बकोरी | 10 | 45.11 |
| 55 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मढपिपरिया | 10 | 162.42 |
| 56 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | केकड़ा | 10 | 12.68 |
| 57 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | देवनगर | 12 | 158.51 |
| 58 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | भालपानी | 12 | 9.51 |
| 59 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सिहोरा | 5 | 10.61 |
| 60 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सलैया (देवनगर) | 13 | 31.02 |
| 61 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पिंडरई (पस्ताना) | 15 | 33.96 |
| 62 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पस्ताना | 15 | 47.36 |
| 63 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | करहैया (देवनगर) | 15 | 76.31 |
| 64 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | टोला (मुंगवानी) | 17 | 12.35 |
| 65 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पटनिया | 18 | 9.45 |
| 66 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मुडरई कला | 18 | 16.23 |
| 67 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गड़रिया | 18 | 9.12 |
| 68 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पांजरा | 20 | 8.35 |
| 69 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | खमरिया (देवनगर) | 22 | 90.90 |
| 70 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | विछुआ | 38 | 9.75 |
| 71 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पाठा | 20 | 11.07 |
| 72 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | भोती | 22 | 29.56 |
| 73 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नारिया | 23 | 9.12 |
| 74 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | डुढवारा | 23 | 12.41 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | कठोतिया (मुगवानी) | 25 | 10.25 |
| 76 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | लवेरी | 26 | 8.62 |
| 77 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | लिधारी | 26 | 7.22 |
| 78 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गोगावरी | 27 | 10.52 |
| 79 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पिपरिया | 30 | 22.22 |
| 80 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | घोघरा | 31 | 8.69 |
| 81 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गोरखपुर | 35 | 47.08 |
| 82 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | कोदारास कला | 25 | 13.51 |
| 83 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मेहगांव | 40 | 7.67 |
| 84 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पाला मुडरई | 47 | 12.77 |
| 85 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | ऊसरी | 50 | 58.77 |
| 86 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | आलोद | 52 | 8.80 |
| 87 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | कछरा | 19 | 7.51 |
| 88 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | लोकीपार | 32 | 55.86 |
| 89 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बरखेड़ा | 29 | 14.97 |
| 90 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | कल्यानपुर | 32 | 188.72 |
| 91 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | भैसापाला | 32 | 61.70 |
| 92 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | भूत-पिपरिया | 35 | 41.26 |
| 93 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 16 | 77.01 |
| 94 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | पाला (भैसा) | 33 | 82.13 |
| 95 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | तिदनी (बम्होरी) | 35 | 32.51 |
| 96 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सुपला | 25 | 11.71 |
| 97 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | धमना | 28 | 130.31 |
| 98 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सगोनी (सुपला) | 28 | 35.42 |
| 99 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | डुडी-पिडरई | 29 | 16.43 |
| 100 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | रानी-पिडरई | 29 | 39.81 |
| 101 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | खापा | 30 | 58.80 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 102 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सगोनी लकड़हाऊ | 30 | 13.51 |
| 103 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नयागांव (धमना) | 30 | 95.26 |
| 104 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | बम्होरी (तिदनी) | 32 | 35.43 |
| 105 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मचवारा | 32 | 75.36 |
| 106 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | घाट-पिडरई | 34 | 26.66 |
| 107 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मुराच | 36 | 10.74 |
| 108 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | महादेव-पिपरिया | 38 | 22.30 |
| 109 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | करहैया (नर्मदा) | 38 | 7.67 |
| 110 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गुटोरी | 32 | 14.96 |
| 111 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | झिरी | 32 | 58.77 |
| 112 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | अंडिया | 22 | 7.67 |
| 113 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | डोगरगांव | 32 | 124.46 |
| 114 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | खमरिया (जरजोला) | 21 | 83.64 |
| 115 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मेंहका | 31 | 14.71 |
| 116 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | घुघरी | 35 | 6.22 |
| 117 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | करहैयाखेड़ा | 17 | 9.12 |
| 118 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सालीवाड़ा | 25 | 7.67 |
| 119 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | मल्लाह-पिपरिया | 35 | 147.82 |
| 120 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | चंद्रपुरा | 40 | 35.21 |
| 121 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गडरियाखेड़ा | 44 | 70.37 |
| 122 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | गुडवारा | 45 | 8.69 |
| 123 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | ढारिया | 30 | 7.02 |
| | योग तहसील नरसिंहपुर | | | | | 9058.37 |
| 124 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | शेड़-बेलखेड़ी | 20 | 426.33 |
| 125 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खानापुर | 23 | 42.71 |
| 126 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | शेड़-मगरधा | 24 | 266.14 |
| 127 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सूरवारी | 25 | 360.57 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 128 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | रीछा | 25 | 184.33 |
| 129 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बेदू | 27 | 271.91 |
| 130 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | छीताघाट | 27 | 38.33 |
| 131 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नयागांव (रीछा) | 27 | 36.87 |
| 132 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बरहटा | 28 | 366.09 |
| 133 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | वावली | 28 | 136.15 |
| 134 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | चिरचिटा | 28 | 12.07 |
| 135 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नोरिया (बरहटा) | 30 | 70.46 |
| 136 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | दौन (कछुआ) | 32 | 188.72 |
| 137 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | रौसरा | 32 | 29.56 |
| 138 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | जमुनिया (बरहटा) | 34 | 66.08 |
| 139 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | रौसरी | 35 | 28.14 |
| 140 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | भदौर | 35 | 9.12 |
| 141 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गाडरवाडा खेड़ा | 18 | 48.60 |
| 142 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | शेड़-पिपरिया | 22 | 7.56 |
| 143 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिलवानी | 23 | 8.80 |
| 144 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिवनी (पटी) | 40 | 6.22 |
| 145 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | अधियारी | 26 | 22.27 |
| 146 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बटका | 27 | 7.51 |
| 147 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिवनी (बंधा) | 40 | 11.71 |
| 148 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बंधा | 40 | 23.75 |
| 149 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कछुआ | 32 | 19.36 |
| 150 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नौन | 38 | 48.56 |
| 151 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | वासनपानी | 27 | 251.50 |
| 152 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बौछार | 30 | 163.91 |
| 153 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कन्धरापुर (ठेमी) | 38 | 95.26 |
| 154 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मानेगांव | 31 | 27.66 |
| 155 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कापखेड़ा | 33 | 35.42 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 156 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | छिदामानी | 33 | 29.38 |
| 157 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | करकबेल | 34 | 117.17 |
| 158 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मुगली | 34 | 71.91 |
| 159 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मेख | 34 | 306.96 |
| 160 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नन्हेगांव | 34 | 19.36 |
| 161 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | लोहारी | 34 | 39.81 |
| 162 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | ठेमी | 35 | 193.10 |
| 163 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बारगी | 35 | 33.93 |
| 164 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मुशरान-पिपरिया | 35 | 36.86 |
| 165 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बेलखेड़ा | 35 | 67.44 |
| 166 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मलहऊआ | 37 | 9.33 |
| 167 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | टपरिया (ठेमी) | 37 | 48.56 |
| 168 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | अकोला | 37 | 39.81 |
| 169 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बड़गुआ करकबेल | 37 | 9.33 |
| 170 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बम्हनी | 39 | 85.71 |
| 171 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | जटलापुर | 40 | 10.59 |
| 172 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिवनी (मुगली) | 40 | 8.69 |
| 173 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सगरा | 40 | 9.45 |
| 174 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खमरिया (कन्धरापुर) | 42 | 70.79 |
| 175 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | झामर (सांकल) | 42 | 59.77 |
| 176 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सांकल | 43 | 32.31 |
| 177 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सनगापुर | 55 | 32.51 |
| 178 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बिछुआ | 35 | 135.97 |
| 179 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बरखेड़ा | 32 | 102.39 |
| 180 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गुंदरई | 28 | 512.21 |
| 181 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गुन्जी | 44 | 39.81 |
| 182 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बिछिया | 34 | 52.90 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकासखंड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|--------------------|-------------|----------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 183 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | इमलिया | 32 | 106.86 |
| 184 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बटोरी | 38 | 9.87 |
| 185 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कमती | 33 | 110.60 |
| 186 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गडपेहरा | 33 | 10.09 |
| 187 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खमरिया (तिघरा | 42 | 12.07 |
| 188 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पथरोड़ा | 35 | 213.00 |
| 189 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | टिकरी | 35 | 64.62 |
| 190 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खमरिया (पिपरसरा) | 36 | 9.87 |
| 191 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरसरा | 37 | 52.66 |
| 192 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नोन-पिपरिया | 38 | 88.89 |
| 193 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सांकली | 38 | 9.69 |
| 194 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | चांदनखेड़ा | 38 | 73.57 |
| 195 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिडरई (सिघई) | 38 | 22.27 |
| 196 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | तिघरा (खमरिया) | 40 | 8.80 |
| 197 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिरकोना | 40 | 9.66 |
| 198 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | देवनगर (गोटेगांव) | 40 | 102.05 |
| 199 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिमरी छोटी | 42 | 35.21 |
| 200 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | राजाकछार | 43 | 48.41 |
| 201 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | रहली | 46 | 22.27 |
| 202 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | डुगरिया | 38 | 23.72 |
| 203 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | परसबाड़ा (खोबी) | 50 | 10.61 |
| 204 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | श्रीनगर | 53 | 26.56 |
| 205 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नरवारा कुकलाह | 53 | 6.86 |
| 206 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | झिरी (नगवारा) | 60 | 6.88 |
| 207 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | हिड़की पिपरिया | 35 | 6.33 |
| 208 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | जमुनिया | 10 | 7.07 |
| 209 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गढ़ाघाट | 89 | 7.33 |
| 210 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नेगुआ | 35 | 22.21 |
| 211 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नादिया | 40 | 37.85 |
| 212 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | केसली | 90 | 9.69 |
| योग तहसील गोटेगांव | | | | | | 6663.29 |
| 213 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बासकुआरी | 18 | 15.45 |
| 214 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मेनावारी | 23 | 22.41 |
| 215 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कुकवारा | 26 | 53.50 |
| 216 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | जल्लापुर | 26 | 40.10 |
| 217 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | हिनौतिया | 33 | 10.53 |
| योग तहसील गोटेगांव | | | | | | 141.99 |
| महायोग | | | | | | 15863.65 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./राज.राजे./ 2024-25 /2069, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु राजराजेश्वरी शुगर प्रा. लि., मोहपानी, गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|------------|----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मोहपानी | 1 | 45.10 |
| 2 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | चारगांव खुर्द | 3 | 42.80 |
| 3 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | पुआरिया | 5 | 158.76 |
| 4 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | माहलनवाडा | 8 | 6.61 |
| 5 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | इकलोनी | 9 | 15.45 |
| 6 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मानेगाँव | 9 | 6.09 |
| 7 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बगलई | 12 | 112.62 |
| 8 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सिंहपुर | 13 | 434.65 |
| 9 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | ढाना | 16 | 23.92 |
| 10 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सीरगाँव | 16 | 25.74 |
| 11 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | गोलगाँव (कलां) | 17 | 40.90 |
| 12 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | पिपरिया | 17 | 152.23 |
| 13 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | धुरसरा | 17 | 10.78 |
| 14 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | देवरी | 18 | 2.02 |
| 15 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | तैदूखेड़ा | 1 | 105.89 |
| 16 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मऊ | 3 | 154.28 |
| 17 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | घघरोला | 3 | 63.09 |
| 18 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | रातीकरार | 4 | 32.48 |
| 19 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | पटकुही | 7 | 12.44 |
| 20 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | किरहकोटा | 8 | 79.80 |
| 21 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कोठिया | 8 | 102.08 |
| 22 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | डोंगराखोह | 9 | 92.81 |
| 23 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | नोनिया | 9 | 7.85 |
| 24 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बन्दरबरू | 10 | 38.98 |
| 25 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बाबाकुड़ी | 12 | 116.43 |
| 26 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | छैनाकछार | 15 | 194.02 |
| 27 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | ऊखरी | 15 | 15.56 |
| 28 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | हीरापुर | 25 | 587.00 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | डगहा | 30 | 106.00 |
| 30 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | पापरा | 31 | 23.00 |
| 31 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | प्रेमपुर | 31 | 25.00 |
| 32 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सेसाडावर | 33 | 19.00 |
| 33 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सूखाखेरी | 9 | 1018.00 |
| 34 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | थलवाडा | 9 | 137.00 |
| 35 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | चीचली | 10 | 29.00 |
| 36 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | गागाई | 13 | 56.00 |
| 37 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मगरमुहा | 14 | 33.00 |
| 38 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | चोर बरहेटा | 14 | 64.00 |
| 39 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | दिघौरी | 15 | 71.00 |
| 40 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सुदरास | 15 | 22.00 |
| 41 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | सुदरास खेरी | 15 | 154.00 |
| 42 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मेहराखेड़ा | 16 | 8.00 |
| 43 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | डोंगरगाँव | 18 | 83.00 |
| 44 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कुडारी | 18 | 30.00 |
| 45 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | रायपुर | 18 | 167.00 |
| 46 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | धूरपुर | 19 | 5.00 |
| 47 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | नरसरा | 19 | 70.00 |
| 48 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | चादनखेड़ा | 20 | 233.00 |
| 49 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | आड़ेगाँव | 10 | 350.00 |
| 50 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | चारगाँव कला | 10 | 127.00 |
| 51 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | दहलवाडा | 11 | 174.00 |
| 52 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | गोलगाँव (खुर्द) | 13 | 14.00 |
| 53 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मेहगवा खुर्द | 15 | 99.00 |
| 54 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | इमालिया (पतलोना) | 17 | 78.00 |
| 55 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कान्हरगाँव | 19 | 229.00 |
| 56 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | उकासघाट | 19 | 13.00 |
| 57 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | कठौतिया | 20 | 113.00 |
| 58 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | मेहगवा कला | 21 | 226.00 |
| 59 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | बरेली (सीरगाँव) | 24 | 137.00 |
| 60 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | कामती | 23 | 107.00 |
| 61 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | खुशीपार | 28 | 41.00 |
| 62 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | पिपरिया खुर्द | 36 | 87.00 |
| 63 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | पिपरिया कला | 36 | 49.00 |
| 64 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | झिरिया माता | 36 | 50.00 |
| 65 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | उड़नी | 40 | 17.00 |
| 66 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | टेकापार | 40 | 55.00 |
| 67 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | ग्वारी (MOHD) | 48 | 34.00 |
| 68 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | अमोदा | 50 | 193.00 |
| 69 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चीचली | धुरसरू | 16 | 2.00 |
| 70 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | गरधा | 24 | 108.00 |
| 71 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | खैरी (कामती) | 25 | 52.00 |
| 72 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | पलेहरा | 26 | 55.00 |
| 73 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | निवारी | 27 | 40.00 |
| 74 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | बनवारी | 32 | 114.00 |
| 75 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | मडगुला | 32 | 232.00 |
| 76 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | साईखेड़ा | इमालिया (सीरगाँव) | 16 | 105.00 |
| महायोग :- | | | | | | 7934.38 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./वंशिका/2024-25/2021, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डो लि0, बिलगुवा, तेन्दूखेड़ा, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------|-------------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बिलगुवा | 3 | 71.60 |
| 2 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | मूढापार | 5 | 5.20 |
| 3 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | गुठौरी | 2 | 91.20 |
| 4 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बिजौरा | 3 | 50.40 |
| 5 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | जमुनिया | 5 | 26.40 |
| 6 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | पीपरवानी | 4 | 44.40 |
| 7 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | जुझारी | 5 | 9.00 |
| 8 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | मानकपुर | 3 | 20.40 |
| 9 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बांसखेड़ा | 2 | 22.80 |
| 10 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खैरी खुर्द | 5 | 108.80 |
| 11 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खैरी | 5 | 73.60 |
| 12 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बरकुण्डा | 4 | 68.20 |
| 13 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | मेहदा | 6 | 34.20 |
| 14 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | देवरी | 8 | 34.60 |
| 15 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | पडरिया | 6 | 62.80 |
| 16 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | रौसरा | 7 | 33.00 |
| 17 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | सिमरिया | 5 | 48.40 |
| 18 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | इगुवा | 5 | 4.20 |
| 19 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | देवरी (बिचुआ) | 16 | 25.80 |
| 20 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बिचुआ | 15 | 2.00 |
| 21 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | लोलरी | 12 | 11.60 |
| 22 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बिलहरा | 5 | 37.80 |
| 23 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | चैकी | 27 | 18.80 |
| 24 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | नंदिया | 5 | 35.00 |
| 25 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खुमेरखेड़ा | 6 | 56.60 |
| 26 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | धूपखेड़ा | 5 | 30.00 |
| 27 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | रम्पुरा | 5 | 206.20 |
| 28 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | हथनी | 7 | 11.00 |
| 29 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | कन्हैरी | 10 | 4.80 |
| 30 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खमरिया | 6 | 207.40 |
| 31 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | डोभी | 8 | 185.00 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------|-------------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | चिलका | 9 | 47.20 |
| 33 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | तेन्दूखेड़ा | 10 | 9.20 |
| 34 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | सागौनी | 10 | 4.40 |
| 35 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | घुघरी | 7 | 88.00 |
| 36 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | कठौतिया | 13 | 10.80 |
| 37 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | महुआखेड़ा | 16 | 10.20 |
| 38 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | दमोहिया | 14 | 32.40 |
| 39 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बंधा | 12 | 81.20 |
| 40 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | छत्तरपुर | 15 | 101.80 |
| 41 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | इमलिया | 12 | 53.40 |
| 42 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | नौरंगपुर | 11 | 55.80 |
| 43 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | करहैया | 14 | 41.60 |
| 44 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बारहा | 16 | 109.60 |
| 45 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | झिरी | 17 | 20.80 |
| 46 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | सिमरिया कलां | 17 | 100.20 |
| 47 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बिल्यारी | 18 | 140.00 |
| 48 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | कढेली | 14 | 48.00 |
| 49 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | भामा | 21 | 48.80 |
| 50 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बीकोर | 25 | 56.40 |
| 51 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खोजर टपरिया | 17 | 102.40 |
| 52 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खैरुआ टपरिया | 15 | 75.20 |
| 53 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | हीरापुर | 29 | 162.20 |
| 54 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | ग्वारी | 18 | 123.00 |
| 55 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | सूखा (ढिंगसरा) | 11 | 19.40 |
| 56 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | केसली | 25 | 25.60 |
| 57 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खैरी खुर्द | 16 | 14.80 |
| 58 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | नेनवारा | 16 | 23.40 |
| 59 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | पदम | 16 | 1.80 |
| 60 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | रुकवारा | 27 | 22.40 |
| 61 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | चांवरपाठा | 20 | 24.20 |
| 62 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | विष्णुपुर | 23 | 4.80 |
| 63 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | भरखेड़ा | 17 | 42.40 |
| 64 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | ढिंगसरा | 16 | 78.00 |
| 65 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | जगन्नाथपुर | 21 | 3.00 |
| 66 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | महगुवां | 12 | 54.60 |
| 67 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | भौरा | 16 | 76.00 |
| 68 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | खैरुआ | 15 | 38.60 |
| 69 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | मदनपुर | 14 | 26.00 |
| 70 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | करोदी | 22 | 50.00 |
| 71 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | चरगुवां | 16 | 7.60 |
| 72 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | ढिलवार | 13 | 2.20 |
| 73 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | पीपरवानी | 15 | 15.00 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 74 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | सुन्हैटी | 17 | 79.60 |
| 75 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | सर्रा | 8 | 59.00 |
| 76 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | ईश्वरपुर | 13 | 116.40 |
| 77 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | काचरकोना | 16 | 238.60 |
| 78 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | उमाहा | 12 | 2.60 |
| 79 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | इमझिरा | 15 | 45.80 |
| 80 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | टेकापार | 19 | 279.80 |
| 81 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | मनकापुर | 20 | 89.20 |
| 82 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | काशीखेरी | 24 | 150.00 |
| 83 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | इमलिया | 12 | 141.60 |
| 84 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बरेली | 18 | 36.40 |
| 85 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | गंगई | 20 | 91.00 |
| 86 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | जामुनपानी | 14 | 0.80 |
| 87 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | ऊमरपानी | 13 | 9.00 |
| 88 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | बंधी (सर्रा) | 16 | 78.00 |
| 89 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | कुकवारा | 4 | 30.40 |
| 90 | नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा | महगुवां | 12 | 8.20 |
| योग तहसील तेन्दूखेड़ा | | | | | | 5150.00 |
| 91 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मिठली | 22 | 9.00 |
| 92 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | हिरनपुर | 27 | 12.80 |
| 93 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गुरसी | 31 | 22.80 |
| 94 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गोकला | 24 | 18.40 |
| 95 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कुडी | 26 | 6.40 |
| 96 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सगौन घाट | 24 | 4.40 |
| 97 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बिकोर | 25 | 8.20 |
| 98 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खला | 15 | 8.00 |
| 99 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बम्हनी | 16 | 9.80 |
| 100 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | अमथनू | 16 | 8.80 |
| 101 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सरसला | 28 | 14.00 |
| 102 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सुआतला | 15 | 7.40 |
| 103 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पलोहा | 13 | 33.20 |
| 104 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कटंगी | 13 | 4.80 |
| 105 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिडरई कलां | 15 | 2.20 |
| 106 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | पिडरई खुर्द | 15 | 4.00 |
| 107 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | खमरिया | 19 | 5.80 |
| 108 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | जमुनिया खुर्द | 21 | 3.60 |
| 109 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रीछई | 17 | 10.60 |
| 110 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बीतली | 15 | 12.60 |
| 111 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सगरी | 16 | 14.40 |
| 112 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | गुडवारा | 16 | 3.40 |
| 113 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कुम्हारौडा | 18 | 16.80 |
| 114 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बिचुआ | 18 | 10.60 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---------------------|-----------|-----------|------------|--------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | बगदरी | 18 | 1.40 |
| 116 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रम्पुरा | 25 | 6.00 |
| 117 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | सम्मनापुर | 24 | 11.80 |
| 118 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मोथेगाव | 24 | 7.80 |
| 119 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | कल्मेटा | 14 | 1.20 |
| 120 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | रांकई | 42 | 180.60 |
| 121 | नरसिंहपुर | करेली | करेली | मानेगाव | 23 | 8.40 |
| योग तहसील करेली | | | | | | 469.20 |
| 122 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | करेली | डोंगरगांव | 40 | 2.00 |
| 123 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | करेली | मुर्गाखेडा | 37 | 2.80 |
| 124 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | करेली | बंथी | 32 | 8.40 |
| योग तहसील नरसिंहपुर | | | | | | 13.20 |
| 125 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | सगौरिया | 38 | 202.00 |
| 126 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | डुगरिया | 39 | 408.80 |
| 127 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | हेमरा | 35 | 88.80 |
| 128 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | बरमान खुर्द | 17 | 41.80 |
| 129 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | भटेरा | 36 | 157.60 |
| 130 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | थरेरी | 40 | 62.00 |
| 131 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | घघरोला | 44 | 99.40 |
| 132 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | भूमियाधाना | 42 | 53.40 |
| 133 | नरसिंहपुर | गाडरवारा | चांवरपाठा | पिठहेरा | 44 | 38.40 |
| योग तहसील गाडरवारा | | | | | | 1152.20 |
| 134 | सागर | देवरी | केसली | किशनपुर | 26 | 1.00 |
| 135 | सागर | देवरी | देवरी | सिमरिया | 33 | 3.60 |
| 136 | सागर | देवरी | देवरी | मढपिपरिया | 26 | 20.60 |
| 137 | सागर | देवरी | केसली | जमुनिया | 27 | 1.20 |
| 138 | सागर | देवरी | केसली | खमरिया | 26 | 1.80 |
| 139 | सागर | देवरी | देवरी | महाराजपुर | 28 | 11.20 |
| 140 | सागर | देवरी | देवरी | तीपरवानी | 23 | 50.40 |
| 141 | सागर | देवरी | केसली | डोभी | 35 | 4.40 |
| 142 | सागर | देवरी | केसली | सरईवन | 49 | 0.80 |
| 143 | सागर | देवरी | देवरी | पाठक पिपरिया | 47 | 1.60 |
| 144 | सागर | देवरी | देवरी | देगुवां | 41 | 16.80 |
| 145 | सागर | देवरी | देवरी | खकरिया | 28 | 2.60 |
| 146 | सागर | देवरी | देवरी | पनारी | 27 | 2.20 |
| 147 | सागर | देवरी | देवरी | मुआर खास | 48 | 0.80 |
| 148 | सागर | देवरी | केसली | मुडेरी | 55 | 1.00 |
| 149 | सागर | देवरी | देवरी | देवरी कला | 42 | 3.00 |
| योग तहसील देवरी | | | | | | 123.00 |
| 150 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | खमरिया | 19 | 14.40 |
| 151 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | इटुवा | 26 | 28.60 |
| 152 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | खापरखेडा | 23 | 14.40 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|--------|---------|------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 153 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | करहैया | 23 | 12.40 |
| 154 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | घूघरपुर | 25 | 26.00 |
| 155 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | आलीवाडा | 26 | 31.00 |
| 156 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | सहजपुरी | 26 | 13.00 |
| 157 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | खिरैटी | 27 | 43.40 |
| 158 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | पडरई | 23 | 61.80 |
| 159 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | महगुवां | 27 | 18.20 |
| 160 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | डोंगरा | 27 | 22.00 |
| 161 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | डोंगरिया | 27 | 0.00 |
| 162 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | चीखली | 21 | 13.60 |
| 163 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | वरखंदा | 25 | 7.00 |
| 164 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | सिमरिया | 26 | 4.80 |
| 165 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | स्वामी खैरुआ | 33 | 49.00 |
| 166 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बूढा | 32 | 31.60 |
| 167 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | पडरई (मेहगुवां) | 31 | 5.00 |
| 168 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | नूरजहांगंज | 26 | 20.40 |
| 169 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | थाला | 43 | 8.80 |
| 170 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | दिगावन | 43 | 3.00 |
| 171 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बडगुवां | 26 | 7.20 |
| 172 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बिलगुवां | 27 | 0.00 |
| 173 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | रौढा | 42 | 7.40 |
| 174 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | देवरी गोरखपुर | 28 | 10.20 |
| 175 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | पतई | 48 | 39.20 |
| 176 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | कोडा | 19 | 2.40 |
| 177 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | बम्होरी | 36 | 4.00 |
| 178 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | नयाखेड़ा | 45 | 2.80 |
| 179 | रायसेन | उदयपुरा | उदयपुरा | गेलावन | 37 | 7.60 |
| योग तहसील उदयपुरा | | | | | | 509.20 |
| महायोग | | | | | | 7416.80 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

1 -

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./रेवाकृपा/2024-25/१०१३, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु रेवाकृपा शुगर्स प्रा.लि., शाहपुरा (भिटौनी), जिला- जबलपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|--------|--------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | पौडी (फाटक) | 2 | 2.00 |
| 2 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | घुन्सौर | 2 | 7.80 |
| 3 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कैथरा (शहपुरा) | 4 | 32.50 |
| 4 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भिटौनी | 4 | 2.00 |
| 5 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भमकी | 4 | 1.80 |
| 6 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | खमदेही | 4 | 2.00 |
| 7 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भदरवारा | 5 | 2.80 |
| 8 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | गंजकटंगा | 5 | 35.25 |
| 9 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | शहपुरा | 5 | 5.20 |
| 10 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | नोनी (टिपरा) | 6 | 2.00 |
| 11 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | खिरकाखेड़ा | 6 | 6.20 |
| 12 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | किसरोद | 6 | 5.40 |
| 13 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | टिकरी | 6 | 3.20 |
| 14 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | टिपरा | 7 | 33.50 |
| 15 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मगरमुहा | 7 | 6.20 |
| 16 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | नटवारा | 7 | 61.80 |
| 17 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | इमलिया | 7 | 2.80 |
| 18 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | छपरट | 7 | 12.40 |
| 19 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुलोन (छपरट) | 7 | 2.60 |
| 20 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | ईश्वरखेड़ा | 8 | 2.00 |
| 21 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | लुहारा | 8 | 1.40 |
| 22 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | दिघोरी | 8 | 32.00 |
| 23 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | ढिंमर (झोझी) | 8 | 19.60 |
| 24 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | पिपरिया(कनवास) | 8 | 2.60 |
| 25 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | झोझी | 8 | 23.50 |
| 26 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | रमखिरिया | 9 | 69.00 |
| 27 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | नाचनखेड़ा | 9 | 1.80 |
| 28 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बिजना | 9 | 1.80 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|--------|--------|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | महगवा सगाड़ा | 10 | 44.70 |
| 30 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बरगी | 10 | 2.80 |
| 31 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बम्हनौदा | 10 | 1.80 |
| 32 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बिलपठार | 10 | 27.60 |
| 33 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | खपरा | 10 | 1.80 |
| 34 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | धरमपुरा बंधा | 10 | 1.80 |
| 35 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | परछिया | 10 | 1.60 |
| 36 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | हिरापुर बंधा | 11 | 1.80 |
| 37 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | उमरिया | 11 | 113.80 |
| 38 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सहोजनी | 12 | 6.80 |
| 39 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | लूटी | 12 | 21.00 |
| 40 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भीटा | 12 | 2.80 |
| 41 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मनगांवा | 12 | 13.40 |
| 42 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मानेगांव | 12 | 24.10 |
| 43 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | गड़रपिपरिया | 12 | 2.00 |
| 44 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सिहोदा | 12 | 6.60 |
| 45 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | ठूठा(मानसनगर) | 12 | 102.80 |
| 46 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बिलखिरवा | 13 | 2.30 |
| 47 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मटवारा | 13 | 47.30 |
| 48 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मुडिया | 13 | 2.80 |
| 49 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | लम्हेटा | 14 | 1.80 |
| 50 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भीटा | 14 | 1.80 |
| 51 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुसमी | 14 | 29.40 |
| 52 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | डोभी | 14 | 2.60 |
| 53 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | जमुनिया(ज्वाप) | 15 | 1.80 |
| 54 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | झरई पिपरीया | 15 | 2.60 |
| 55 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | खैरी (लम्हेटा) | 15 | 1.80 |
| 56 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | फूलर | 15 | 6.20 |
| 57 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | करहैया | 16 | 38.80 |
| 58 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | केवलारी | 16 | 10.80 |
| 59 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | नीमखेड़ा | 14 | 3.40 |
| 60 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | रैनी | 16 | 6.00 |
| 61 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | करहैया कला | 17 | 2.80 |
| 62 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कटीला | 17 | 2.00 |
| 63 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | इमलिया(मानेगांव) | 17 | 9.00 |
| 64 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मनगावां | 18 | 2.20 |
| 65 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | तिलवारा | 19 | 1.40 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|--------|--------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कूड़न | 19 | 2.60 |
| 67 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मनकैडी | 19 | 70.30 |
| 68 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | खमरिया | 20 | 1.20 |
| 69 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | तेवर पिपरीया | 20 | 2.60 |
| 70 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुआंखेडा | 23 | 1.80 |
| 71 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | जमखार | 24 | 0.80 |
| 72 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | चरगंवा (नवीन) | 24 | 32.60 |
| 73 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुसली | 24 | 53.30 |
| 74 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | जमुनिया (मैली) | 25 | 1.60 |
| 75 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सालीवाडा (मैली) | 25 | 2.20 |
| 76 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सुनाचर | 25 | 51.80 |
| 77 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | गुंदरई | 25 | 2.80 |
| 78 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मैली | 26 | 2.80 |
| 79 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बेलखेडा | 26 | 55.60 |
| 80 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | हिनोतिया | 27 | 30.00 |
| 81 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | पिपरिया कला | 28 | 15.20 |
| 82 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मातनपुर | 28 | 38.80 |
| 83 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | गुबरा कला | 30 | 30.60 |
| 84 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बिहारीपुरा | 30 | 34.80 |
| 85 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सुन्नादेही | 30 | 81.60 |
| 86 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | इमलिया | 30 | 11.20 |
| 87 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | झांसी | 30 | 7.80 |
| 88 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बरमान | 31 | 1.80 |
| 89 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | झलोन | 31 | 2.70 |
| 90 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | तुमरा | 32 | 4.40 |
| 91 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | गोकला | 32 | 58.60 |
| 92 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मेरेगांव | 34 | 56.40 |
| 93 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बेलखेडी | 34 | 92.60 |
| 94 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बसेडी | 34 | 34.80 |
| 95 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | गुबरा खुर्द | 34 | 18.40 |
| 96 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सिमरिया | 35 | 1.80 |
| 97 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुड़ा(इमलिया) | 35 | 2.70 |
| 98 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुड़ाकला | 35 | 3.60 |
| 99 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बरपटी | 35 | 31.80 |
| 100 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | पावला | 35 | 46.80 |
| 101 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | चरगंवा(पुरानी) | 35 | 25.40 |
| 102 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | मेहगंवा(भडपुरा) | 36 | 13.80 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|--------|--------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 103 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | धरती कछार | 38 | 1.60 |
| 104 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | औरिया | 38 | 1.80 |
| 105 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बम्बाबारी | 38 | 22.20 |
| 106 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सर्रा | 38 | 10.00 |
| 107 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | पाथर पौडी | 38 | 15.40 |
| 108 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | महगंवा(खाप) | 39 | 3.80 |
| 109 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | दलपतपुर | 40 | 5.20 |
| 110 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | केदारपुर | 40 | 42.00 |
| 111 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | अहमदपुर | 40 | 14.60 |
| 112 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | देवरी(पुरानी) | 42 | 36.00 |
| 113 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बढ़ैयाखेड़ा | 42 | 6.60 |
| 114 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | किसलई | 45 | 2.50 |
| 115 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सुनवारा | 45 | 45.00 |
| 116 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | नयानगर | 45 | 6.40 |
| 117 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सिंगोरी | 46 | 1.80 |
| 118 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | इमलिया(डुडवारा) | 48 | 12.00 |
| 119 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बिजना | 48 | 6.20 |
| 120 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भारतपुर | 48 | 10.70 |
| 121 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | दपकिया | 50 | 2.70 |
| 122 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भीकमपुर | 23 | 5.20 |
| 123 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सिद्धपुरी | 20 | 2.50 |
| 124 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | प्रेमनगर (सूखा) | 20 | 7.00 |
| 125 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | गंगई | 22 | 17.00 |
| 126 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | रजोला | 23 | 6.20 |
| 127 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बम्होरी | 40 | 2.70 |
| 128 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भडपुरा | 11 | 6.20 |
| 129 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुलोन बिजना | 35 | 6.40 |
| 130 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | पिपरिया बेनी | 45 | 10.80 |
| 131 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | तुमरा पाथरपोडी | 22 | 25.80 |
| 132 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बिछुआ | 32 | 9.40 |
| 133 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | हाथीकछार | 48 | 6.00 |
| 134 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कटोरी | 80 | 36.00 |
| 135 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | भेड़ाघाट | 15 | 2.70 |
| 136 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | कुलोन | 37 | 1.80 |
| 137 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | खैरी | 20 | 1.60 |
| 138 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | बिजोरी | 33 | 1.40 |
| 139 | जबलपुर | शहपुरा | शहपुरा | सोमती | 22 | 21.80 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|------------------|-------|-------|-------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | योग तहसील शहपुरा | | | | | 2279.75 |
| 140 | जबलपुर | पाटन | पाटन | सहसन | 6 | 2.25 |
| 141 | जबलपुर | पाटन | पाटन | खैरी (सहसन) | 8 | 1.00 |
| 142 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कुवरपुर | 10 | 0.80 |
| 143 | जबलपुर | पाटन | पाटन | रैयाखेड़ा | 10 | 1.60 |
| 144 | जबलपुर | पाटन | पाटन | धनेटा | 10 | 19.40 |
| 145 | जबलपुर | पाटन | पाटन | भुवारा | 11 | 1.40 |
| 146 | जबलपुर | पाटन | पाटन | राखी | 11 | 0.80 |
| 147 | जबलपुर | पाटन | पाटन | ग्वारी | 11 | 2.40 |
| 148 | जबलपुर | पाटन | पाटन | बम्होरी | 12 | 0.80 |
| 149 | जबलपुर | पाटन | पाटन | भकलिया | 12 | 0.80 |
| 150 | जबलपुर | पाटन | पाटन | नन्दवारा | 13 | 1.10 |
| 151 | जबलपुर | पाटन | पाटन | चदवा | 13 | 2.40 |
| 152 | जबलपुर | पाटन | पाटन | पड़रिया (भमक) | 14 | 2.70 |
| 153 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कुमगंवा | 14 | 0.80 |
| 154 | जबलपुर | पाटन | पाटन | सिमरिया | 14 | 1.80 |
| 155 | जबलपुर | पाटन | पाटन | बढ़ैयाखेड़ा | 15 | 2.00 |
| 156 | जबलपुर | पाटन | पाटन | मढ़पिपरिया | 15 | 1.80 |
| 157 | जबलपुर | पाटन | पाटन | पाटन | 15 | 18.40 |
| 158 | जबलपुर | पाटन | पाटन | सिंगोरी | 16 | 17.40 |
| 159 | जबलपुर | पाटन | पाटन | चपोद | 17 | 0.70 |
| 160 | जबलपुर | पाटन | पाटन | अमरपुर | 17 | 2.00 |
| 161 | जबलपुर | पाटन | पाटन | गुरुपिपरिया | 18 | 1.20 |
| 162 | जबलपुर | पाटन | पाटन | झुंडी | 18 | 0.70 |
| 163 | जबलपुर | पाटन | पाटन | महुआखेड़ा | 18 | 9.40 |
| 164 | जबलपुर | पाटन | पाटन | गाड़ाघाट | 18 | 2.80 |
| 165 | जबलपुर | पाटन | पाटन | सिंगोरी (पाटन) | 20 | 21.20 |
| 166 | जबलपुर | पाटन | पाटन | सिंगोरी (पड़रिया) | 18 | 1.80 |
| 167 | जबलपुर | पाटन | पाटन | मुस्करा | 22 | 1.40 |
| 168 | जबलपुर | पाटन | पाटन | नीमी | 22 | 14.40 |
| 169 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कटरा बेलखेड़ा | 22 | 2.00 |
| 170 | जबलपुर | पाटन | पाटन | सिमरिया | 22 | 1.40 |
| 171 | जबलपुर | पाटन | पाटन | रोसरा | 23 | 1.10 |
| 172 | जबलपुर | पाटन | पाटन | बरोदा | 25 | 1.40 |
| 173 | जबलपुर | पाटन | पाटन | हटेपुरखुर्द | 27 | 1.40 |
| 174 | जबलपुर | पाटन | पाटन | खमोद | 27 | 1.80 |
| 175 | जबलपुर | पाटन | पाटन | हटेपुरकंला | 28 | 0.70 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|----------------|----------|----------|-------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 176 | जबलपुर | पाटन | पाटन | आगासोद | 30 | 3.80 |
| 177 | जबलपुर | पाटन | पाटन | रमखिरिया | 30 | 1.80 |
| 178 | जबलपुर | पाटन | पाटन | सहसन पडरिया | 30 | 2.80 |
| 179 | जबलपुर | पाटन | पाटन | पडरिया (ब्योहारी) | 30 | 2.20 |
| 180 | जबलपुर | पाटन | पाटन | मझगंवा | 30 | 1.80 |
| 181 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कटिया लुहारी | 31 | 1.80 |
| 182 | जबलपुर | पाटन | पाटन | पडरिया (थुआ) | 32 | 1.80 |
| 183 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कैथरा | 32 | 0.80 |
| 184 | जबलपुर | पाटन | पाटन | काँटी | 25 | 2.80 |
| 185 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कनवास पिपरिया | 8 | 1.80 |
| 186 | जबलपुर | पाटन | पाटन | बनवार | 20 | 3.60 |
| 187 | जबलपुर | पाटन | पाटन | पिपरिया चन्द्रभान | 20 | 1.80 |
| 188 | जबलपुर | पाटन | पाटन | खैरी हरदुआ | 15 | 1.10 |
| 189 | जबलपुर | पाटन | पाटन | बेनीखेडा | 26 | 12.20 |
| 190 | जबलपुर | पाटन | पाटन | ओरिया | 45 | 1.80 |
| 191 | जबलपुर | पाटन | पाटन | मालाहरदुआ | 23 | 2.80 |
| 192 | जबलपुर | पाटन | पाटन | लुहारी | 36 | 3.80 |
| 193 | जबलपुर | पाटन | पाटन | रसोइया | 37 | 1.80 |
| 194 | जबलपुर | पाटन | पाटन | दोनी | 38 | 19.00 |
| 195 | जबलपुर | पाटन | पाटन | गनियारी | 45 | 8.20 |
| 196 | जबलपुर | पाटन | पाटन | नेगाई | 35 | 7.40 |
| 197 | जबलपुर | पाटन | पाटन | खजरी | 38 | 18.40 |
| 198 | जबलपुर | पाटन | पाटन | मुर्ई | 35 | 1.80 |
| 199 | जबलपुर | पाटन | पाटन | मोहला | 30 | 2.70 |
| 200 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कटंगी | 40 | 2.00 |
| 201 | जबलपुर | पाटन | पाटन | ककरेहटा | 42 | 14.00 |
| 202 | जबलपुर | पाटन | पाटन | अनघोरा | 42 | 9.30 |
| 203 | जबलपुर | पाटन | पाटन | मोहनिया | 42 | 4.00 |
| 204 | जबलपुर | पाटन | पाटन | बेलखाडू | 40 | 2.00 |
| 205 | जबलपुर | पाटन | पाटन | हिनोता | 36 | 2.50 |
| 206 | जबलपुर | पाटन | पाटन | इमलिया | 35 | 4.60 |
| 207 | जबलपुर | पाटन | पाटन | करारी | 40 | 1.80 |
| 208 | जबलपुर | पाटन | पाटन | कुशली | 36 | 1.40 |
| 209 | जबलपुर | पाटन | पाटन | पौडी | 35 | 0.70 |
| 210 | जबलपुर | पाटन | पाटन | थुआ (पडरिया) | 32 | 1.20 |
| | योग तहसील पाटन | | | | | 296.35 |
| 211 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | झांसीघाट | 18 | 40.60 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|----------|---------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 212 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बेलखेड़ी (झांसीघाट) | 16 | 36.40 |
| 213 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खमरीया(झांसीघाट) | 20 | 46.60 |
| 214 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | देगुंवा | 20 | 48.40 |
| 215 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | रिमझा(खमरिया) | 22 | 62.80 |
| 216 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मालीवाडा | 23 | 76.40 |
| 217 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिलारी | 23 | 27.20 |
| 218 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नोनी | 23 | 42.80 |
| 219 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बुढ़ीमवई | 24 | 42.40 |
| 220 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कंजई | 24 | 30.60 |
| 221 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पीपरपानी | 25 | 17.00 |
| 222 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | करेली(कला) | 25 | 47.40 |
| 223 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कुम्हडाखेडा | 28 | 18.40 |
| 224 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गोटेगांव | 25 | 13.00 |
| 225 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बुधगाव | 25 | 5.80 |
| 226 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कुमझोर | 23 | 13.50 |
| 227 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सालीवाड़ा | 23 | 45.80 |
| 228 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | झोझा | 26 | 4.80 |
| 229 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | उमरा(उमरी) | 27 | 4.40 |
| 230 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कुकलाह | 33 | 20.00 |
| 231 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गरा | 23 | 15.40 |
| 232 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मोहास | 39 | 52.40 |
| 233 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मुंवारा (भुंवारा) | 28 | 4.00 |
| 234 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कमोदी(करोदी) | 28 | 4.70 |
| 235 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कमोद | 28 | 4.80 |
| 236 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पड़रिया(मुरई) | 28 | 18.20 |
| 237 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बगलई(तिघरा) | 32 | 5.40 |
| 238 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | राखी | 28 | 15.20 |
| 239 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | रहेली(गोटेगांव) | 30 | 17.40 |
| 240 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पड़रिया | 29 | 9.60 |
| 241 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कांचर(कला) | 27 | 4.80 |
| 242 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | आंखीवाड़ा | 30 | 21.40 |
| 243 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बगलई(पचैरी) | 27 | 14.80 |
| 244 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | अतरिया | 28 | 20.20 |
| 245 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पोनिया (गोटेगांव) | 28 | 13.80 |
| 246 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खोवी (गोटेगांव) | 30 | 18.10 |
| 247 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | चरगवा | 34 | 18.00 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|----------|----------|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 248 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | भैसा | 30 | 22.60 |
| 249 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बढैयाखेड़ा (परसबाड़ा) | 30 | 18.60 |
| 250 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | परसवाड़ा | 30 | 14.40 |
| 251 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कोड़िया | 37 | 11.40 |
| 252 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | हिड़की | 28 | 5.60 |
| 253 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | छिन्दौरी | 29 | 5.20 |
| 254 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरिया(चौधरी) | 29 | 7.80 |
| 255 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मुरदई (मुरई) | 28 | 4.30 |
| 256 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मुडीया | 21 | 5.60 |
| 257 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मवई | 30 | 5.80 |
| 258 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बगतेला | 24 | 4.80 |
| 259 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | तिघरा(अतरिया) | 30 | 19.60 |
| 260 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सहजपुरा | 33 | 4.80 |
| 261 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बरेली | 28 | 4.80 |
| 262 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बरोदा | 32 | 3.60 |
| 263 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खैरी(खीरी) | 32 | 5.00 |
| 264 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कुशीवाड़ा | 22 | 25.50 |
| 265 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिमरिया (बगलईपचौरी) | 31 | 16.00 |
| 266 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | देवरीकला | 36 | 17.80 |
| 267 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरीया(अटकारी) | 28 | 4.80 |
| 268 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नरली | 32 | 4.20 |
| 269 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | देवरी (रिमिझा) | 33 | 8.60 |
| 270 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कमता(कमती) | 32 | 14.40 |
| 271 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | राका(रोता) | 28 | 3.80 |
| 272 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | तिरका | 32 | 10.50 |
| 273 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सनजी | 34 | 3.80 |
| 274 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | लम्हेटी | 34 | 4.00 |
| 275 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | रिमझा (देवरी) | 37 | 4.20 |
| 276 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिमरी बड़ी | 35 | 3.80 |
| 277 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कमती (पिडरई) | 35 | 4.00 |
| 278 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मेहका गाड़ाघाट | 29 | 3.80 |
| 279 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बहरोरा | 35 | 3.60 |
| 280 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरिया (मनकवारा) | 35 | 8.30 |
| 281 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | देवगुवां (पिपरिया) | 32 | 8.20 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | वि.ख. | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 282 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सहोजनी | 35 | 3.80 |
| 283 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | चरगावां (दपकिया) | 33 | 11.40 |
| 284 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सर्रा | 34 | 3.60 |
| 285 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | सिमरी | 36 | 3.80 |
| 286 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरसरा | 36 | 4.00 |
| 287 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | खेरूवा | 36 | 3.60 |
| 288 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | हिनीता | 36 | 3.60 |
| 289 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | घुघुरी | 36 | 3.80 |
| 290 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरिया (बाजारशुक्र) | 36 | 4.00 |
| 291 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | भडरी | 26 | 29.80 |
| 292 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | दपकिया | 35 | 24.40 |
| 293 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मेंहगवा | 37 | 3.80 |
| 294 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | लालई | 37 | 4.20 |
| 295 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | जामुनपानी | 37 | 3.80 |
| 296 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | शुकरा | 37 | 3.90 |
| 297 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | देवरी | 37 | 3.80 |
| 298 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरिया (कोहला) | 37 | 3.60 |
| 299 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | टैगोरा | 37 | 3.20 |
| 300 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बरखेड़ा (वरगाँवा) | 40 | 3.60 |
| 301 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | नरवारा | 27 | 22.60 |
| 302 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | लाटगांव | 35 | 20.20 |
| 303 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कुडा | 38 | 3.80 |
| 304 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | ओरिया | 38 | 3.80 |
| 305 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | कोरेगांव | 38 | 3.60 |
| 306 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | अंडिया | 38 | 3.80 |
| 307 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | घुघरा | 38 | 4.00 |
| 308 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | अनंतपुर | 30 | 3.40 |
| 309 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिपरिया(पथरिया) | 39 | 3.80 |
| 310 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | श्यामनगर | 39 | 3.60 |
| 311 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | दौन | 39 | 3.80 |
| 312 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बगलई(ललपुर) | 39 | 3.70 |
| 313 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | उमरिया | 39 | 19.30 |
| 314 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | दान खमरिया | 39 | 2.40 |
| 315 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | तरवारा | 30 | 33.60 |
| 316 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | शकरी | 40 | 3.60 |
| 317 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | चिंदवाड़ा | 27 | 3.80 |
| 318 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | भंडी | 40 | 3.80 |
| 319 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मनकवारा | 36 | 31.60 |
| 320 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बन्डोल | 21 | 13.00 |
| 321 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | लम्हेटा | 34 | 3.00 |
| 322 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | मेहका | 35 | 3.00 |
| 323 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | हिनीता | 36 | 2.50 |
| 324 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बरेली | 30 | 3.40 |
| 325 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | द्विघारी | 37 | 16.50 |
| 326 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बम्हनौदा | 30 | 3.00 |
| 327 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | बेलखेडी (टिकरी) | 30 | 21.40 |
| 328 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | गोहचर | 28 | 3.70 |
| 329 | नरसिंहपुर | गोटेगांव | गोटेगांव | पिडरई | 29 | 6.60 |
| योग तहसील गोटेगांव | | | | | | 1575.70 |
| महायोग | | | | | | 4151.80 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./श्रीजी/2024-25/१०१५, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि., ग्राम-सोहागपुर, तहसील एवं जिला-बैतूल (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | आरूल | 4 | 281.15 |
| 2 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बाजपुर | 8 | 208.09 |
| 3 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | चकोरा | 16 | 70.87 |
| 4 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | परसोडी बुजुर्ग | 14 | 46.95 |
| 5 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बागदा | 3 | 55.09 |
| 6 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बघवाड़ | 16 | 57.67 |
| 7 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बरसाली | 16 | 126.19 |
| 8 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | भीलवाड़ा | 12 | 81.73 |
| 9 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | ग्यारसपुर | 14 | 42.11 |
| 10 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जैतपुर | 4 | 47.99 |
| 11 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | काजीजामठी | 15 | 105.33 |
| 12 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | भडूस | 22 | 131.03 |
| 13 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खड़ला | 22 | 5.18 |
| 14 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रोढ़ा | 24 | 64.32 |
| 15 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | भैसदेही | 9 | 103.80 |
| 16 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | केलापुर | 8 | 37.44 |
| 17 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खण्डारा | 12 | 128.18 |
| 18 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | किल्लौद | 9 | 53.69 |
| 19 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मलकापुर | 9 | 262.21 |
| 20 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | उमरी | 11 | 95.92 |
| 21 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | अमदर | 24 | 23.19 |
| 22 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बघोली | 18 | 17.41 |
| 23 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | भरकावाडी | 15 | 118.02 |
| 24 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जोड़क्या | 18 | 7.96 |
| 25 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कोलगांव | 32 | 30.43 |
| 26 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | लोहरिया | 16 | 24.04 |
| 27 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सरण्डई बघोली | 25 | 4.18 |
| 28 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सुरगांव | 21 | 11.52 |
| 29 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गौठाना | 26 | 12.13 |
| 30 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जामठी | 23 | 49.67 |
| 31 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सेनाघाठी | 19 | 12.21 |
| 32 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | टिगरीया | 26 | 67.48 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | टिकारी | 25 | 60.96 |
| 34 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | उड़दन | 25 | 80.91 |
| 35 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | एनखेडा | 17 | 70.64 |
| 36 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | अर्जुनवाडी | 15 | 21.52 |
| 37 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जावरा | 12 | 227.60 |
| 38 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खेडीकोट | 27 | 89.51 |
| 39 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | नागाझिरी | 16 | 57.86 |
| 40 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | नीमनवाड़ा | 32 | 4.02 |
| 41 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रोडा सोहागपुर | 10 | 30.63 |
| 42 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सोनखेडी | 21 | 62.85 |
| 43 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सोपई | 20 | 10.83 |
| 44 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बोडी | 16 | 18.72 |
| 45 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | हमलापुर | 11 | 64.49 |
| 46 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खेड़ली | 9 | 147.00 |
| 47 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कुम्हारटेक | 13 | 43.64 |
| 48 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | राबनवाडी | 15 | 43.21 |
| 49 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सोम्वारीपेठा | 12 | 26.58 |
| 50 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बड़ोरा | 16 | 167.93 |
| 51 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | भवानीतेड़ा | 21 | 26.17 |
| 52 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | भोगीतेड़ा | 21 | 87.92 |
| 53 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कोसमी | 19 | 101.19 |
| 54 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मालीतेड़ा | 2 | 4.53 |
| 55 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | थावड़ी | 30 | 11.64 |
| 56 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सोनरखपा | 32 | 12.51 |
| 57 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जुनापानी बैतुल | 26 | 2.61 |
| 58 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | छाता | 29 | 16.96 |
| 59 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | टेमनी | 22 | 70.60 |
| 60 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बोड़ना | 32 | 31.01 |
| 61 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जैतापुर | 4 | 20.50 |
| 62 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कन्हड़ागांव | 30 | 123.81 |
| 63 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | लाखापुर | 19 | 191.19 |
| 64 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मोरङोगरी | 21 | 138.05 |
| 65 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मोवाड़ | 28 | 113.91 |
| 66 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | नीमझीरी | 26 | 48.43 |
| 67 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | ठानीमाल | 24 | 15.51 |
| 68 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | ठानीरियत | 26 | 18.44 |
| 69 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | झीटापाटी | 18 | 0.43 |
| 70 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बारव्ही | 30 | 47.78 |
| 71 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बयावाडी | 13 | 38.35 |
| 72 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गोंडीगौला | 17 | 28.15 |
| 73 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | हथनोरा | 9 | 69.58 |
| 74 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जगधर | 13 | 49.40 |
| 75 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | परसोड़ी | 7 | 61.23 |
| 76 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रेड़वा | 22 | 21.93 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|-------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सेलगांव | 30 | 20.28 |
| 78 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बुण्डाला | 6 | 79.99 |
| 79 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जुनावानी | 4 | 6.10 |
| 80 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रतनपुर | 2 | 161.22 |
| 81 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सोहागपुर | 4 | 308.51 |
| 82 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | अनकावाड़ी | 8 | 48.84 |
| 83 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खापा | 8 | 3.55 |
| 84 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मदानीढाना | 7 | 5.25 |
| 85 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मिलानपुर | 8 | 151.30 |
| 86 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | परतापुर | 4 | 47.47 |
| 87 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | साईखण्डारा | 7 | 21.87 |
| 88 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सापना | 2 | 51.89 |
| 89 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बटामा | 15 | 27.81 |
| 90 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बैतूल बाजार | 10 | 107.03 |
| 91 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | चिखल्या | 15 | 90.61 |
| 92 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | हनोत्या | 12 | 21.74 |
| 93 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बैतूल | 21 | 15.30 |
| 94 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | चारबन | 24 | 0.54 |
| 95 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सिंगनवाड़ी | 14 | 182.22 |
| 96 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | राठीपुर | 4 | 121.34 |
| 97 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | दनोरा | 18 | 123.04 |
| 98 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | नयेगांव | 26 | 17.43 |
| 99 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सेहरा | 26 | 30.01 |
| 100 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सकादेही | 26 | 43.70 |
| 101 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सोहागपुर 2 | 4 | 9.23 |
| 102 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सोहागपुर 3 | 4 | 8.15 |
| 103 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | आरूल 1 | 4 | 16.09 |
| 104 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | टपपाढाना | 18 | 0.30 |
| 105 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डाबेरी | 26 | 12.70 |
| 106 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डोनढवाड़ा | 24 | 20.69 |
| 107 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खडला | 26 | 18.09 |
| 108 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बासपानी | 31 | 3.64 |
| 109 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डोलीढाना | 38 | 43.83 |
| 110 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | उमरवानी | 34 | 11.68 |
| 111 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जुवारी | 51 | 0.40 |
| 112 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डहरगांव | 26 | 71.31 |
| 113 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डोल | 32 | 1.98 |
| 114 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गोहची | 30 | 34.77 |
| 115 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | झाडेगांव | 28 | 81.96 |
| 116 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | झगडिया | 26 | 79.94 |
| 117 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | करूयाणपुर | 31 | 32.36 |
| 118 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | लापाझिरी | 28 | 122.14 |
| 119 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | महदगांव | 24 | 113.90 |
| 120 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रावनवाड़ी | 15 | 2.56 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|----------------------|-------|------------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 121 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कुडरखेडी | 40 | 2.00 |
| योग तहसील बैतूल | | | | | | 7338.67 |
| 122 | बैतूल | आमला | आमला | अम्बाड़ा | 16 | 5.36 |
| 123 | बैतूल | आमला | आमला | पंखा नयेगांव | 14 | 7.34 |
| 124 | बैतूल | आमला | आमला | बंजारीढाल | 41 | 49.10 |
| 125 | बैतूल | आमला | आमला | ससावड | 17 | 27.29 |
| 126 | बैतूल | आमला | आमला | कान्हखापा | 23 | 3.57 |
| योग तहसील आमला | | | | | | 92.66 |
| 127 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | चिखलीमाल | 43 | 1.71 |
| 128 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | मालसीवनी | 39 | 5.00 |
| 129 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | ठानी पाडर | 29 | 21.56 |
| 130 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | पीस्साजोडी | 34 | 19.68 |
| 131 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | मेडापानी | 42 | 3.44 |
| योग तहसील शाहपुर | | | | | | 51.39 |
| 132 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | मर्दवानी | 35 | 2.83 |
| 133 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | आमाढाना | 37 | 2.43 |
| 134 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | चुरी रानीपुर | 51 | 3.64 |
| 135 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | जुवाडी रानीपुर | 51 | 30.91 |
| 136 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | खरेवानी | 65 | 1.82 |
| 137 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | मेहकर | 45 | 2.02 |
| 138 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | रानीपुर | 87 | 6.88 |
| 139 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | साल्या | 43 | 4.66 |
| 140 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | अनकावाडी | 38 | 1.01 |
| 141 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | 38 | 0.61 |
| 142 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | कोटखोड़ा | 39 | 8.06 |
| 143 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | राजेगांव खापा | 66 | 2.02 |
| योग तहसील घोडाडोंगरी | | | | | | 66.89 |
| महायोग | | | | | | 7549.61 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./हनुमंत/2024-25/१०१३, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु हनुमंत शुगर प्रा.लि., जीन जोड़-दनोरा, जिला- बैतूल (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | अटारी | 6 | 3.26 |
| 2 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | चांदबेहडा | 5 | 68.17 |
| 3 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कहुपानी | 2 | 0.62 |
| 4 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डोलीढाना | 32 | 33.83 |
| 5 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | करपा | 7 | 3.86 |
| 6 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बोरगांव | 3 | 6.22 |
| 7 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बिटिया | 4 | 4.08 |
| 8 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | बादीजुनाबानी | 6 | 17.83 |
| 9 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | भायाबाडी | 7 | 85.54 |
| 10 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | दनोरा | 1 | 21.46 |
| 11 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | देवगांव | 10 | 44.97 |
| 12 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | देवठान | 3 | 52.04 |
| 13 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | ढोल | 12 | 27.99 |
| 14 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डुन्डाबोरगांव | 7 | 65.60 |
| 15 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गुनीघाट | 9 | 1.11 |
| 16 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गोलीबरगी | 14 | 52.97 |
| 17 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गोन्डीबरगी | 10 | 13.85 |
| 18 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गढीखेडा | 13 | 71.96 |
| 19 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गजपुर | 9 | 77.74 |
| 20 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गढा | 5 | 20.75 |
| 21 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गेहूरास | 10 | 57.65 |
| 22 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | गोन्दरा | 8 | 55.92 |
| 23 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | घाना | 14 | 2.04 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|---------------|------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | हिवरखेडी | 7 | 169.76 |
| 25 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | जीन | 2 | 8.30 |
| 26 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कुमहारिया | 5 | 17.55 |
| 27 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कोराबनढाना | 12 | 17.91 |
| 28 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खापा | 4 | 44.98 |
| 29 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खापरखेड़ा | 10 | 27.80 |
| 30 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खेडीसावलीगड | 14 | 40.56 |
| 31 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | खोखरा | 5 | 22.32 |
| 32 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कोदारोटी | 7 | 74.10 |
| 33 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कनारा | 14 | 3.23 |
| 34 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | कुम्हली | 3 | 7.70 |
| 35 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | लावन्या | 11 | 41.55 |
| 36 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मंडई बुजुर्ग | 7 | 75.16 |
| 37 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | मंडई खुर्द | 8 | 182.97 |
| 38 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | महुपानी | 11 | 4.48 |
| 39 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | माथनी | 7 | 37.31 |
| 40 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | नयेगांव | 13 | 24.06 |
| 41 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | पांगरा | 7 | 90.61 |
| 42 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | प्रभुढाना | 6 | 7.39 |
| 43 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रातामाटी बुजुर्ग | 7 | 41.15 |
| 44 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रातामाटी खुर्द | 5 | 57.79 |
| 45 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रावनबाडी | 15 | 41.31 |
| 46 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सेंदुरजना | 3 | 51.37 |
| 47 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सातईमली | 7 | 28.27 |
| 48 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सेहरा | 10 | 5.44 |
| 49 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सावंगा | 15 | 10.32 |
| 50 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | सेलगांव | 16 | 5.11 |
| 51 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | टेकरा | 15 | 8.75 |
| 52 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | टहली | 3 | 8.30 |
| 53 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | झाडकुंड | 12 | 36.32 |
| 54 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | डोक्या पाढर | 25 | 58.77 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|----------------------|-------|------------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 55 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | रातामाटी कलां | 19 | 10.71 |
| 56 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | दादूढाना | 30 | 1.80 |
| 57 | बैतूल | बैतूल | बैतूल | आखतवाड़ा | 17 | 63.87 |
| योग तहसील बैतूल | | | | | | 2116.48 |
| 58 | बैतूल | घोडाडोंगरी | शाहपुर | नीमपानी | 21 | 20.32 |
| 59 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | आमागोहन | 30 | 19.57 |
| 60 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | आवरिया | 18 | 41.86 |
| 61 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | बजरबाड़ा | 18 | 4.16 |
| 62 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | भुडकीपचामा | 23 | 16.70 |
| 63 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | छुरी | 18 | 33.83 |
| 64 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | कोटखेडा | 51 | 6.60 |
| 65 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | खारी | 22 | 5.96 |
| 66 | बैतूल | घोडाडोंगरी | घोडाडोंगरी | खैरवानी | 90 | 5.06 |
| योग तहसील घोडाडोंगरी | | | | | | 154.06 |
| 67 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | असाडी | 14 | 8.22 |
| 68 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | अक्तीखेडा | 11 | 63.87 |
| 69 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | बरंगवाडी | 10 | 93.67 |
| 70 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | बोरी | 6 | 80.08 |
| 71 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | बांडीखापा | 7 | 8.31 |
| 72 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | चिचोली | 9 | 137.28 |
| 73 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | चिरापाटला | 29 | 1.27 |
| 74 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | चुडिया | 13 | 227.47 |
| 75 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | चुनागोसाई | 19 | 15.66 |
| 76 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | चूनाहुजुरी | 19 | 91.72 |
| 77 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | चूरनी | 26 | 0.59 |
| 78 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | देवपुर कोटमी | 8 | 8.55 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|--------|------------|------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 79 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | दुधिया | 13 | 32.74 |
| 80 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | ढोलिया | 8 | 58.64 |
| 81 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | धौल | 15 | 1.34 |
| 82 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | फोगरिया | 11 | 66.85 |
| 83 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | गोधना | 15 | 54.76 |
| 84 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | गोडुमंडई | 11 | 185.27 |
| 85 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | हरर्वाडी | 12 | 11.08 |
| 86 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | हरन्या | 16 | 12.49 |
| 87 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | हरदू | 15 | 21.45 |
| 88 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | इमलीढाना | 10 | 19.53 |
| 89 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | जोगली | 3 | 154.04 |
| 90 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | जीतूढाना | 16 | 0.40 |
| 91 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | जडीढाना | 5 | 25.34 |
| 92 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | जामठी | 6 | 44.80 |
| 93 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | कटकुही | 8 | 60.38 |
| 94 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | ख्वानिया | 14 | 21.55 |
| 95 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | खैरी | 12 | 13.57 |
| 96 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | कोढर | 11 | 66.99 |
| 97 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | मलाजपुर | 8 | 116.56 |
| 98 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | मागारोढी | 7 | 4.39 |
| 99 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | मोतीपुर | 19 | 6.50 |
| 100 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | मिर्जापुर | 2 | 36.13 |
| 101 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | नसीराबाद | 8 | 68.60 |
| 102 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | निवारी | 9 | 141.20 |
| 103 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | नाहरपुर | 9 | 3.36 |
| 104 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | पाठाखेडा | 21 | 2.89 |
| 105 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | रोझडा | 8 | 49.34 |
| 106 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | सीताडोगरी | 14 | 64.33 |
| 107 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | सिंगारचोडी | 17 | 4.54 |
| 108 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | साउथखेडा | 16 | 4.33 |
| 109 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | सिपलई | 9 | 6.32 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------------------|-------|--------|------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | विरपुर विघवा | 10 | 141.77 |
| 111 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | बालीरईयत | 30 | 6.83 |
| 112 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | डुडर (बीजादेही) | 70 | 1.21 |
| 113 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | मंडई झाडकुण्ड | 16 | 121.93 |
| 114 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | भग्गूढाना | 15 | 10.46 |
| 115 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | धुमका | 12 | 8.67 |
| 116 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | खान्दर | 16 | 0.57 |
| 117 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | वकाजन | 35 | 5.00 |
| 118 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | भांडवा | 70 | 0.33 |
| 119 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | बरजोरपुर | 5 | 0.40 |
| 120 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | निमिया | 84 | 0.81 |
| 121 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | धनिया जाम | 24 | 0.70 |
| 122 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | चिखली (चुनाहुजुरी) | 34 | 7.19 |
| 123 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | खैरी | 52 | 4.07 |
| 124 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | खपरिया | 15 | 0.81 |
| 125 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | कौडिया | 31 | 10.96 |
| 126 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | केसिया | 21 | 55.65 |
| 127 | बैतूल | चिचोली | चिचोली | काजरी (बीजादेही) | 58 | 0.40 |
| योग तहसील चिचोली | | | | | | 2474.16 |
| 128 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | झिरना | 60 | 5.68 |
| 129 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | भीमपुर | 19 | 45.39 |
| 130 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | बक्का चिखली | 16 | 30.58 |
| 131 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | चुनालोमा | 5 | 5.64 |
| 132 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | गधाखार | 29 | 8.29 |
| 133 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | हिडली | 15 | 8.5 |
| 134 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | झापल | 22 | 3.33 |
| 135 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | कुंखेडी | 33 | 1.21 |
| 136 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | कुटंगा | 19 | 3.22 |
| 137 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | काजरी | 12 | 12.84 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|-------|---------|------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 138 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | कुण्ड | 12 | 26.94 |
| 139 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | लक्कडजाम | 15 | 39.69 |
| 140 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | मनकदण्ड | 21 | 1.06 |
| 141 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | पिपारिया | 42 | 16.62 |
| 142 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | रतनपुर | 17 | 7.32 |
| 143 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | सेमलडोल | 19 | 29.43 |
| 144 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | डोरी | 40 | 0.45 |
| 145 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | चिल्लोर | 62 | 3.24 |
| 146 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | खामापुर | 40 | 4.07 |
| 147 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | आदर्श दनोरा | 25 | 13.89 |
| 148 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | नान्दा | 35 | 4.88 |
| 149 | बैतूल | भीमपुर | भीमपुर | गोरखी ढाना | 55 | 1.62 |
| योग तहसील भीमपुर | | | | | | 273.89 |
| 150 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | कासिया | 32 | 2.26 |
| 151 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | ढोढरा | 24 | 2.02 |
| 152 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | गुल्लाढाना | 23 | 3.24 |
| 153 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | जामूढाना | 55 | 7.30 |
| 154 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | रातामाटी कलां | 27 | 10.71 |
| 155 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | सिहार | 31 | 18.22 |
| 156 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | सोनाझार | 16 | 4.47 |
| 157 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | उनती | 23 | 6.88 |
| 158 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | ग्वाडी | 35 | 11.85 |
| 159 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | सिमोरी | 25 | 43.22 |
| 160 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | बकईखेड़ा | 20 | 0.97 |
| 161 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | घाना | 30 | 1.19 |
| 162 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | निशाना | 20 | 5.81 |
| 163 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | रातामाटी (भैसदेही) | 45 | 2.83 |
| 164 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | डोकिया | 1 | 1.34 |
| 165 | बैतूल | भैसदेही | भैसदेही | आमढाना चुनालोमा | 41 | 0.62 |
| योग तहसील भैसदेही | | | | | | 122.93 |
| 166 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | बौदरी | 15 | 17.50 |
| 167 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | घिसीबागला | 17 | 20.25 |
| 168 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | हाथीकुंड | 16 | 42.98 |
| 169 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | कान्हेगांव | 13 | 10.47 |
| 170 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | कुप्पा | 18 | 8.87 |
| 171 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | पाढर | 24 | 1.21 |
| 172 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | रामपुर | 18 | 12.75 |
| 173 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | शाहपुर | 30 | 22.02 |
| 174 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | टपपा | 16 | 49.01 |
| 175 | बैतूल | शाहपुर | शाहपुर | तारा | 16 | 32.15 |
| 176 | बैतूल | शाहपुर | घोडाडोंगरी | चिखलीमाल | 20 | 234.20 |
| 177 | बैतूल | शाहपुर | घोडाडोंगरी | पलासपानी | 23 | 4.37 |
| 178 | बैतूल | शाहपुर | घोडाडोंगरी | सीतलझिरी | 31 | 9.17 |
| योग तहसील शाहपुर | | | | | | 464.95 |
| महायोग- | | | | | | 5606.47 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./ताप्ती/2024-25/2019, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु ताप्ती एग्री इंडस्ट्रीज ग्राम-खजरी, आमला, जिला- बैतूल (म.प्र) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बैतूल | आमला | आमला | खजरी | 1 | 88.60 |
| 2 | बैतूल | आमला | आमला | डेहरी | 3 | 132.00 |
| 3 | बैतूल | आमला | आमला | माडई | 4 | 70.16 |
| 4 | बैतूल | आमला | आमला | हथनोरा | 5 | 148.49 |
| 5 | बैतूल | आमला | आमला | चोपना | 7 | 99.26 |
| 6 | बैतूल | आमला | आमला | इटावा | 10 | 76.34 |
| 7 | बैतूल | आमला | आमला | घाटावाड़ी खुर्द | 9 | 62.06 |
| 8 | बैतूल | आमला | आमला | बांगा | 7 | 95.51 |
| 9 | बैतूल | आमला | आमला | मोरखा | 5 | 113.55 |
| 10 | बैतूल | आमला | आमला | पिंडरयी | 7 | 22.13 |
| 11 | बैतूल | आमला | आमला | खापा | 8 | 2.31 |
| 12 | बैतूल | आमला | आमला | केकडिया | 9 | 14.53 |
| 13 | बैतूल | आमला | आमला | इडरिया | 13 | 67.55 |
| 14 | बैतूल | आमला | आमला | छिंदी | 11 | 36.20 |
| 15 | बैतूल | आमला | आमला | तरोड़ा बुजुर्ग | 14 | 10.09 |
| 16 | बैतूल | आमला | आमला | बिसखान | 12 | 14.95 |
| 17 | बैतूल | आमला | आमला | माथनी | 15 | 33.59 |
| 18 | बैतूल | आमला | आमला | रिधौरा | 14 | 11.63 |
| 19 | बैतूल | आमला | आमला | गुबरेल | 15 | 7.02 |
| 20 | बैतूल | आमला | आमला | महतपुर | 15 | 3.54 |
| 21 | बैतूल | आमला | आमला | खड़कवार | 21 | 2.96 |
| 22 | बैतूल | आमला | आमला | तिलाझर | 17 | 6.45 |
| 23 | बैतूल | आमला | आमला | चिखली कला | 18 | 12.96 |
| 24 | बैतूल | आमला | आमला | लाखापुर | 19 | 0.23 |
| 25 | बैतूल | आमला | आमला | कपसिया | 20 | 4.86 |
| 26 | बैतूल | आमला | आमला | दुनावा | 23 | 15.76 |
| 27 | बैतूल | आमला | आमला | बन्दिया खापा | 31 | 0.50 |
| 28 | बैतूल | आमला | आमला | सोनेगाव-दुनावा | 21 | 0.34 |
| 29 | बैतूल | आमला | आमला | डोभ | 24 | 1.80 |
| 30 | बैतूल | आमला | आमला | खैरवानी | 22 | 0.63 |
| 31 | बैतूल | आमला | आमला | हिरवाडी | 20 | 6.42 |
| 32 | बैतूल | आमला | आमला | सावरी | 15 | 0.83 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|-------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | बैतुल | आमला | आमला | बडगाव | 10 | 84.36 |
| 34 | बैतुल | आमला | आमला | कचरबोह | 14 | 91.02 |
| 35 | बैतुल | आमला | आमला | खेडली बाजार | 12 | 49.96 |
| 36 | बैतुल | आमला | आमला | तरोड़ा कलां | 15 | 142.94 |
| 37 | बैतुल | आमला | आमला | कोहपानी | 11 | 14.27 |
| 38 | बैतुल | आमला | आमला | कुजबा | 10 | 37.66 |
| 39 | बैतुल | आमला | आमला | कहलपुर | 14 | 129.57 |
| 40 | बैतुल | आमला | आमला | दंगारिया | 16 | 46.08 |
| 41 | बैतुल | आमला | आमला | वामनी | 14 | 9.79 |
| 42 | बैतुल | आमला | आमला | ब्रह्मनवाडा | 14 | 4.46 |
| 43 | बैतुल | आमला | आमला | तुरा बोरगांव | 25 | 1.87 |
| 44 | बैतुल | आमला | आमला | मदनी | 17 | 101.37 |
| 45 | बैतुल | आमला | आमला | बारछी | 18 | 55.08 |
| 46 | बैतुल | आमला | आमला | सोनेगाँव | 16 | 29.07 |
| 47 | बैतुल | आमला | आमला | राजेगाँव | 16 | 120.13 |
| 48 | बैतुल | आमला | आमला | बोरगाँव | 19 | 93.98 |
| 49 | बैतुल | आमला | आमला | उमरिया | 20 | 69.30 |
| 50 | बैतुल | आमला | आमला | भुयारी | 20 | 49.60 |
| 51 | बैतुल | आमला | आमला | कोँढर खापा | 20 | 208.61 |
| 52 | बैतुल | आमला | आमला | भोपलवाड़ी | 21 | 20.57 |
| 53 | बैतुल | आमला | आमला | समरथढाना | 21 | 16.85 |
| 54 | बैतुल | आमला | आमला | सोनतलाई | 28 | 22.72 |
| 55 | बैतुल | आमला | आमला | घाटावाड़ी कला | 15 | 154.14 |
| 56 | बैतुल | आमला | आमला | बांसखापा | 13 | 17.27 |
| 57 | बैतुल | आमला | आमला | दीपामाडई | 13 | 11.47 |
| 58 | बैतुल | आमला | आमला | भयावाड़ी | 12 | 95.99 |
| 59 | बैतुल | आमला | आमला | सेल्टीया | 14 | 86.96 |
| 60 | बैतुल | आमला | आमला | मोछी | 16 | 17.79 |
| 61 | बैतुल | आमला | आमला | घरटीया | 15 | 38.02 |
| 62 | बैतुल | आमला | आमला | जमुनिया | 18 | 7.66 |
| 63 | बैतुल | आमला | आमला | टेकापार | 22 | 14.79 |
| 64 | बैतुल | आमला | आमला | नजरपुर | 13 | 33.85 |
| 65 | बैतुल | आमला | आमला | टिकाबरी | 15 | 14.35 |
| 66 | बैतुल | आमला | आमला | कारोपनी | 17 | 27.76 |
| 67 | बैतुल | आमला | आमला | टापरवानी | 16 | 39.92 |
| 68 | बैतुल | आमला | आमला | खांडेपिपरिया | 21 | 6.30 |
| 69 | बैतुल | आमला | आमला | सोरनादेहि | 23 | 24.80 |
| 70 | बैतुल | आमला | आमला | कलमेश्वरा | 19 | 174.28 |
| 71 | बैतुल | आमला | आमला | जामुन बिछवा | 16 | 71.08 |
| 72 | बैतुल | आमला | आमला | जैतपुर | 18 | 27.64 |
| 73 | बैतुल | आमला | आमला | बोदुड | 21 | 41.43 |
| 74 | बैतुल | आमला | आमला | खमरा | 22 | 19.47 |
| 75 | बैतुल | आमला | आमला | बामला | 20 | 82.08 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------------------|----------|------------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 76 | बैतुल | आमला | आमला | सुनारगौदी | 16 | 18.50 |
| 77 | बैतुल | आमला | आमला | हरन्या | 18 | 67.57 |
| 78 | बैतुल | आमला | आमला | टांडी ढाना | 11 | 42.72 |
| 79 | बैतुल | आमला | आमला | बासन्या | 14 | 46.27 |
| 80 | बैतुल | आमला | आमला | मालेगांव | 15 | 70.69 |
| 81 | बैतुल | आमला | आमला | बोरदेही | 8 | 67.95 |
| 82 | बैतुल | आमला | आमला | चिखलार | 18 | 11.47 |
| 83 | बैतुल | आमला | आमला | गडरी ढाना | 2 | 37.71 |
| 84 | बैतुल | आमला | आमला | मोरखा खारी | 14 | 59.46 |
| 85 | बैतुल | आमला | आमला | बमनी | 12 | 0.76 |
| 86 | बैतुल | आमला | आमला | बाबरबोह | 20 | 0.71 |
| 87 | बैतुल | आमला | आमला | सेमरिया जोसी | 30 | 0.56 |
| योग तहसील आमला | | | | | | 3993.93 |
| 88 | बैतुल | मुलताई | मुलताई | खरपडाखेडी | 24 | 40.22 |
| 89 | बैतुल | मुलताई | मुलताई | करपा | 28 | 1.50 |
| 90 | बैतुल | मुलताई | मुलताई | बरई | 25 | 0.66 |
| योग तहसील मुलताई | | | | | | 42.38 |
| 91 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | मंडला | 3 | 36.30 |
| 92 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | सेमरिया सागर | 5 | 93.48 |
| 93 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | निमोटी | 3 | 118.74 |
| 94 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बेडाढाना | 7 | 34.91 |
| 95 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | सुकाढाना | 8 | 30.28 |
| 96 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | ढाकरवाडी | 9 | 51.38 |
| 97 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | सतग्वारी | 14 | 73.03 |
| 98 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | घानाउमरी | 12 | 104.56 |
| 99 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बिंद्रई | 12 | 187.97 |
| 100 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | रेवालदेही | 12 | 26.52 |
| 101 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | कठोटिया | 11 | 60.24 |
| 102 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | चोरडोंगरी | 6 | 22.44 |
| 103 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | पिपरिया मोहन | 13 | 37.49 |
| 104 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | धूरेला | 16 | 31.03 |
| 105 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बोमल्या | 16 | 19.28 |
| 106 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | अंकिया | 18 | 43.40 |
| 107 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | जंगल डेहरी | 10 | 48.55 |
| 108 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बोरदेही खुर्द | 15 | 11.34 |
| 109 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | तालखमरा | 11 | 1.28 |
| 110 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | गूंगाढाना | 24 | 5.05 |
| 111 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | साठिया | 16 | 1.28 |
| 112 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | जम्बा किराड़ी | 26 | 64.76 |
| 113 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | खैरी जिन्दा | 32 | 40.54 |
| 114 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | नवेगाव | 26 | 29.57 |
| 115 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | खिड़की कनेरी | 35 | 2.55 |
| 116 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | खदवादी | 20 | 2.54 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|----------------------|----------|------------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 117 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | सिंदरी माधव | 25 | 4.58 |
| 118 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बेलगाव | 25 | 1.95 |
| 119 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बिछवा | 25 | 2.42 |
| 120 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | निरामा | 25 | 12.10 |
| 121 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | सुहागी | 23 | 10.12 |
| 122 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | मालनी | 22 | 15.28 |
| 123 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बदनूर | 25 | 32.55 |
| 124 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | सिमरिया बंदा | 35 | 45.50 |
| 125 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | दुर्गवाडा | 30 | 6.07 |
| 126 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | उमरघोड | 35 | 24.66 |
| 127 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | कटकुही | 34 | 1.37 |
| 128 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | मोहगांव | 35 | 6.21 |
| 129 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | खुमकाल | 20 | 2.75 |
| 130 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | बलियामहू टांडी | 26 | 1.71 |
| 131 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | भतोडीया कला | 15 | 82.52 |
| 132 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | भतोडीया खुर्द | 18 | 60.22 |
| 133 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | रेंदई | 20 | 118.89 |
| 134 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | पिपरिया गनु | 22 | 22.53 |
| 135 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | सारई | 20 | 11.07 |
| 136 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | मडकाढाना | 25 | 25.75 |
| 137 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | छिंदी कामथ | 38 | 9.14 |
| 138 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | मेहंदा वीर | 30 | 0.39 |
| 139 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | तेलिवट | 36 | 1.24 |
| 140 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | हिरदागड | 38 | 6.12 |
| 141 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | मनकूघाटी | 35 | 38.71 |
| 142 | छिंदवाडा | जुन्नारदेव | जुन्नारदेव | नंददौरा | 40 | 1.03 |
| योग तहसील जुन्नारदेव | | | | | | 1723.39 |
| कुल योग | | | | | | 5759.70 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./जवाहरलाल/2024-25/208), मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लि0, शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------|--------|------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | कसरावद | 12 | 2.91 |
| 2 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | मोगांवा | 16 | 86.17 |
| 3 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | ब्राम्हणगांव | 16 | 27.94 |
| 4 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | दोगांवा | 6 | 12.33 |
| 5 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | रणगांव | 6 | 1.40 |
| 6 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बडगांव | 17 | 49.86 |
| 7 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | कठोरा(माकडखेडा) | 17 | 19.49 |
| 8 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | माकडखेडा | 17 | 47.83 |
| 9 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | गवला | 16 | 3.97 |
| 10 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | चिचलाय | 17 | 1.52 |
| 11 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | लखनगांव | 15 | 7.32 |
| 12 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | भीलगांव | 14 | 1.55 |
| 13 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सायता | 15 | 12.16 |
| 14 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बोथू | 20 | 49.34 |
| 15 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बालसमुद | 18 | 10.05 |
| 16 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | ढालखेडा | 20 | 3.82 |
| 17 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | साटकुर | 20 | 1.34 |
| 18 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | काटकुर | 20 | 1.91 |
| 19 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सलीमपुरा | 22 | 1.27 |
| 20 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | पाथोरा | 22 | 4.79 |
| 21 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सोनखेडी (रेगवा) | 17 | 0.70 |
| 22 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | पाटयापुरा | 16 | 3.86 |
| 23 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सरवरदेवला | 2 | 25.43 |
| 24 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | मिर्जापुर | 5 | 1.24 |
| 25 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | पिपलई | 2 | 5.28 |
| 26 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बोरावा | 4 | 11.92 |
| 27 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बिठेर | 10 | 10.58 |
| 28 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | गोपालपुरा | 6 | 1.99 |
| 29 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | उटावद | 7 | 8.66 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------------------|-------|--------|------------|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सोनखेडी | 15 | 3.58 |
| 31 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | भुलगांव | 19 | 2.38 |
| 32 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बामखल | 16 | 1.48 |
| 33 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | मथडाय | 13 | 1.96 |
| 34 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | कवडी | 9 | 3.86 |
| 35 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | खामखेडा | 17 | 12.25 |
| 36 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | मुलठान | 15 | 5.05 |
| 37 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | डेडगांव | 9 | 15.64 |
| 38 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सांगवी (खामखेडा) | 18 | 4.03 |
| 39 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सामेडा | 15 | 6.14 |
| 40 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | टिगरियाव | 18 | 7.97 |
| 41 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | पिपलगोन | 20 | 1.17 |
| 42 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | भटयाण बुर्जुग | 24 | 4.06 |
| 43 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | तेलियाव | 28 | 4.19 |
| 44 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | कोगावा | 13 | 3.40 |
| 45 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | अमलाथा | 27 | 81.35 |
| 46 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | नहारखेडी | 27 | 2.37 |
| 47 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | ससाबड | 30 | 4.70 |
| 48 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बलगांव | 19 | 9.94 |
| 49 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | अकबरपुरा | 19 | 2.88 |
| 50 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | अहिर धामनोद | 18 | 3.82 |
| 51 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सांगवी (उमरिया) | 9 | 7.05 |
| 52 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | दोमवाडा | 23 | 2.72 |
| 53 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | अहिल्यापुरा | 5 | 0.50 |
| 54 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | चंदनपुरी | 18 | 0.89 |
| योग तहसील कसरावद | | | | | | 610.01 |
| 55 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | डेहरी | 55 | 11.74 |
| 56 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | खेडी | 47 | 4.07 |
| 57 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | कुकडोल | 42 | 2.59 |
| 58 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | कोठा खुर्द | 47 | 0.47 |
| 59 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | मेहर घटी | 39 | 0.65 |
| 60 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | कोठा बुर्जुग | 48 | 1.20 |
| 61 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | जामली | 38 | 3.40 |
| 62 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | खरगोन | 30 | 1.03 |
| 63 | खरगोन | खरगोन | खरगोन | पिपलखेड़ा | 42 | 1.44 |
| योग तहसील खरगोन | | | | | | 26.59 |
| 64 | खरगोन | गोगावा | गोगावा | बिलाली | 40 | 6.19 |
| 65 | खरगोन | गोगावा | गोगावा | गोगावा | 26 | 0.54 |
| 66 | खरगोन | गोगावा | गोगावा | दयालपुरा | 30 | 1.80 |
| 67 | खरगोन | गोगावा | गोगावा | सुरपाला | 30 | 10.56 |
| 68 | खरगोन | गोगावा | गोगावा | खारदा | 32 | 3.82 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---------------------|-------|-----------|------------|--------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69 | खरगोन | गोगावा | गोगावा | बेहरामपुर टेमा | 45 | 4.78 |
| 70 | खरगोन | गोगावा | गोगावा | उमरखली | 47 | 3.59 |
| योग तहसील गोगावा | | | | | | 31.28 |
| 71 | खरगोन | भीकनगांव | भीकनगांव | सगुर भगुर | 50 | 11.46 |
| 72 | खरगोन | भीकनगांव | भीकनगांव | पिपरी | 35 | 5.97 |
| 73 | खरगोन | भीकनगांव | भीकनगांव | शकरखेडी | 68 | 4.83 |
| 74 | खरगोन | भीकनगांव | भीकनगांव | रेहगांव | 35 | 3.00 |
| 75 | खरगोन | भीकनगांव | भीकनगांव | अंदड | 32 | 8.15 |
| 76 | खरगोन | भीकनगांव | भीकनगांव | पोखराबाद | 65 | 1.94 |
| योग तहसील भीकनगांव | | | | | | 35.35 |
| 77 | खरगोन | भगवानपुरा | भगवानपुरा | दामखेड़ा | 55 | 1.55 |
| 78 | खरगोन | भगवानपुरा | भगवानपुरा | बन्हेर | 50.00 | 2.28 |
| योग तहसील भगवानपुरा | | | | | | 3.83 |
| 79 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | जलकोटा | 31 | 17.70 |
| 80 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | खराडी | 30 | 4.29 |
| 81 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | माचंदा | 29 | 8.38 |
| 82 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | महेश्वर | 28 | 3.14 |
| 83 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | बबलई | 42 | 1.24 |
| 84 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | मोहना | 42 | 20.86 |
| 85 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | मातमूर | 31 | 1.48 |
| 86 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | उरवाय | 45 | 8.00 |
| 87 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | बडवी | 30 | 5.50 |
| 88 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | मिर्जापुर | 43 | 3.89 |
| 89 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | काकरिया महेश्वर | 45 | 2.97 |
| 90 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | समसपुरा | 32 | 12.29 |
| 91 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | लाडवी | 24 | 0.49 |
| 92 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | मण्डलेश्वर | 20 | 11.55 |
| 93 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | जलूद | 23 | 11.71 |
| 94 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | सुल्याखेडी | 38 | 1.47 |
| 95 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | समराज | 26 | 19.87 |
| 96 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | करोदिया | 26 | 7.34 |
| 97 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | छोटी खरगोन | 23 | 5.59 |
| 98 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | चोली | 28 | 2.74 |
| 99 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | धरगांव | 26 | 4.78 |
| 100 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | सुलगांव | 31 | 53.45 |
| 101 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | गोगावा(मण्डलेश्वर) | 31 | 21.70 |
| 102 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | चुंदडिया | 34 | 5.22 |
| 103 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | नान्द्रा | 28 | 14.41 |
| 104 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | डीगार | 38 | 39.69 |
| 105 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | चैगावां | 33 | 5.40 |
| 106 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | मोहद | 35 | 3.43 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|--------|---------|------------|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 107 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | रामदह | 31 | 13.03 |
| 108 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | खारिया | 31 | 1.32 |
| 109 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | मोरीपुरा | 28 | 3.10 |
| 110 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | हरसगांव | 30 | 12.54 |
| 111 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | ढापला | 32 | 1.00 |
| 112 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | कवडिया | 45 | 5.25 |
| 113 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | देव पिपल्या | 32 | 30.61 |
| 114 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | पथराड | 32 | 6.45 |
| 115 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | सोमाखेडी | 32 | 0.98 |
| 116 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | बंडेरा | 36 | 7.56 |
| 117 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | होदडिया | 35 | 2.48 |
| 118 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | कतरगांव | 32 | 0.66 |
| 119 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | करही | 40 | 2.30 |
| 120 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | भूदरी | 43 | 1.39 |
| 121 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | पिटाम्ली | 41 | 5.04 |
| 122 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | ठनगांव | 25 | 3.23 |
| 123 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | काकटटी | 47 | 1.63 |
| 124 | खरगोन | महेश्वर | महेश्वर | केरियाखेडी | 36 | 2.13 |
| योग तहसील महेश्वर | | | | | | 399.28 |
| 125 | खरगोन | बडवाह | बडवाह | अस्तूरिया | 58 | 22.29 |
| 126 | खरगोन | बडवाह | बडवाह | सिरलाय | 62 | 3.08 |
| 127 | खरगोन | बडवाह | बडवाह | बडवाह | 62 | 14.30 |
| 128 | खरगोन | बडवाह | बडवाह | रतनपुरा | 62 | 1.82 |
| 129 | खरगोन | बडवाह | बडवाह | बलवाडा | 72 | 6.77 |
| 130 | खरगोन | बडवाह | बडवाह | बरझर | 70 | 1.04 |
| योग तहसील बडवाह | | | | | | 49.30 |
| 131 | खरगोन | सनावद | बडवाह | मर्दाना | 35 | 12.52 |
| 132 | खरगोन | सनावद | बडवाह | बकावा | 35 | 0.35 |
| 133 | खरगोन | सनावद | बडवाह | लौंदी | 26 | 3.52 |
| 134 | खरगोन | सनावद | बडवाह | काकरिया | 65 | 3.18 |
| 135 | खरगोन | सनावद | बडवाह | रावेरखेडी | 42 | 1.98 |
| 136 | खरगोन | सनावद | बडवाह | बहूद | 54 | 2.05 |
| 137 | खरगोन | सनावद | बडवाह | पीतनगर | 63 | 2.46 |
| 138 | खरगोन | सनावद | बडवाह | ढकलगांव | 64 | 3.78 |
| 139 | खरगोन | सनावद | बडवाह | जिरभार | 28 | 3.34 |
| 140 | खरगोन | सनावद | बडवाह | कानापुर | 30 | 0.83 |
| 141 | खरगोन | सनावद | बडवाह | डुडगांव (बेडिया) | 43 | 0.52 |
| योग तहसील सनावद | | | | | | 34.53 |
| 142 | खण्डवा | पुनासा | पुनासा | मोटका माफी | 64 | 1.37 |
| 143 | खण्डवा | पुनासा | पुनासा | गोल | 80 | 0.87 |
| 144 | खण्डवा | पुनासा | पुनासा | दयानतपुरा | 80 | 2.99 |
| 145 | खण्डवा | पुनासा | पुनासा | कामनखेड़ा | 78 | 2.38 |
| 146 | खण्डवा | पुनासा | पुनासा | गुंजली | 66 | 0.23 |
| योग तहसील पुनासा | | | | | | 7.84 |
| 147 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | सेमल्दा | 42 | 0.37 |
| 148 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | निमोला | 34 | 15.68 |
| 149 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | बगढीपुरा | 37 | 47.54 |
| 150 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | पेडवी | 42 | 4.89 |
| 151 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | भोगावा | 36 | 7.50 |
| 152 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | हतनावर | 42 | 22.55 |
| योग तहसील धरमपुरी | | | | | | 98.53 |
| महायोग | | | | | | 1296.54 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पेरार्ड कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./नवलसिंह/2024-25/2083, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, जिला- बुरहानपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बोरगांव खुर्द | 15 | 90.70 |
| 2 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बाडाबुजुर्ग | 13 | 3.80 |
| 3 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | ऐमागिर्द | 12 | 6.30 |
| 4 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | फतेहपुर | 8 | 33.20 |
| 5 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | रहीपुरा (बुरहानपुर) | 7 | 14.10 |
| 6 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | मोहम्मदपुरा | 16 | 3.60 |
| 7 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | मगरूल | 9 | 68.20 |
| 8 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | मचलपुरा | 3 | 22.90 |
| 9 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | निम्बोला | 4 | 44.50 |
| 10 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | रहीपुरा (निम्बोला) | 7 | 33.70 |
| 11 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | झीरी | 0 | 31.00 |
| 12 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | झांझर | 5 | 15.60 |
| 13 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | तुरकगुराड़ा | 37 | 3.40 |
| 14 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | इच्छापुर | 38 | 0.60 |
| 15 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बडगांव गुलई | 28 | 21.40 |
| 16 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | दर्यापुर | 24 | 39.00 |
| 17 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | खडकोद | 25 | 22.10 |
| 18 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | टिटगांवखुर्द | 26 | 27.80 |
| 19 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बड़झिरी | 32 | 5.30 |
| 20 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | पिपलगांव | 35 | 1.80 |
| 21 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | टिटगांवकलां | 26 | 98.80 |
| 22 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | एकलारा | 25 | 25.10 |
| 23 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | गारबडली | 10 | 34.10 |
| 24 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | बुरहानपुर | आहूखाना | 19 | 23.50 |
| योग तहसील बुरहानपुर | | | | | | 670.50 |
| 25 | बुरहानपुर | नेपानगर | बुरहानपुर | बसाड़ | 15 | 13.40 |
| 26 | बुरहानपुर | नेपानगर | बुरहानपुर | बोरी खुर्द | 15 | 34.70 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------|---------|------------|-------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | बुरहानपुर | नेपानगर | बुरहानपुर | चुलखान | 3 | 100.70 |
| 28 | बुरहानपुर | नेपानगर | बुरहानपुर | नसीराबाद | 17 | 77.20 |
| 29 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | उमरदा | 28 | 26.00 |
| 30 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | निम्ना | 21 | 25.50 |
| 31 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | हनुमंतखेड़ा | 36 | 34.50 |
| 32 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | सारोला | 27 | 46.60 |
| 33 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | अम्बाडा | 35 | 9.60 |
| 34 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | देवरी | 35 | 13.60 |
| 35 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | हिंगना | 28 | 1.00 |
| 36 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | नेवरी | 35 | 13.00 |
| 37 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | सांडसखुर्द | 28 | 7.20 |
| 38 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | महलगुराड़ा | 34 | 20.80 |
| 39 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | निम्बापुर | 35 | 3.50 |
| 40 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | नांदखेड़ा | 39 | 7.90 |
| 41 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | सिरपुर | 32 | 2.10 |
| 42 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | जैनाबाद | 20 | 139.70 |
| 43 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | डालमहू | 43 | 8.50 |
| 44 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | घाघरला | 45 | 19.80 |
| 45 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | हैदरपुर | 40 | 33.60 |
| 46 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | हिवरा | 37 | 11.20 |
| 47 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | बडीखेड़ा | 43 | 52.80 |
| 48 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | डाभियाखेड़ा | 40 | 57.30 |
| 49 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | पांचइमली | 45 | 8.10 |
| 50 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | नावरा | 45 | 37.10 |
| 51 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | रहमानपुरा | 52 | 6.40 |
| 52 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | सिंधखेड़ा (नावरा) | 50 | 10.60 |
| 53 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | दूधिया | 49 | 14.60 |
| 54 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | दर्यापुर (नावरा) | 55 | 9.10 |
| 55 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | गोराडिया | 47 | 23.00 |
| 56 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | नयाखेड़ा | 53 | 22.40 |
| 57 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | अंधारबाडी | 26 | 90.50 |
| 58 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | भातखेड़ा सीवल | 25 | 34.10 |
| 59 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | बीड़ (नेपा) | 23 | 5.10 |
| 60 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | सातपायरी | 27 | 40.90 |
| 61 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | बदनापुर (वनग्राम) | 17 | 20.30 |
| 62 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | बाकडी (वनग्राम) | 31 | 14.90 |
| 63 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | सीवल | 21 | 77.10 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|-----------|---------|------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 64 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | पलासुर | 40 | 81.10 |
| 65 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | बोरसल (चांदनी) | 16 | 25.50 |
| 66 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | डवाली | 28 | 25.00 |
| 67 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | नावथा (वनग्राम) | 37 | 29.60 |
| 68 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | रतागढ | 16 | 31.50 |
| 69 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | गौलखेड़ा | 56 | 3.20 |
| 70 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | केरपानी | 55 | 28.80 |
| 71 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | मचगांव | 54 | 11.00 |
| 72 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | रत्नापुर | 58 | 9.10 |
| 73 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | साईखेड़ा (सीवल) | 35 | 82.20 |
| 74 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | चांदनी | 16 | 3.80 |
| 75 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | अमुल्ला | - | 0.60 |
| 76 | बुरहानपुर | नेपानगर | खकनार | बाड़ाजैनाबाद | 28 | 1.20 |
| योग तहसील नेपानगर | | | | | | 1507.00 |
| 77 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | शेखापुर | 88 | 1.90 |
| 78 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | डांगुर्ला (वनग्राम) | 104 | 1.20 |
| 79 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | सिंधखेड़ा | 30 | 53.40 |
| 80 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | धाबा | 50 | 6.90 |
| 81 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | जामन्या | 56 | 4.10 |
| 82 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | खकनार | 53 | 3.70 |
| 83 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | खकनार खुर्द | 53 | 4.80 |
| 84 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | पांगरी | 58 | 10.00 |
| 85 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | बासली | 48 | 2.40 |
| 86 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | डोईफोडिया | 41 | 1.70 |
| 87 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | कारखेड़ा | 45 | 3.10 |
| 88 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | नांदुरा खुर्द | 48 | 13.40 |
| 89 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | नांदुराकला | 50 | 2.30 |
| 90 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | नागाझिरी | 50 | 2.00 |
| 91 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | साईखेड़ा (डाईफोडिया) | 46 | 2.00 |
| 92 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | ताजनापुर | 45 | 2.30 |
| 93 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | कानापुर | 58 | 2.70 |
| 94 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | मांजरोद कला | 59 | 9.20 |
| 95 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | खडकी | 67 | 0.90 |
| 96 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | रघई | 64 | 8.20 |
| 97 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | शेखपुरा | 61 | 5.60 |
| 98 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | दसघाट | 66 | 7.80 |
| 99 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | मांजरोद खुर्द | 60 | 28.20 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------------------|-----------|--------|------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | चिडियामाल | 60 | 6.10 |
| 101 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | खोदरी | 68 | 30.90 |
| 102 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | मोन्द्रा | 73 | 19.70 |
| 103 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | मेलचुका | 70 | 14.00 |
| 104 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | पीपलपानी | 71 | 18.70 |
| 105 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | रायतलाई | 68 | 23.00 |
| 106 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | रामधड | 75 | 6.90 |
| 107 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | तुकईथड | 65 | 46.30 |
| 108 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | झिरमिटी | 72 | 3.00 |
| 109 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | पांढरी | 73 | 3.20 |
| 110 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | बालापाट | 82 | 9.60 |
| 111 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | पीपरी बोरबन | 79 | 29.00 |
| 112 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | देड़तलाई | 79 | 20.00 |
| 113 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | धार (बेलथड) | 75 | 57.10 |
| 114 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | सागमली | 75 | 37.40 |
| 115 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | सातोड | 82 | 11.80 |
| 116 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | चौखंदा | 82 | 0.80 |
| 117 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | दाहिन्दा | 86 | 30.80 |
| 118 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | दैयत | 94 | 22.40 |
| 119 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | गोद्री | 96 | 4.60 |
| 120 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | परेठा | 91 | 9.70 |
| 121 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | साजनी | 89 | 10.90 |
| 122 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | बिजोरी | 65 | 19.80 |
| 123 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | डवाली | 95 | 0.40 |
| 124 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | रामाखेड़ा | 89 | 6.70 |
| 125 | बुरहानपुर | खकनार | खकनार | खैरखेड़ा | 34 | 4.40 |
| योग तहसील खकनार | | | | | | 625.00 |
| 126 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | आरूद | 43 | 14.60 |
| 127 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | धनौरा | 45 | 5.60 |
| 128 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | हेमगीर | 40 | 17.90 |
| 129 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | खिडगाव | 85 | 1.00 |
| 130 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | जामलीकला | 60 | 5.60 |
| 131 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | पोखर | 46 | 1.60 |
| 132 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | बाबली | 47 | 2.00 |
| 133 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | बोरगॉंव बुजुर्ग | 35 | 0.80 |
| 134 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | बाघमला | 41 | 29.40 |
| 135 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | गढताल | 40 | 0.40 |
| 136 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | अम्बापाट | 86 | 1.00 |
| 137 | खण्डवा | पंधाना | पंधाना | राजगढ़ | 87 | 0.60 |
| योग तहसील पंधाना | | | | | | 80.50 |
| 138 | खण्डवा | छनेरा | खालवा | झारीखेड़ा | 100 | 1.80 |
| 139 | खण्डवा | छनेरा | खालवा | रायपुर | 94 | 54.20 |
| 140 | खण्डवा | छनेरा | खालवा | सेधवाल | 97 | 38.60 |
| 141 | खण्डवा | छनेरा | खालवा | झोलपुरा | 102 | 2.20 |
| योग तहसील छनेरा | | | | | | 96.80 |
| 142 | खण्डवा | पुनासा | पुनासा | अदूखास | 115 | 19.80 |
| योग तहसील पुनासा | | | | | | 19.80 |
| 143 | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा | 59 | 1.20 |
| 144 | खण्डवा | खण्डवा | खण्डवा | जसवाडी | 64 | 0.80 |
| योग तहसील खण्डवा | | | | | | 2.00 |
| महायोग :- | | | | | | 3001.60 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैसाई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./दुर्गा/2024-25/2085, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी (शुगर) मिल्स, मेन्द्राना (पानसेमल), जिला- बड़वानी (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|---------|------------|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | जुनापानी | 12 | 59.94 |
| 2 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | आमदा | 10 | 29.47 |
| 3 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | जलगोन | 12 | 30.34 |
| 4 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | चुनाभट्टी | 15 | 2.98 |
| 5 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | पानसेमल | 5 | 1.47 |
| 6 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | घरडगाव | 14 | 21.70 |
| 7 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | दोदंवाडा | 12 | 9.32 |
| 8 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | दगरघाटी | 16 | 3.82 |
| 9 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | राजपुरा | 20 | 18.07 |
| 10 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | गौरीखेडा | 14 | 2.86 |
| 11 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | दिवडीया | 14 | 3.38 |
| 12 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | देवधर | 15 | 3.03 |
| 13 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | पिपलोद | 18 | 8.74 |
| 14 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | पिपरानी | 14 | 22.26 |
| 15 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | खडकी | 8 | 7.12 |
| 16 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | पन्नाली | 16 | 21.62 |
| 17 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | हरण्या | 17 | 7.14 |
| 18 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | रामपुरा | 14 | 2.52 |
| 19 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | पाडल्या | 20 | 0.97 |
| 20 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | भिल आमदा | 12 | 4.60 |
| 21 | बड़वानी | पानसेमल | पानसेमल | मेन्द्राना | 1 | 55.65 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|-------------|---------|------------|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | कानसुल | 3 | 129.96 |
| 23 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | गोगंवाडा | 10 | 61.12 |
| 24 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | बालझिरी | 4 | 14.48 |
| 25 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | जाहुर | 10 | 19.62 |
| 26 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | भमराटा | 7 | 31.13 |
| 27 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मेलन | 4 | 35.42 |
| 28 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | निसरपुर | 8 | 32.21 |
| 29 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | टेमला | 15 | 136.77 |
| 30 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | खोडामोहाली | 18 | 38.52 |
| 31 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | दुधी | 15 | 36.48 |
| 32 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | भडगोन | 15 | 72.45 |
| 33 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मोरतलाई | 22 | 87.50 |
| 34 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | खेतिया | 10 | 23.51 |
| 35 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | बेहडीया | 12 | 125.54 |
| 36 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | भातकी | 14 | 70.52 |
| 37 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | बांदयाबड | 16 | 15.54 |
| 38 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मलगांव | 13 | 29.28 |
| 39 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मल्फा | 13 | 52.60 |
| 40 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | आमझिरी | 20 | 11.52 |
| 41 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | टेमली | 15 | 8.10 |
| 42 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | बबुलताड | 10 | 43.67 |
| 43 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | रोकडीया | 10 | 14.77 |
| 44 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | बागदेव | 10 | 19.04 |
| 45 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | करनपुरा | 15 | 2.98 |
| 46 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मालकातर | 12 | 4.70 |
| 47 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मतराला | 9 | 9.76 |
| 48 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | टाकली | 7 | 1.00 |
| 49 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मोयदा | 13 | 2.76 |
| 50 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | बंधारा | 17 | 3.90 |
| 51 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | सकराली | 12 | 1.60 |
| 52 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | तलावडी | 15 | 2.10 |
| 53 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | राखी | 18 | 5.72 |
| 54 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | धावडी | 23 | 3.20 |
| 55 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | उची भातकी | 18 | 20.86 |
| 56 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | वागंरया | 18 | 1.88 |
| 57 | बडवानी | पानसेमल | पानसेमल | मालपुरा | 26 | 1.60 |
| योग तहसील पानसेमल | | | | | | 1488.81 |
| 58 | बडवानी | निवाली | निवाली | चाटली | 45 | 4.80 |
| योग तहसील निवाली | | | | | | 4.80 |
| महायोग | | | | | | 1493.61 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./मेकलसुता/2024-25/2087, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु मेकलसुता शुगर्स प्रा.लि., घटवां, तहसील-ठीकरी, जिला-बड़वानी (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|---------|-------|------------|--------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | कुआं | 3 | 184.97 |
| 2 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | केरवा | 3 | 22.56 |
| 3 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | कपाल्याखेड़ी | 6 | 27.08 |
| 4 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | घटवा | 1 | 65.56 |
| 5 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | अभाली | 3 | 9.13 |
| 6 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | भगवानपुरा | 2 | 6.77 |
| 7 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | ज्वरवाह | 7 | 17.84 |
| 8 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | उमरदा | 2 | 18.43 |
| 9 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | हतोला | 13 | 0.15 |
| 10 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | सेगवाल | 4 | 79.62 |
| 11 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | ठीकरी | 6 | 83.46 |
| 12 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | रणगांव | 6 | 8.55 |
| 13 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | खुरमपुरा | 15 | 0.92 |
| 14 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | काकरिया | 6 | 0.02 |
| 15 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | घट्टी | 10 | 5.21 |
| 16 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | बांदरकच्छ | 16 | 9.94 |
| 17 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | ब्राम्हणगांव | 10 | 22.03 |
| 18 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | लखनगांव | 13 | 8.42 |
| 19 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | अजंदी | 12 | 12.91 |
| 20 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | देवला | 9 | 22.94 |
| 21 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | रसवाडेब | 12 | 2.11 |
| 22 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | चिचली (मारू) | 13 | 0.05 |
| 23 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | चेनपुरा | 20 | 1.01 |
| 24 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | गवला | 13 | 0.03 |
| 25 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | कुंदामाल | 15 | 0.01 |
| 26 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | ननगांव | 13 | 3.66 |
| 27 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | दवाना | 7 | 30.61 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------------|--------|------------|---------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | विश्वनाथखेड़ा | 17 | 9.24 |
| 29 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | बलगांव | 8 | 18.07 |
| 30 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | कालापानी | 14 | 1.36 |
| 31 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | टिटगारिया | 10 | 0.02 |
| 32 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | दाबड़ | 10 | 33.16 |
| 33 | बड़वानी | ठीकरी | ठीकरी | हसनखेड़ी | 6 | 0.03 |
| | योग तहसील ठीकरी | | | | | 705.85 |
| 34 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | बावड़िया | 19 | 13.14 |
| 35 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | फत्यापुर | 20 | 0.01 |
| 36 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | किरमोही | 23 | 4.03 |
| 37 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | मंडवाड़ा | 23 | 0.04 |
| 38 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | पिपल्याडेब | 19 | 0.02 |
| 39 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | लोहारा | 22 | 23.57 |
| 40 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | केसलपुरा | 35 | 0.03 |
| 41 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | नलवाय | 19 | 0.01 |
| 42 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | तलवाड़ाडेब | 16 | 8.34 |
| 43 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | पान्या | 25 | 0.04 |
| 44 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | रणगांवडेब | 25 | 2.16 |
| 45 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | उचावद | 23 | 1.26 |
| 46 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | बिलवाडेब | 24 | 0.03 |
| 47 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | मेहगांव डेब | 16 | 0.01 |
| 48 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | मोहीपुरा | 32 | 4.20 |
| 49 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | चकेरी | 29 | 0.01 |
| 50 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | सुराना | 25 | 0.04 |
| 51 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | पिपरी डेब | 40 | 0.02 |
| 52 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | अंजड़ | 35 | 2.56 |
| 53 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | दतवाड़ा | 35 | 1.21 |
| 54 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | आवली | 38 | 5.26 |
| 55 | बड़वानी | अंजड़ | ठीकरी | छोटा. बड़दा | 35 | 1.82 |
| | योग तहसील अंजड़ | | | | | 67.82 |
| 56 | बड़वानी | राजपुर | राजपुर | सनगांव | 31 | 0.03 |
| 57 | बड़वानी | राजपुर | राजपुर | खजुरी | 27 | 3.12 |
| 58 | बड़वानी | राजपुर | राजपुर | रेलवा बुजुर्ग | 31 | 0.90 |
| 59 | बड़वानी | राजपुर | राजपुर | राजपुर | 35 | 0.87 |
| 60 | बड़वानी | राजपुर | राजपुर | साली | 40 | 3.65 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------------|---------|------------|---------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | बड़वानी | राजपुर | राजपुर | पलसूद | 50 | 4.82 |
| | तहसील योग राजपुर | | | | | 13.40 |
| 62 | बड़वानी | बड़वानी | बड़वानी | बड़वानी | 49 | 8.68 |
| 63 | बड़वानी | बड़वानी | बड़वानी | कुंडिया | 49 | 2.98 |
| | योग तहसील बड़वानी | | | | | 11.66 |
| 64 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | निमरानी | 12 | 11.98 |
| 65 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | खड़कवानी | 17 | 0.02 |
| 66 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | जरोली | 14 | 13.54 |
| 67 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | चिचली | 18 | 101.35 |
| 68 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | भोईन्दा | 18 | 101.87 |
| 69 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | कठोरा | 21 | 23.00 |
| 70 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | घाटबेड़िया | 22 | 1.29 |
| 71 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | नायदड़ | 11 | 0.01 |
| 72 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | खलटाका | 18 | 20.18 |
| 73 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | खलबुजुर्ग | 18 | 1.42 |
| 74 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | मलतार | 23 | 0.02 |
| 75 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | सत्राटी | 12 | 6.51 |
| 76 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | मगरखेड़ी | 12 | 0.03 |
| 77 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | पिपलझोपा | 14 | 0.02 |
| 78 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | बलखड़ | 18 | 0.01 |
| 79 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | पानवा | 21 | 0.01 |
| 80 | खरगोन | कसरावद | कसरावद | रेगवां | 21 | 2.42 |
| | योग तहसील कसरावद | | | | | 283.69 |
| 81 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | सुलगांव | 36 | 11.17 |
| 82 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | भवान्या खुर्द | 40 | 0.02 |
| 83 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | खतड़गांव | 39 | 9.00 |
| 84 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | धामनोद | 26 | 33.88 |
| 85 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | मोरगढ़ी | 22 | 15.33 |
| 86 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | धरमपुरी | 30 | 1.61 |
| 87 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | बेगंदा | 28 | 1.77 |
| 88 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | पटलावद | 30 | 0.01 |
| 89 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | बलवाड़ा | 25 | 0.03 |
| 90 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | पगारा | 35 | 11.50 |
| 91 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | खारपुरा | 36 | 0.01 |
| 92 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | लोहारी | 32 | 0.04 |
| 93 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | बिखरोन | 26 | 0.01 |
| 94 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | गुलझरा | 28 | 0.02 |
| 95 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | झाकरुड़ | 38 | 0.56 |
| 96 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | डोंगरगांव | 34 | 2.14 |
| 97 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | खलघाट | 18 | 16.44 |
| 98 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | पिपल्दागढ़ी | 24 | 37.50 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------------------|------|---------|------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 99 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | साला | 21 | 21.84 |
| 100 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | लुहेरा | 22 | 4.39 |
| 101 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | सुन्देल | 33 | 57.17 |
| 102 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | धेगदा | 38 | 12.12 |
| 103 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | गुलाटी | 36 | 0.01 |
| 104 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | भाटपुरा | 30 | 0.02 |
| 105 | धार | धरमपुरी | धरमपुरी | डहीवर | 30 | 0.97 |
| योग तहसील धरमपुरी | | | | | | 237.56 |
| 106 | धार | मनावर | उमरबन | लुहेरा | 47 | 24.50 |
| 107 | धार | मनावर | उमरबन | देवलरा | 38 | 9.10 |
| 108 | धार | मनावर | उमरबन | कोठड़ा | 46 | 5.56 |
| 109 | धार | मनावर | उमरबन | टवलई | 40 | 4.56 |
| 110 | धार | मनावर | उमरबन | गोगावां | 46 | 0.02 |
| 111 | धार | मनावर | उमरबन | छोटी टवलई | 41 | 3.81 |
| 112 | धार | मनावर | उमरबन | रणगांव | 45 | 0.93 |
| 113 | धार | मनावर | उमरबन | बीड़पुरा | 55 | 2.03 |
| 114 | धार | मनावर | उमरबन | भुवांदा | 55 | 5.69 |
| 115 | धार | मनावर | उमरबन | राजपुरा | 53 | 7.68 |
| 116 | धार | मनावर | उमरबन | झिरवी | 43 | 1.61 |
| 117 | धार | मनावर | उमरबन | अमलाथा | 48 | 0.10 |
| 118 | धार | मनावर | उमरबन | सरसगांव | 46 | 3.40 |
| 119 | धार | मनावर | उमरबन | मोद कानापुर | 37 | 7.67 |
| 120 | धार | मनावर | उमरबन | महापुरा | 46 | 1.78 |
| 121 | धार | मनावर | उमरबन | बगाडी | 36 | 10.11 |
| 122 | धार | मनावर | उमरबन | डेडगांव | 38 | 0.12 |
| 123 | धार | मनावर | उमरबन | कल्याणपुरा | 51 | 1.55 |
| 124 | धार | मनावर | उमरबन | बडा बडदा | 60 | 39.89 |
| 125 | धार | मनावर | उमरबन | मलनगांव | 60 | 6.63 |
| 126 | धार | मनावर | उमरबन | बाकानेर | 56 | 4.18 |
| 127 | धार | मनावर | उमरबन | मिर्जापुर | 60 | 5.28 |
| 128 | धार | मनावर | मनावर | सरिकपुरा | 62 | 7.19 |
| 129 | धार | मनावर | मनावर | गणपुर | 58 | 3.60 |
| 130 | धार | मनावर | मनावर | जोतपुर | 62 | 1.84 |
| 131 | धार | मनावर | मनावर | अजंदा | 56 | 8.89 |
| 132 | धार | मनावर | मनावर | देवला | 65 | 2.16 |
| 133 | धार | मनावर | मनावर | पेरखड़ | 66 | 12.40 |
| 134 | धार | मनावर | मनावर | करौली | 70 | 10.87 |
| 135 | धार | मनावर | मनावर | अछोदा | 72 | 39.79 |
| 136 | धार | मनावर | मनावर | एकलबारा | 71 | 48.68 |
| 137 | धार | मनावर | मनावर | सेमल्दा | 68 | 7.48 |
| योग तहसील मनावर | | | | | | 289.10 |
| 138 | धार | कुक्षी | कुक्षी | नर्मदानगर (खेड़ा सिसगांव) | 60 | 17.16 |
| 139 | धार | कुक्षी | कुक्षी | लिंगवा | 59 | 2.85 |
| योग तहसील कुक्षी | | | | | | 20.01 |
| महायोग :- | | | | | | 1629.09 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./रामदेव/2024-25/2084 मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु रामदेव शुगर प्रा. लि., ठैनी, बनखेड़ी, जिला- नर्मदापुरम (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|---------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | ठैनी | 2 | 54.25 |
| 2 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | लामटा | 3 | 44.62 |
| 3 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | चिल्लोद | 4 | 41.91 |
| 4 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बन्दरझिला | 6 | 48.87 |
| 5 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | मनकवाडा | 3 | 60.89 |
| 6 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | तिन्दवाडा | 9 | 19.49 |
| 7 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | मछेरा खुर्द | 10 | 6.74 |
| 8 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | मछेरा कलौ | 12 | 43.63 |
| 9 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | रहटवाडा | 4 | 80.09 |
| 10 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | नगवाडा | 8 | 65.47 |
| 11 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | जोगीवाडा | 7 | 33.08 |
| 12 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | दहलवाडा कलौ | 6 | 50.54 |
| 13 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पीपरपानी | 9 | 213.08 |
| 14 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कोठरी | 11 | 112.04 |
| 15 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | छीरपानी | 13 | 37.44 |
| 16 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | खवारा | 12 | 2.99 |
| 17 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | जूनावाली ढाना | 8 | 61.93 |
| 18 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पलियापरिया | 6 | 66.33 |
| 19 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | जुन्हेटा | 9 | 173.11 |
| 20 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | खर्चली | 11 | 101.95 |
| 21 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कामती | 15 | 145.98 |
| 22 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कैंकड़ा | 17 | 19.09 |
| 23 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | मुर्गीढाना | 16 | 29.32 |
| 24 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | विजनहाई | 21 | 17.56 |
| 25 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | डंगरहाई | 25 | 75.65 |
| 26 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | खापा कलौ | 19 | 64.18 |
| 27 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | खापा खुर्द | 11 | 34.23 |
| 28 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पथरकुही | 11 | 124.29 |
| 29 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | धडाव | 24 | 27.97 |
| 30 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | झिरिया | 21 | 13.04 |
| 31 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | माल्हानवाडा | 9 | 22.96 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------|---------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पनागर | 12 | 63.75 |
| 33 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | ढाना | 13 | 18.87 |
| 34 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बहराबन | 12 | 22.28 |
| 35 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | परसवाडा | 13 | 2.01 |
| 36 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | नांदना | 14 | 24.99 |
| 37 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | रिछेड़ा | 16 | 22.57 |
| 38 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | सुरैला | 17 | 37.11 |
| 39 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | अन्हाई | 20 | 46.25 |
| 40 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बारछी | 22 | 0.10 |
| 41 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | सलैया फज्जू | 23 | 4.04 |
| 42 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | डूमर | 27 | 1.44 |
| 43 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पुरेना रंधीर | 26 | 0.11 |
| 44 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | जेतवाडा | 28 | 4.98 |
| 45 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | मेंदाखेड़ा | 14 | 29.34 |
| 46 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बनखेड़ी | 5 | 28.61 |
| 47 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कलकुही | 8 | 77.20 |
| 48 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पाजरा | 10 | 90.80 |
| 49 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | महुआखेड़ा | 13 | 28.45 |
| 50 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बैरखेड़ी | 9 | 45.48 |
| 51 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | विचुआ | 8 | 33.62 |
| 52 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | सिंगपुर | 11 | 51.27 |
| 53 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पडरई | 11 | 51.93 |
| 54 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | दहलवाडा खुर्द | 10 | 38.57 |
| 55 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | फासीढाना | 14 | 41.52 |
| 56 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | झिरिया झोरा | 12 | 5.95 |
| 57 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बधराज | 14 | 29.64 |
| 58 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कोड़ा परडरई | 13 | 8.45 |
| 59 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | नजरखेड़ा | 14 | 4.78 |
| 60 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | हनौतिया | 12 | 10.67 |
| 61 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बाचावानी | 8 | 83.48 |
| 62 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | रजोला | 13 | 58.97 |
| 63 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कजियाखेड़ा | 10 | 22.48 |
| 64 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | केमढाना | 10 | 37.87 |
| 65 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | आन्धरा | 12 | 46.37 |
| 66 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बघेड़ी | 11 | 7.20 |
| 67 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कुशीढाना | 9 | 9.76 |
| 68 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पौडी | 15 | 47.66 |
| 69 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | केसला | 10 | 20.15 |
| 70 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | बनियाखेड़ी | 15 | 0.05 |
| 71 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | गोदंलवाडा | 13 | 6.69 |
| 72 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | भैरोपुर | 15 | 10.92 |
| 73 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | घुआवाड़ी | 15 | 0.17 |
| 74 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | धारपुरा | 16 | 0.07 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---------------------|-------------|---------|------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | डुगरिया | 20 | 0.18 |
| 76 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | सीरावाड़ा | 11 | 4.10 |
| 77 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | नयाखेड़ा | 4 | 3.62 |
| 78 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | करैया | 6 | 20.91 |
| 79 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | खमरिया | 5 | 44.81 |
| 80 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | राजथरी | 8 | 11.89 |
| 81 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | ईशरपुर | 9 | 54.98 |
| 82 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | गुंदरई | 11 | 16.22 |
| 83 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | वाहम्मवाड़ा | 9 | 10.85 |
| 84 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | महंगवाँ | 11 | 6.32 |
| 85 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | खैरीकिशोर | 12 | 46.91 |
| 86 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | चौदैन | 14 | 38.80 |
| 87 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | करपा | 17 | 30.49 |
| 88 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कुडारी | 16 | 20.05 |
| 89 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | समनापुर | 28 | 7.27 |
| 90 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | उमरधा | 25 | 79.34 |
| 91 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | गाडरवाड़ा खुर्द | 26 | 12.39 |
| 92 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | भाटपिरिया | 27 | 22.56 |
| 93 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | इमलिया | 27 | 151.37 |
| 94 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | गरधा | 8 | 39.87 |
| 95 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | खामखेड़ी | 9 | 17.41 |
| 96 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | जासरवानी | 13 | 21.91 |
| 97 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | चारगाँव | 11 | 9.82 |
| 98 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | कपूरी | 13 | 37.31 |
| 99 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | आमगाव | 16 | 12.61 |
| 100 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | जमुनिया | 17 | 0.12 |
| 101 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | सेमखेड़ा | 19 | 3.51 |
| 102 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | महुआखेड़ा | 14 | 7.67 |
| 103 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | निभौरा | 22 | 37.04 |
| 104 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | अम्होरा | 16 | 0.18 |
| 105 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | पठा | 26 | 6.54 |
| 106 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | राजा पिपरिया | 26 | 0.57 |
| 107 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | छातेर | 10 | 15.69 |
| 108 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | तिसरी | 20 | 5.82 |
| 109 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | सलैया किशोर | 24 | 18.16 |
| 110 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | किन्गी | 66 | 0.03 |
| 111 | नर्मदापुरम् | बनखेड़ी | बनखेड़ी | गड़रोली | 30 | 2.45 |
| योग तहसील बनखेड़ी:- | | | | | | 3889.11 |
| 112 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | परसवाड़ा | 27 | 0.05 |
| 113 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | खैराघाट | 25 | 7.26 |
| 114 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | सिगौड़ा | 17 | 15.60 |
| 115 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | सिगौड़ी | 14 | 24.91 |
| 116 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | बकांज | 12 | 4.88 |

| क्र. | जिले का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-------------------|---------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 117 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | रिछेडा पिपरिया | 26 | 36.68 |
| 118 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | नयागांव | 26 | 3.76 |
| 119 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | कन्हवार | 12 | 62.25 |
| 120 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | देवरी | 23 | 1.62 |
| 121 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | उदयपुरा | 23 | 0.04 |
| 122 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | सिरपन | 20 | 2.55 |
| 123 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | इटुआ | 19 | 1.21 |
| 124 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | टडा | 17 | 0.07 |
| 125 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | ढाडिया पिप. | 27 | 4.86 |
| 126 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | बरूआढाना | 36 | 0.11 |
| 127 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | पुनौर | 23 | 10.14 |
| 128 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | पचुआ | 44 | 0.12 |
| 129 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | पडखरा | 19 | 2.43 |
| 130 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | पारखी | 15 | 0.10 |
| 131 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | ठूठा दहलवाड़ा | 21 | 3.86 |
| 132 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | खैरी टडा | 19 | 9.84 |
| 133 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | पिपरिया | 23 | 2.83 |
| 134 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | नंदवाडा | 44 | 5.43 |
| 135 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | पचलावरा | 19 | 2.83 |
| 136 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | बिजनवाडा | 15 | 8.10 |
| 137 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | गुमा | 20 | 7.65 |
| 138 | नर्मदापुरम् | पिपरिया | पिपरिया | पुरैना कालें | 21 | 1.86 |
| | योग तहसील पिपरिया | | | | | 221.04 |
| 139 | नर्मदापुरम् | बरेली | बरेली | पाली | 18 | 0.12 |
| | योग तहसील बरेली | | | | | 0.12 |
| | महायोग | | | | | 4110.27 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

१ १ ८

क्र./गन्ना/एस-4/क्षे.आर./एन.पं./2024-25/2041), मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा. लि., ग्राम- हिरनाखेड़ी, तहसील- इंद, वि.ख.-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|-----------|-------|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | चाँद | 3 | 47.77 |
| 2 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | भांडपिपरिया | 4 | 19.83 |
| 3 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | विकला | 5 | 34.41 |
| 4 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | रानीखैरी | 6 | 28.34 |
| 5 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | कौआखेड़ा | 7 | 91.09 |
| 6 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | बेलगाँव | 8 | 45.34 |
| 7 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | मोघर | 9 | 38.05 |
| 8 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | गुमगाँव | 9 | 8.90 |
| 9 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | खापाबिहारी | 10 | 4.85 |
| 10 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | दिलावर मोहगाँव | 11 | 61.13 |
| 11 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | पखडिया | 12 | 3.64 |
| 12 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | हिवरा जयसिंह | 19 | 19.02 |
| 13 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | बतरी | 12 | 16.19 |
| 14 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | चाँदढाना | 5 | 4.45 |
| 15 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | घोघरी हरहर | 12 | 10.52 |
| 16 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | धमनिया सिरस | 18 | 33.60 |
| 17 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | बम्हनीलाला | 15 | 70.44 |
| 18 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | बर्वा | 12 | 37.24 |
| 19 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | मनिया टोला | 11 | 1.21 |
| 20 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | पांजरा | 8 | 65.18 |
| 21 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | नोनी | 13 | 70.85 |
| 22 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | नांदना | 9 | 32.38 |
| 23 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | परसोली | 10 | 27.12 |
| 24 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | पटिया | 13 | 5.66 |
| 25 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | डोंगरी टोला | 14 | 15.78 |
| 26 | छिंदवाड़ा | चाँद | चौरई | सिंगोडी टोला | 17 | 49.39 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|----------|-------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | जामुन टोला | 17 | 21.05 |
| 28 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | बाडीबाड़ा | 5 | 66.39 |
| 29 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | राजलबाडी | 10 | 10.12 |
| 30 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | झिरिया | 13 | 10.93 |
| 31 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | केरिया | 13 | 16.59 |
| 32 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | खुटपिपरिया | 13 | 16.19 |
| 33 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | हरनाखेडी | 4 | 145.74 |
| 34 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | चिखली खुर्द | 2 | 33.60 |
| 35 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | टिघरा | 5 | 65.58 |
| 36 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | सालईछिन्दी | 18 | 26.74 |
| 37 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | गोहरगाँव | 6 | 15.38 |
| 38 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | मुडिया खेड़ा | 8 | 36.03 |
| 39 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | बम्हनीतुरा | 11 | 14.57 |
| 40 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | कोडरखापा | 13 | 14.17 |
| 41 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | नीलकण्ठी कला | 15 | 0.10 |
| 42 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | नोलाझीर | 12 | 45.74 |
| 43 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | ढीमरमेटा | 6 | 20.64 |
| 44 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | माताखैरी | 14 | 38.46 |
| 45 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | पचगाँव | 15 | 87.85 |
| 46 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | खाती पिपपरिया | 16 | 9.71 |
| 47 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | टाप | 15 | 38.05 |
| 48 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | पोनिया | 16 | 12.55 |
| 49 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | खैरघाट | 14 | 21.45 |
| 50 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | तीतरी | 14 | 37.65 |
| 51 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | चंदनगाँव | 12 | 146.96 |
| 52 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | बादगाँव | 13 | 63.96 |
| 53 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | लालगाँव | 12 | 32.38 |
| 54 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | दावाझिर | 19 | 8.50 |
| 55 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | रामाटोला | 13 | 0.12 |
| 56 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | सटोटी | 17 | 14.57 |
| 57 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | सिंगोडी | 20 | 40.08 |
| 58 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | सीरस | 22 | 44.93 |
| 59 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | कुकरई | 25 | 0.02 |
| 60 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | कुम्पानी | 34 | 0.14 |
| 61 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | ढूटमर | 21 | 1.61 |
| 62 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | परसगाँव | 14 | 0.02 |
| 63 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | आमगाँव | 20 | 19.83 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|----------------|----------|------------|------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 64 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | बांसखेड़ा | 21 | 6.47 |
| 65 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | मेघदोन | 18 | 13.76 |
| 66 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | पतलोन | 20 | 6.88 |
| 67 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | रमपुरी | 18 | 82.59 |
| 68 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | जमुनिया | 21 | 3.23 |
| 69 | छिंदवाडा | चाँद | चौरई | उभेगांव | 22 | 0.11 |
| | योग तहसील चाँद | | | | | 2133.82 |
| 70 | छिंदवाडा | चौरई | चौरई | पालादौन | 19 | 13.76 |
| 71 | छिंदवाडा | चौरई | चौरई | तेंदनी | 19 | 9.31 |
| 72 | छिंदवाडा | चौरई | चौरई | बांकानागनपुर | 12 | 32.38 |
| 73 | छिंदवाडा | चौरई | चौरई | मोहगाँव कला | 13 | 8.50 |
| 74 | छिंदवाडा | चौरई | चौरई | पालहरी | 27 | 21.86 |
| 75 | छिंदवाडा | चौरई | चौरई | चोरगांव | 28 | 4.45 |
| | योग तहसील चौरई | | | | | 90.26 |
| 76 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | खुटिया | 12 | 4.85 |
| 77 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | पिंडरई कला | 15 | 15.38 |
| 78 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | शहपुरा | 6 | 69.63 |
| 79 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | खमरा | 6 | 133.60 |
| 80 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | धमनिया खमरा | 8 | 2.02 |
| 81 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | सोनापिपरी | 12 | 38.05 |
| 82 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | सलैया | 9 | 49.79 |
| 83 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | सुसरई | 13 | 27.12 |
| 84 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | खेड़ा | 13 | 2.83 |
| 85 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | पुलपुलडोह | 14 | 15.38 |
| 86 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | धावरी (भाजीपानी) | 8 | 24.69 |
| 87 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | कुहिया | 12 | 154.25 |
| 88 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | सुनारी मोहगाँव | 13 | 71.66 |
| 89 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | भाजीपानी | 19 | 5.66 |
| 90 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | खापाकला भाजीपानी | 20 | 34.00 |
| 91 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | धगडिया | 11 | 25.50 |
| 92 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | बारी | 16 | 3.23 |
| 93 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | राजना | 24 | 7.28 |
| 94 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | अकलमा | 26 | 1.21 |
| 95 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | बड्डाढाना | 4 | 0.23 |
| 96 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | बरेलिपार | 16 | 0.12 |
| 97 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | जटामा | 28 | 8.50 |

| क्र. | जिला | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम | ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी. | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------|---------------------|----------|------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 98 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | खमरा बडा | 14 | 4.04 |
| 99 | छिंदवाडा | छिंदवाडा | छिंदवाडा | पिण्डरई खुर्द | 26 | 0.19 |
| | योग तहसील छिन्दवाडा | | | | | 699.21 |
| 100 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | किशनपुर | 15 | 25.91 |
| 101 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | शेरपापड़ा | 20 | 6.47 |
| 102 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | जमनिया | 15 | 3.23 |
| 103 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | पिपरिया कला | 18 | 8.50 |
| 104 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | मालीखैरी | 22 | 10.93 |
| 105 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | बंधान | 29 | 16.19 |
| 106 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | मोया | 24 | 0.81 |
| 107 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | डोकली | 26 | 0.15 |
| 108 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | मोया मोहगांव | 24 | 0.23 |
| 109 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | थोटा | 21 | 5.26 |
| 110 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | गुमतारा | 31 | 2.42 |
| 111 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | पाथरी | 29 | 0.40 |
| 112 | छिंदवाडा | बिछुआ | बिछुआ | सागर | 27 | 4.85 |
| | योग तहसील बिछुआ | | | | | 85.35 |
| 113 | छिंदवाडा | मोहखेड़ | मोहखेड़ | केकड़ा | 26 | 6.88 |
| 114 | छिंदवाडा | मोहखेड़ | मोहखेड़ | नवलगाँव | 28 | 0.25 |
| 115 | छिंदवाडा | मोहखेड़ | मोहखेड़ | बीसापुर | 30 | 0.31 |
| 116 | छिंदवाडा | मोहखेड़ | मोहखेड़ | बामला | 27 | 0.15 |
| | योग तहसील मोहखेड़ा | | | | | 7.59 |
| | कुल योग | | | | | 3016.23 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

ॐ

क्र. 2093/गन्ना/एस-4/क्षे.आर./डोलेक्स/2024-25/²⁰⁹³, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2024-25 हेतु डोलेक्स एग्रीटेक प्रा.लि., ग्राम- एरई, तहसील-बड़ौनी, जिला-दतिया (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-

| क्रं. | जिला का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क की दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------|-------------|--------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | ऐरई | 2 | 653.56 |
| 2 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | भद्रमरा | 3 | 96.83 |
| 3 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | पिरसूरा | 5 | 57.40 |
| 4 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | सेवनी | 7 | 42.07 |
| 5 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | सुनार | 6 | 18.70 |
| 6 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | हिडोरा | 2 | 233.85 |
| 7 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | घुघसी | 6 | 335.11 |
| 8 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | हिनोटिया | 7 | 64.67 |
| 9 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | भिल्ला | 9 | 52.25 |
| 10 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | चिरोल | 10 | 20.88 |
| 11 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | कुआ | 10 | 54.85 |
| 12 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | डंगरा | 13 | 4.24 |
| 13 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | रावरी | 3 | 71.68 |
| 14 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | भिटी | 4 | 96.64 |
| 15 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | वरगाय | 13 | 52.06 |
| 16 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | रिछारी | 17 | 2.75 |
| 17 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | महेवा | 14 | 6.29 |
| 18 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | डेरा | 16 | 2.89 |
| 19 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | मुरेश | 15 | 2.69 |
| 20 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | सिनावल | 12 | 4.25 |
| 21 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | खिरिया | 6 | 79.96 |
| 22 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | सिजोरा | 8 | 120.07 |
| 23 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | किशनगढ़ | 4 | 11.39 |
| 24 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | कुरथरा | 10 | 51.43 |
| 25 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | कमथरा | 13 | 34.51 |
| 26 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | बड़ौनीखुर्द | 7 | 9.72 |
| 27 | दतिया | बड़ौनी | दतिया | जिगना | 11 | 7.95 |

| क्रं. | जिला का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क की दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------|-------------|--------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | तिवारीपुरा | 12 | 4.23 |
| 29 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | रामसागर | 10 | 4.38 |
| 30 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | गोविन्दपुर | 14 | 3.73 |
| 31 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | निचरोली | 13 | 4.91 |
| 32 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | सहडोरा | 14 | 20.85 |
| 33 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | मडोर | 14 | 16.75 |
| 34 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | विल्हारी | 12 | 62.44 |
| 35 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | भासड़ाखुर्द | 21 | 33.14 |
| 36 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | भासड़ाकला | 23 | 6.74 |
| 37 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | नेकोरा | 26 | 6.06 |
| 38 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | ज्योंहार | 12 | 32.77 |
| 39 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | सतारी | 14 | 8.52 |
| 40 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | पाली | 14 | 38.57 |
| 41 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | तोरा सुनारी | 14 | 18.93 |
| 42 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | भेरा | 14 | 5.72 |
| 43 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | छता | 14 | 8.06 |
| 44 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | सनाई | 12 | 40.18 |
| 45 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | टका | 18 | 8.43 |
| 46 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | गागौरी | 18 | 12.35 |
| 47 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | जनोरी | 21 | 4.59 |
| 48 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | सरेटा | 22 | 6.05 |
| 49 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | डबरई | 19 | 8.24 |
| 50 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | रेपुरा | 9 | 30.72 |
| 51 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | सेपुरा | 8 | 19.50 |
| 52 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | नन्दपुर | 9 | 24.20 |
| 53 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | बामरोल | 8 | 31.25 |
| 54 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | तरूआ | 7 | 12.97 |
| 55 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | बड़ोनकला | 13 | 97.78 |
| 56 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | चिरई | 10 | 5.71 |
| 57 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | छिरेटा | 22 | 7.70 |
| 58 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | गोंधारी | 20 | 5.32 |
| 59 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | डबरी पमारी | 14 | 7.09 |
| 60 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | बीरी | 19 | 7.72 |
| 61 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | पुष्कर | 24 | 6.10 |
| 62 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | जगदोरा | 24 | 6.49 |
| 63 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | बड़ोनी | - | 0.14 |
| 64 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | रांव कलां | 9 | 221.60 |

| क्रं. | जिला का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क की दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|-------|------------------|--------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | ओरिना | 10 | 29.18 |
| 66 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | लमकना | 10 | 35.80 |
| 67 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | कलोथरा | 14 | 45.50 |
| 68 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | सड़ | 23 | 9.17 |
| 69 | दतिया | बड़ोनी | दतिया | चक सूनारी | 18 | 25.44 |
| | योग तहसील बड़ोनी | | | | | 3173.71 |
| 70 | दतिया | दतिया | दतिया | समरोली | 11 | 13.60 |
| 71 | दतिया | दतिया | दतिया | गड़ी | 20 | 137.70 |
| 72 | दतिया | दतिया | दतिया | पहाड़ी | 21 | 26.83 |
| 73 | दतिया | दतिया | दतिया | डोंगरपुर | 22 | 123.80 |
| 74 | दतिया | दतिया | दतिया | बनोली | 23 | 99.11 |
| 75 | दतिया | दतिया | दतिया | जखोरिया | 20 | 16.18 |
| 76 | दतिया | दतिया | दतिया | कोटरा | 14 | 90.89 |
| 77 | दतिया | दतिया | दतिया | हथलई | 19 | 25.14 |
| 78 | दतिया | दतिया | दतिया | सीतापुर | 20 | 32.10 |
| 79 | दतिया | दतिया | दतिया | उपराये | 23 | 120.55 |
| 80 | दतिया | दतिया | दतिया | गुलियापुरा | 26 | 26.21 |
| 81 | दतिया | दतिया | दतिया | बडेरा | 33 | 122.14 |
| 82 | दतिया | दतिया | दतिया | मलकपहाड़ी | 32 | 181.35 |
| 83 | दतिया | दतिया | दतिया | झड़िया | 30 | 16.97 |
| 84 | दतिया | दतिया | दतिया | चिरोली | 36 | 19.21 |
| 85 | दतिया | दतिया | दतिया | सिरोल | 28 | 28.85 |
| 86 | दतिया | दतिया | दतिया | रिछारा | 26 | 10.93 |
| 87 | दतिया | दतिया | दतिया | महुआ | 32 | 24.96 |
| 88 | दतिया | दतिया | दतिया | पचोखरा | 30 | 367.22 |
| 89 | दतिया | दतिया | दतिया | बेहरूखा | 33 | 92.49 |
| 90 | दतिया | दतिया | दतिया | ललऊआ | 20 | 26.53 |
| 91 | दतिया | दतिया | दतिया | गोरा | 29 | 87.05 |
| 92 | दतिया | दतिया | दतिया | बरोये | 30 | 15.77 |
| 93 | दतिया | दतिया | दतिया | लिधोरा | 31 | 16.70 |
| 94 | दतिया | दतिया | दतिया | डबरा बाग | 32 | 18.61 |
| 95 | दतिया | दतिया | दतिया | बुधेड़ा | 33 | 22.91 |
| 96 | दतिया | दतिया | दतिया | कुम्हेड़ी | 36 | 22.10 |
| 97 | दतिया | दतिया | दतिया | विजयपुर | 38 | 22.50 |
| 98 | दतिया | दतिया | दतिया | गोराघाट | 28 | 341.22 |
| 99 | दतिया | दतिया | दतिया | सोनागिर | - | 0.19 |
| | योग तहसील दतिया | | | | | 2149.81 |

| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क की दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|------------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 100 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | अण्डोरा | 41 | 50.76 |
| 101 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | खिरका | 36 | 106.76 |
| 102 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | सिलोरी | 37 | 136.76 |
| 103 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | मैधोरा | 34 | 40.45 |
| 104 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | भरौली | 45 | 212.98 |
| 105 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | इकोना | 38 | 27.16 |
| 106 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | बरजोरपुरा | 48 | 15.63 |
| 107 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | बिलासपुर | 45 | 12.03 |
| 108 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | सुनारी | 33 | 54.23 |
| 109 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | खजूरी | 34 | 33.59 |
| 110 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | थैली | 39 | 98.28 |
| 111 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | भरसूला | 34 | 39.66 |
| 112 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | श्यावरी | 42 | 140.56 |
| 113 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | तिलैथा | 35 | 83.90 |
| 114 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | सुखदेवपुरा | 43 | 10.55 |
| 115 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | चकपुरा | 41 | 12.15 |
| 116 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | पिपरा | 41 | 12.14 |
| 117 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | पडोल | 42 | 14.58 |
| 118 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | रमगढ़ा | 42 | 16.16 |
| 119 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | चिमघन | 43 | 13.52 |
| 120 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | तिघरू | 43 | 10.60 |
| 121 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | रूरा | 45 | 14.40 |
| 122 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | कुलैथ | 44 | 18.45 |
| 123 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | सेनपुरा | 43 | 11.26 |
| 124 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | खडीआ | 42 | 11.51 |
| 125 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | सुन्दरपुरा | 38 | 325.61 |
| 126 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | धीरपुरा | 39 | 31.50 |
| 127 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | तिघरा | 41 | 14.40 |
| 128 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | श्यावरी उचाड़ | 39 | 134.88 |
| 129 | दतिया | सेवड़ा | इन्दरगढ़ | लांच | 40 | 31.54 |
| योग तहसील सेवड़ा | | | | | | 1736.00 |
| 130 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | लेदा | 26 | 27.45 |
| 131 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | छापर मडैया | 27 | 29.11 |
| 132 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | टोरिया कला | 28 | 29.77 |
| 133 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | दिहायला | 25 | 17.81 |
| 134 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | गोकन्दा | 21 | 26.64 |
| क्र. | जिला का नाम | तहसील | विकास खण्ड | ग्राम का नाम | कारखाने से सड़क की दूरी (किमी) | आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 135 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | भैसा | 21 | 18.12 |
| 136 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | जरगवां | 15 | 29.68 |
| 137 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | रोनिजा | 22 | 20.96 |
| 138 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | सुनारी | 16 | 22.57 |
| 139 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | अन्दोरा | 15 | 30.06 |
| 140 | शिवपुरी | नरवर | नरवर | रायपहाड़ी | 15 | 18.37 |
| योग तहसील नरवर | | | | | | 270.54 |
| महायोग | | | | | | 7330.06 |

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

अजय गुप्ता, गन्ना आयुक्त.